

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2014— भाग 28, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र. 18-झूड़ाग्वालियर-288.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 4-520-अठारह-2-2004, भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर, ग्वालियर, नगरपालिका परिषद्, डबरा, जिला ग्वालियर में वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
01	महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड
02	सरदार पटेल वार्ड
03	बाबू जगजीवन राम वार्ड
04	वनखण्डेश्वर वार्ड
05	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
06	किंदवई वार्ड
07	भगतसिंह वार्ड
08	चन्द्रशेखर वार्ड
09	लाला लाजपत राय वार्ड
10	आजाद वार्ड
11	जवाहर वार्ड
12	बालाजी धाम वार्ड
13	राजीव गांधी वार्ड
14	सुभाष वार्ड
15	महात्मा ज्योतिबाराव फुले वार्ड
16	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
17	राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त वार्ड
18	तिलक वार्ड
19	तात्याटोपे वार्ड
20	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
21	इंदिरा गांधी वार्ड
22	पं. दीनदयाल वार्ड
23	गुरुद्वारा वार्ड
24	जैन मन्दिर वार्ड
25	ठाकुर बाबा वार्ड
26	संतकंवर राम वार्ड
27	विवेकानंद वार्ड
28	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
29	कबीर वार्ड
30	टैगोर वार्ड

### वार्ड क्रमांक 01 – महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड

- उत्तर** — सिमरिया राजस्व खसरा क्रमांक 1 से 290, 1564 से 1962, 2137 से 2162 तक।
- पूर्व** — सिमरिया राजस्व खसरा क्रमांक 1963 से 2289 तक।
- दक्षिण** — सिमरिया राजस्व खसरा क्रमांक 518 से 1563 तक तथा 2320 से 2522 तक।
- पश्चिम** — सिमरिया राजस्व खसरा क्रमांक 301 से 517 तक।

### वार्ड क्रमांक 02 – सरदार पटेल वार्ड

- उत्तर** — खसरा क्रमांक 292 से प्रारम्भ होकर अर्ल ग्राम के खसरा क्रमांक 558 एंवं ब्रिजपुर आई०आई०पी०एस स्कूल को लेते हुये पिछोर रोड पर कटारे की मढ़ी के पास नगर पालिका सीमा बिन्दु तक।

- पूर्व** – नगर पालिका सीमा बिन्दु से कटारे की मढ़ी से प्रारम्भ होकर आगे बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये पिछोर तिराहा पर ग्वालियर झाँसीरोड़ क्रॉस कर डबरा गाँव में दुवे जी के मकान तक।
- दक्षिण** – ग्वालियर झाँसीरोड़ पर दुवे जी के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये गोपीराम बाथम का मकान लेते हुये उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये जेल रोड पर बिजली घर तक एंव जेल रोड क्रॉस कर जेल रोड पर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये रेल्वे लाइन तक।
- पश्चिम** – जेल रोड पर रेल्वे लाइन से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये अर्द्ध ग्राम का खसरा क्रमांक 292 तक।

### वार्ड क्रमांक 03 – बाबू जगजीवन राम वार्ड

- उत्तर** – जेल रोड पर स्थित नाले से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये फूल सिंह चन्देल का मकान लेते हुये डबरा गाँव रोड पर आगे की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये ग्वालियर झाँसी रोड पर शिशुपाल दुवे जी के मकान तक।
- पूर्व** – ग्वालियर झाँसीरोड़ पर शिशु पाल दुवे के मकान से प्रारम्भ होकर ग्वालियर झाँसीरोड़ पर रामगढ़ पुल नाले तक।
- दक्षिण** – ग्वालियर झाँसी रोड रामगढ़ पुल से प्रारम्भ होकर नाले के सहारे-सहारे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये सलीम खां के मकान तक।
- पश्चिम** – सलीम खां के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये जेल रोड पर स्थित नाले तक।

### वार्ड क्रमांक 04 – वनखण्डेश्वर वार्ड

- उत्तर** – चीनौर रोड पर गंगा सरदार के मकान से प्रारम्भ होकर जेल रोड पर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये रेल्वे लाइन क्रॉस कर जेल रोड पर स्थित शासकीय नाले तक।
- पूर्व** – जेल रोड पर शासकीय नाले से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये ग्राम खेरी लेते हुये दक्षिण पूर्वी कोने पर शासकीय नाले तक।
- दक्षिण** – शासकीय नाले के दक्षिण पूर्वी कोने से प्रारम्भ होकर नाले के सहारे – सहारे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये रेल्वे लाइन क्रॉस कर चीनौर रोड पुलिया पर अमर सिंह के मकान तक।
- पश्चिम** – चीनौर रोड पर अमर सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये गंगा सरदार के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 05 – लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर** – डबरा गाँव के खसरा क्रमांक 1 से 358, 366 से 750, 775 से 890, 922, 924 से 927, 225/2171, 224/2122, एंव ग्राम अर्ल के शमशान घाट रेल्वे लाइन तक।
- पूर्व** – ग्राम अर्ल के शमशान घाट रेल्वे लाइन से प्रारम्भ होकर रेल्वे लाइन के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ते हुये जेल रोड तक।
- दक्षिण** – रेल्वे लाइन जेल रोड से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये हीरालाल के मकान तक एंव चीनौर रोड क्रॉस कर सिरोही रोड पर दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये शासकीय वेयर हाउस की बाउण्ड्री तक।
- पश्चिम** – शासकीय वेयर हाउस की बाउण्ड्री से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये डबरा गाँव के खसरा क्रमांक 1 तक।

### वार्ड क्रमांक 06 – किंदवई वार्ड

- उत्तर** — डॉ. अनरेश कैलासिया के फार्म के पास स्थित डबरा गाँव के खसरा क्रमांक 1817 से प्रारम्भ होकर सिरोही रोड पर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये चीनौर रोड पर महेश साहू की चक्की तक।
- पूर्व** — चीनौर रोड पर महेश साहू की चक्की से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये रावत के मकान तक। रावत के मकान से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त मकान लेते हुये रमेश गुप्ता के मकान तक। रमेश गुप्ता के मकान से दक्षिण की ओर बढ़ते हुये भितरवार रोड पर हरी प्रकाश शिवहरे के मकान तक।
- दक्षिण** — भितरवार रोड पर हरी प्रकाश शिवहरे के मकान से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त मकान लेते हुये शान्ति वेयर हाउस तक।
- पश्चिम** — भितरवार रोड पर शान्ति वेयर हाउस से डबरा गाँव राजस्व सीमा के सहारे— सहारे डॉ. कैलासिया के फार्म के सामने खसरा क्रमांक 1817 तक।

### वार्ड क्रमांक 07 – भगतसिंह वार्ड

- उत्तर** — ग्वालियर झांसी रोड पर एस. आर. कॉन्वेन्ट, स्कूल पिछोर तिराहे से प्रारम्भ होकर पिछोर रोड पर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये रामगढ खसरा क्रमांक 168 नगर पालिका सीमा बिन्दु तक।
- पूर्व** — रामगढ खसरा क्रमांक 168 नगर पालिका सीमा बिन्दु से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन/भूमि लेते हुये सहराई मार्ग पर ओब्बर ब्रिज तक।
- दक्षिण** — सहराई मार्ग पर ओब्बर ब्रिज से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन /भूमि लेते हुये ग्वालियर झांसी रोड पर रामप्रकाश साहू के मकान डी.पी. तक। डी.पी. के सामने रोड क्रॉस कर फेरन सिंह का प्लाट लेते हुये एंव आगे की ओर बढ़ते हुये सावरा एंव हाफीज खाँन का मकान लेते हुये छिंगा सेन का मकान लेते हुये राजेन्द्र मिश्रा के मकान तक।
- पश्चिम** — ग्वालियर झांसी रोड राजेन्द्र मिश्रा के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन/भूमि को लेते हुये पिछोर तिराहे एस. आर. कॉन्वेन्ट, स्कूल तक।

### वार्ड क्रमांक 08 – चन्द्रशेखर वार्ड

- उत्तर** — ग्वालियर झांसी रोड पर स्थित भगवती एग्रो से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये रोड क्रॉस कर इशाक के मकान तक, एंव रोड क्रॉस कर आगे की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त मकान लेते हुये धन्ती वाई के मकान लेते हुये एंव रामकुमार के मकान एंव सत्तार के मकान को लेते हुये सहराई रोड पर स्थित डी.पी. तक।
- पूर्व** — सहराई रोड पर स्थित डी.पी. से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन /भूमि को लेते हुये ओब्बर ब्रिज सहराई रोड क्रॉस कर सम्पूर्ण सहराई ग्राम राजस्व लेते हुये खसरा क्रमांक 400 तक नगर पालिका सीमा बिन्दु तक।
- दक्षिण** — नगर पालिका सीमा बिन्दु से खसरा क्रमांक 400 से प्रारम्भ होकर सहराई नाले के किनारे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त मकान लेते हुये रामगढ पुल पर स्थित खेमराज कुशवाह के मकान तक।
- पश्चिम** — ग्वालियर झांसी रोड पर रामगढ पुल के पास स्थित खेमराज कुशवाह के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं ओर के समस्त भवन/ भूमि को लेते हुये भगवती एग्रो इण्डस्ट्रीज ग्वालियर झांसी रोड तक।

### वार्ड क्रमांक 09 – लाला लाजपत राय वार्ड

- उत्तर** – खेड़ी नटवा राजस्व खसरा क्रमांक 1 से 215 तक एंव सुल्तानपुर राजस्व खसरा क्रमांक 1 से 297, 352 से 399 तक एंव निभैरा राजस्व खसरा क्रमांक 101 से 133, 142 से 177, 212 से 293, 427 से 655, 500 से 505, 564 से 577 तक।
- पूर्व** – निभैरा राजस्व खसरा क्रमांक 531 से 563, 669 से 715 तक एंव गैडोल खुर्द राजस्व खसरा क्रमांक 293 से 374 एंव 374 / 472।
- दक्षिण** – गैडोल कला राजस्व खसरा क्रमांक 548 से 606 तक तिघरु राजस्व खसरा क्रमांक 461 से 480 तक।
- पश्चिम** – तिघरु राजस्व खसरा क्रमांक 211 से 460 तक एंव खेड़ी नटवा खसरा क्रमांक 216 से 260 तक।

### वार्ड क्रमांक 10 – आजाद वार्ड

- उत्तर** – नगर पालिका उत्तरी पश्चिमी कोने से नाले के किनारे से लखन सिंह कुशवाह के मकान से प्रारम्भ होकर नाले के सहारे-सहारे बुजुर्ग पंचायत की सीमा बिन्दु सहराई पुल तक।
- पूर्व** – बुजुर्ग पंचायत सहराई रोड नाले से प्रारम्भ होकर बुजुर्ग पंचायत सीमा के सहारे-सहारे बाथम कालोनी लेते हुये अजमेर सिंह रावत के खेत तक।
- दक्षिण** – अजमेर सिंह रावत के खेत से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये नहर रोड पर दार्यों और के समस्त भवन / भूमि को लेते हुये सन्तोष होटल वाले के प्लाट एंव आदर्श मान्टेश्वरी स्कूल तक।
- पश्चिम** – डी.पी एंव आदर्श मान्टेश्वरी स्कूल से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये रामनाथ कुशवाह के मकान तक। रामनाथ कुशवाह के सामने रोड क्रॉस कर गैडोल रोड पर आगे की ओर बढ़ते हुये मुन्ना खेनवार के मकान तक। मुन्ना खेनवार के मकान से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये मनोज लुहार के मकान तक। मनोज लुहार के मकान के सामने बुजुर्ग रोड क्रॉस कर प्रकाश झा का हावड़ लेते हुये उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये हनुमान जी के मन्दिर तक। हनुमान जी के मन्दिर के सामने रोड क्रॉस कर राजेश बाथम का मकान एंव सरदार सिंह परिहार का मकान लेते हुये लखन सिंह कुशवाह के मकान व शासकीय नाले तक।

### वार्ड क्रमांक 11 – जवाहर वार्ड

- उत्तर** – निशादराज स्कूल से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन भूमि को लेते हुये ग्वालियर झासी रोड क्रॉस कर दिनेश गुप्ता के प्लाट को लेते हुये आगे की ओर बढ़ते हुये दीदार कालोनी रोड क्रॉस कर बी०एस गोरखवार का मकान लेते हुये अजमेर सिंह रावत के मकान तक।
- पूर्व** – अजमेर सिंह रावत के मकान से प्रारम्भ होकर बुजुर्ग राजस्व सीमा के सहारे सहारे दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन भूमि को लेते हुये बुजुर्ग उप स्वास्थ्य केन्द्र तक।
- दक्षिण** – बुजुर्ग गाँव के उप स्वास्थ्य केन्द्र से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये बुजुर्ग राजस्व सीमा के सहारे-सहारे ग्वालियर झासी रोड पर सॉखनी वालों के मील तक एंव रोड क्रॉस कर आगे की ओर बढ़ते हुये बद्री नगरिया के मकान को लेते हुये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन भूमि को लेते हुये ब्रह्मकुमारी आश्रम व मोहन सिंह परिहार के मकान को लेते हुये नहर रोड पर नीचल के प्लाट तक।
- पश्चिम** – नहर रोड पर नीचल के प्लाट से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन भूमि को लेते हुये नहर रोड पर निशादराज स्कूल तक।

### वार्ड क्रमांक 12 – बालाजी धाम वार्ड

- उत्तर** – नहर रोड पर रमेशचन्द्र कट्ठिल के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन भूमि को लेते हुये ग्वालियर झासी रोड पर कुलदीप साहू के फड़ तक।

- पूर्व** — ग्वालियर झाँसी रोड पर कुलदीप साहू के फड़ से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन भूमि को लेते हुये नहर पर स्थित मन्दिर तक।
- दक्षिण** — ग्वालियर झाँसी रोड पर स्थित मंदिर के किनारे — किनारे पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन भूमि को लेते हुये रेल्वे लाइन कठउ पुलिया तक।
- पश्चिम** — रेल्वे लाइन कठउ पुलिया से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन / भूमि को लेते हुये वंशकार कालोनी लेते हुये रेल्वे फाटक तक। रेल्वे फाटक के पास रोड क्रॉस कर आगे की ओर बढ़ते हुये ठाकुर बावा रोड पर रामवाटिका लेते हुये नहर के किनारे किनारे नहर रोड पर रमेश कट्टिल के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 13 — राजीव गांधी वार्ड

- उत्तर** — ग्वालियर झाँसी रोड पर न्यू रामगढ़ पुल से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये नंदू का डेरा लेते हुये स्नेहलता त्रिपाठी के मकान तक।
- पूर्व** — स्नेहलता त्रिपाठी के मकान से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये बुजुर्ग रोड पर लक्ख्यूराम झा के मकान तक।
- दक्षिण** — बुजुर्ग रोड पर लक्ख्यूराम झा के मकान से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये समस्त गलियाँ एंव रोड क्रॉस कर विश्वनाथ मोदी के मकान तक।
- पश्चिम** — झाँसी ग्वालियर रोड पर विश्वनाथ मोदी के मकान से प्रारम्भ होकर दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये ग्वालियर झाँसी रोड पर रामगढ़ पुलिया तक।

### वार्ड क्रमांक 14 — सुभाष वार्ड

- उत्तर** — कम्यूनिटी हाल रोड पर उत्तर पूर्वी कोने जयसिंह दाऊ के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये ग्वालियर झाँसी रोड पर गौरी स्पेयर पार्टस तक।
- पूर्व** — ग्वालियर झाँसी रोड पर गौरी स्पेयर पार्टस से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त गलियाँ एंव रोड क्रॉस करते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये हरसी भितरवार रोड रामबाबू बड़ेरिया के मकान तक।
- दक्षिण** — हरसी भितरवार रोड पर रामबाबू बड़ेरिया के मकान से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये अस्पताल रोड क्रॉस कर गाड़ी अड़डा रोड मुन्ना निगोती की दुकान तक।
- पश्चिम** — गाड़ी अड़डा रोड पर मुन्ना निगोती की दुकान से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये तहसील रोड, रामगढ़ रोड हाँस्पीटल रोड क्रॉस करते हुये रामगढ़ रोड पर रामजीलाल विस्वारी के मकान के बगल गली में बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये अस्पताल बाउण्ड्री के सहारे—सहारे उषा कालोनी महेश बाबू शर्मा के मकान तक, एंव महेश बाबू शर्मा के मकान से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये हरगोविन्द के मकान तक एंव पोखर के सहारे—सहारे शा०उ०मा० विद्यालय को लेते हुये कांजी हाउस रोड क्रॉस कर चतुरी साहू का मकान लेते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये जय सिंह दाऊ के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 15 — महात्मा ज्योतिबाराव फुले वार्ड

- उत्तर** — रामगढ़ गढ़ी से प्रारम्भ होकर नाले के सहारे—सहारे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये रामगढ़ पुल ग्वालियर झाँसी रोड तक।
- पूर्व** — रामगढ़ पुल से प्रारम्भ होकर ग्वालियर झाँसी रोड पर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये मुक्तेश्वर आश्रम तक।
- दक्षिण** — कम्यूनिटी हाल रोड पर मुक्तेश्वर आश्रम से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये पटवारी हाउस तक। पटवारी हाउस से परसेडिया की गली में दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये नारायण जाटव के मकान तक, नारायण जाटव के मकान से कांजी हाउस रोड क्रॉस कर जितेन्द्र गौतम का मकान लेते हुये दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के

समस्त मकान लेते हुये पोखर को छोड़ते हुये आदर्श मान्देश्वरी स्कूल की गली में आगे की ओर बढ़ते हुये सोनी कम्पाउण्डर के मकान तक, सोनी कम्पाउण्डर के मकान से हरचरन वैद्य की गली में बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रामगढ़ रोड निभेरा वाले पंडित जी के मकान तक।

- पश्चिम –** रामगढ़ रोड पर निभेरा वाले पंडित जी के मकान से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रामगढ़ चौराहा रोड क्रॉस करते हुये नाले के सहारे-सहारे दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रामगढ़ गढ़ी तक।

### वार्ड क्रमांक 16 – डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर –** डबरा गाँव रोड पर न. पा. सीमा बिन्दु शासकीय नाले से प्रारम्भ होकर क्रबिस्तान की ओर नाले के सहारे-सहारे बढ़ते हुये पूर्व की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये तथा खाली खुले हुये प्लाट रामगढ़ रोड चौराहे तक।
- पूर्व –** खाली खुले हुये प्लाट से रोड क्रॉस करते हुये रामगढ़ रोड पर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये लच्छी कठिठल की दुकान तक।
- दक्षिण –** लच्छी कठिठल की दुकान से गाड़ी अड़डा रोड पर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये हनुमन्त नाई की दुकान लेते हुये समस्त गलियाँ क्रॉस करते हुये डबरागाँव रोड पर मातादीन जाटव के मकान तक।
- पश्चिम –** मातादीन जाटव के मकान से प्रारम्भ होकर डबरा गाँव रोड पर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये नगर पालिका सीमा बिन्दु शासकीय नाले तक।

### वार्ड क्रमांक 17 – राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त वार्ड

- उत्तर –** मदरसा मस्जिद रोड हवीव खां के मकान से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये धनकुर्ईया के मकान से शिवचरन कड़ेरे के मकान तक।
- पूर्व –** शिवचरन कड़ेरे के मकान से कोठारी वाली गली में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये ठाकुरदास के मकान तक, ठाकुर दास के मकान से जंगीपुरा रोड क्रॉस कर दुवे जी की बगिया लेते हुये गाड़ी अड़डा बाउण्डी के सहारे-सहारे समस्त गलियाँ एंव रोड क्रॉस करते हुये झॉसी वालों का चौराहा गणेश मेडीकल स्टोर तक।
- दक्षिण –** गणेश मेडीकल स्टोर से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये गोस्वामी वॉच कम्पनी की दुकान रेल्वे लाइन तक।
- पश्चिम –** गोस्वामी वॉच कम्पनी दुकान से रेल्वे लाइन के सहारे-सहारे उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये मदरसा मस्जिद रोड हबीब खां मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 18 – तिलक वार्ड

- उत्तर –** रेल्वे बाउण्डी पर स्थित शासकीय नाले से प्रारम्भ होकर नाले के सहारे-सहारे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये डबरा गाँव रोड पर मस्जिद तक।
- पूर्व –** मस्जिद से प्रारम्भ होकर डबरा गाँव रोड पर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये के. पी. पेन्टर के मकान तक, के. पी. पेन्टर के मकान से जंगीपुरा रोड दायीं और के समस्त मकान लेते हुये डॉ. त्रिवेदी के मकान तक।
- दक्षिण –** डॉ. त्रिवेदी के मकान से प्रारम्भ होकर नैना प्रजापति के मकान तक।
- पश्चिम –** नैना प्रजापति के मकान से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये कोठारी की गली में आगे की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रेल्वे बाउण्डी के सहारे-सहारे स्थित शासकीय नाले तक।

### वार्ड क्रमांक 19 – तात्याटोपे वार्ड

- उत्तर** – तिवारी फार्म की बाउण्ड्री पर स्थित शासकीय नाले के सहारे–सहारे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये शमशान घाट एंव दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये रेल्वे लाइन तक।
- पूर्व** – शासकीय नाले से प्रारम्भ होकर रेल्वे लाइन के सहारे–सहारे दक्षिण की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये परमलाल के मकान तक।
- दक्षिण** – रेल्वे लाइन के किनारे परमलाल के मकान से प्रारम्भ होकर मीट मार्केट रोड क्रॉस कर गांधी पार्क लेते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये गनपत शाक्य के मकान तक।
- पश्चिम** – गनपत शाक्य के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये तिवारी फार्म बाउण्ड्री शा. नाले तक।

### वार्ड क्रमांक 20 – डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

- उत्तर** – गुप्ता पुरा रोड पर राजू सोनी के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त भवन लेते हुये तिवारी फार्म रोड मक्खन साहू के मकान तक। मक्खन साहू के मकान से आगे बढ़ते हुये मेहरा के मकान तक। मेहरा के मकान से रोड क्रॉस कर रजियार वाले जैन के मकान से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये कल्लू खटीक का मकान एंव रोड क्रॉस कर रेल्वे लाइन तक।
- पूर्व** – कल्लू खटीक के मकान के सामने रेल्वे लाइन से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये हरसी भितरवार रोड पर रेल्वे पुल तक।
- दक्षिण** – हरसी भितरवार रोड पर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये रोड गलियाँ क्रॉस करते हुये पशु चिकित्सालय रोड पर श्री कृष्ण कुमार पाण्डे की दुकान तक।
- पश्चिम** – श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय की दुकान से प्रारम्भ होकर पशु चिकित्सालय रोड पर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान व गलियाँ क्रॉस करते हुये गुप्तापुरा रोड पर राजू सोनी के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 21 – इंदिरा गांधी वार्ड

- उत्तर** – जगदम्बा कालोनी में स्थित आरा मशीन से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये चीनोर रोड क्रॉस कर चीनोर रोड पुलिया तक, एंव चीनोर रोड पुलिया से नाले के किनारे–किनारे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये तिवारी फार्म बाउण्ड्री तक।
- पूर्व** – तिवारी फार्म बाउण्ड्री से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये महावीर पुरा रोड पर तिवारी फार्म की बाउण्ड्री तक।
- दक्षिण** – महावीर पुरा रोड पर तिवारी फार्म की बाउण्ड्री से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये समस्त गली रोड क्रॉस करते हुये पशु चिकित्सालय रोड पर दिलीप जैन के मकान को लेते हुये आगे बढ़ते हुये हरसी भितरवार रोड पर अतर सिंह रावत के मकान को लेते हुये आगे बढ़ते हुये हरसी भितरवार रोड पर पुन्ना रेडियो वाले के मकान तक।
- पश्चिम** – हरसी भितरवार रोड पर पुन्ना रेडियो वाले के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये जगदम्बा कालोनी के दार्यों ओर के समस्त मकान लेते हुये आरा मशीन तक।

### वार्ड क्रमांक 22 – पं. दीनदयाल वार्ड

- उत्तर** – हरसी भितरवार रोड पर स्थित म.प्र.वि.वि. कम्पनी की बाउण्ड्री से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों ओर की समस्त भवन भूमि को लेते हुये रामसेवक बाबूजी के मकान तक।
- पूर्व** – रामसेवक बाबूजी के मकान से प्रारम्भ होकर शुगर मिल बाउण्ड्री के सहारे–सहारे रेल्वे लाइन तक रेल्वे लाइन से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये खल्लासी लाइन लेते हुये एंव शुगर मिल की दफाई एंव छोले की दफाई लेते हुये एंव मगरौरा राजस्व ग्राम नगर पालिका सीमा बिन्दु तक।

- दक्षिण** – नगर पालिका सीमा बिन्दु पर स्थित मगरौरा राजस्व के खसरा क्रमांक 1499 से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त भवन भूमि लेते हुये सीमा बिन्दु के मगरौरा राजस्व के खसरा क्रमांक 2110 तक।
- पश्चिम** – नगर पालिका सीमा बिन्दु मगरौरा राजस्व के खसरा क्रमांक 2110 से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त भवन भूमि लेते हुये हरसी भितरवार रोड पर स्थित बरोठा दफाई छोड़ते हुये म.प्र.वि.वि. कम्पनी कार्यालय की बाउण्ड्री तक।

### वार्ड क्रमांक 23 – गुरुद्वारा वार्ड

- उत्तर** – हरसी भितरवार रोड पर हरकिशोर दुवे के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रेल्वे लाइन तक।
- पूर्व** – रेल्वे लाइन से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रेल्वे स्टेशन लेते हुये शुगर मिल बाउण्ड्री तक।
- दक्षिण** – शुगर मिल बाउण्ड्री के सहारे – सहारे आगे बढ़ते हुये सौदागर सिंह के मकान तक।
- पश्चिम** – शुगर मिल बाउण्ड्री पर स्थित सौदागर सिंह के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये हरसी भितरवार रोड पर हरकिशोर दुवे के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 24 – जैन मन्दिर वार्ड

- उत्तर** – रेल्वे ओब्हर ब्रिज से उत्तर पश्चिम कोने से प्रारम्भ होकर हरसी भितरवार रोड पर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये समस्त रोड गलियाँ को क्रॉस करते हुये दायीं और के समस्त भवन भूमि लेते हुये गीता टाकीज चौराहे पर भुल्लू गुरु के मकान तक।
- पूर्व** – भुल्लू गुरु के मकान से गीता टाकीज रोड पर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त भवन/भूमि को लेते हुये नामदेव के मकान, खुली भूमि तक एवं खुली भूमि से आगे की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये ठाकुर बाबा रोड पर राजू नारंग के मकान तक।
- दक्षिण** – राजू नारंग के मकान से रोड क्रॉस कर मदनलाल सूरी का मकान लेते हुये ठाकुर बाबा रोड पर आगे की ओर बढ़ते हुये अशोक मदान के मकान तक। अशोक मदान के मकान से कमल टाकीज रोड पर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये समस्त गलियाँ रोड क्रॉस करते हुये दायीं और के समस्त भूमि भवन लेते हुये डॉ० केतकर नर्सिंग होम तक व नर्सिंग होम के सामने रोड क्रॉस कर सोसायटी रोड पर बढ़ते हुये रेल्वे शिशु मन्दिर लेते हुये रेल्वे लाइन तक।
- पश्चिम** – रेल्वे शिशु मन्दिर रेल्वे लाइन से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये रेल्वे ओब्हर ब्रिज के कोने तक।

### वार्ड क्रमांक 25 – ठाकुर बाबा वार्ड

- उत्तर** – प्लेट फार्म क्रमांक-2 रेल्वे लाइन से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये सोसायटी रोड क्रॉस कर बच्चूमूल का मिल को लेते हुये आगे की ओर बढ़ते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये कल्याणदास पंजाबी के मकान तक एवं ठाकुर बाबा रोड क्रॉस कर लद्वाराम गुरुद्वारा को लेते हुये दायीं और के समस्त मकान लेते हुये डावानी का मकान लेते हुये एवं जुगल किशोर के मकान को लेते हुये नहर रोड पर नरेन्द्र शर्मा के मकान तक।
- पूर्व** – नरेन्द्र शर्मा के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर नहर के किनारे – किनारे आगे की ओर बढ़ते हुये रोड क्रॉस कर ठाकुर बाबा मन्दिर तक।
- दक्षिण** – ठाकुर बाबा मन्दिर से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये ऐरव बाबा मन्दिर को लेते हुये रेल्वे लाइन तक।
- पश्चिम** – ऐरव बाबा मन्दिर रेल्वे लाइन से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये रेल्वे लाइन के सहारे – सहारे प्लेट फार्म क्रमांक 2 रेल्वे लाइन तक।

### वार्ड क्रमांक 26 – संतकंवर राम वार्ड

- उत्तर** – हरसी भितरवार रोड गीता टाकीज चौराहे पर गोपाल दास गोयल के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त मकान लेते हुये पुलिस थाना तक।
- पूर्व** – ग्वालियर झाँसी रोड पर पुलिस थाना से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त मकान लेते हुये महेश हलवाई के सामने रोड क्रॉस कर राजेन्द्र घुरा का मकान लेते हुये आगे की ओर बढ़ते हुये अमर गुप्ता के मकान तक। अमर गुप्ता के मकान से अशोक परिहार के मकान को लेते हुये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन भूमि को लेते हुये नहर रोड पर डेंजी मोरल स्कूल तक।
- दक्षिण** – नहर रोड पर डेंजी मोरल स्कूल से पश्चिम दिशा की बढ़ते हुये रोड क्रॉस कर नहर के किनारे – किनारे दार्यों और के समस्त भवन/ भूमि को लेते हुये परसूराम पाराशार के मकान को लेते हुये एवं आगे की ओर बढ़ते हुये खेमचन्द्र वर्मा एवं भोजराज का मकान लेते हुये ठाकुर बाबा रोड पर सरस्वती शिशु मन्दिर तक।
- पश्चिम** – ठाकुर बाबा रोड पर सरस्वती शिशु मन्दिर से प्रारम्भ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त मकान लेते हुये कन्हैयालाल, गंगाराम के मिल को लेते हुये रामदास विलैया के मकान तक एवं रोड क्रॉस कर प्रमोद विलैया का मकान एवं गीता टाकीज लेते हुये हरसी भितरवार रोड गोपालदास गोयल के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 27 – विवेकानंद वार्ड

- उत्तर** – ग्वालियर झाँसी रोड के बुजुर्ग रोड पर उत्तर पूर्व कोने पर स्वयंवर लॉज बुजुर्ग रोड पर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन/ भूमि लेते हुये गैडोल रोड एवं गलियाँ क्रॉस करते हुये पुरुषोत्तम सेथिया के मकान तक।
- पूर्व** – पुरुषोत्तम सेथिया के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुये दार्यों और के समस्त भवन/ भूमि लेते हुये व गैडोल रोड क्रॉस कर गैडोल रोड पर आगे की ओर बढ़ते हुये नहर रोड पर रामस्वरूप की चक्की तक।
- दक्षिण** – नहर रोड पर रामस्वरूप की चक्की से पश्चिम की ओर बढ़ते हुये नहर तक एवं नहर से आगे बढ़ते हुये राजेन्द्र गुप्ता के मकान तक।
- पश्चिम** – नहर रोड पर राजेन्द्र गुप्ता के मकान से उत्तर की ओर बढ़ते हुये जनकराज शर्मा के मकान तक एवं रोड क्रॉस कर मन्दिर से आगे की ओर बढ़ते हुये रघुकेवट के मकान तक एवं ग्वालियर झाँसी रोड पर रघुकेवट के मकान से स्वयंवर लॉज तक।

### वार्ड क्रमांक 28 – श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

- उत्तर** – कर्ता राजस्व खसरा क्रमांक 1 से 8 , 30 से 40, 159 से 335, 391 से 393, 431, 447 से 451, 459 से 473, 476 से 640, 2 / 830, 30 / 822, 228 / 827।
- पूर्व** – कर्ता राजस्व खसरा क्रमांक 641 से 821 तक चांदपुर राजस्व खसरा क्रमांक 550 / 1369, 479 से 480, 531 से 550, 572 से 975, 480 / 1355, 631 / 1358, 636 / 1378, 750 / 1354, 758 / 1366, 808 / 1362, 895 / 1379, 900 / 1375, 919 / 1389, 927 / 1363, 932 / 1359, 935 / 1373।
- दक्षिण** – चांदपुर राजस्व खसरा क्रमांक 976 से 1023, 1117 से 1346, 994 / 1384, 1260 / 1348, 1261 / 1349, 1262 / 1353, 1268 / 1352, 1297 / 1361, 1302 / 1367, 1302 / 1368, 1302 / 1369, 1283 / 1391, 1297 / 1361, 1260 / 1348, 1003 / 1381, 1297 / 1361, कर्ता राजस्व खसरा क्रमांक 336 से 390, 394 से 430, 432 से 446, 452 से 458, 474 से 475, 455 / 828, 396 / 825, 357 / 827, 416 / 829, 418 / 826,
- पश्चिम** – कर्ता राजस्व खसरा क्रमांक 9 से 22 तक, 41 से 158, 69 / 823।

### वार्ड क्रमांक 29 – कबीर वार्ड

- उत्तर** – ग्राम बरोठा के राजस्व खसरा क्रमांक 480 से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर राजस्व सीमा के सहारे–सहारे बढ़ते हुये दार्थी और के समस्त भवन/भूमि को लेते हुये रामकिशन के मकान तक। रामकिशन के मकान से दार्थी और के समस्त भवन/भूमि एवं आशामानी मंदिर राजस्व सीमा लेते हुये खसरा क्रमांक 437 तक।
- पूर्व** – ग्राम सिरोही के खसरा क्रमांक 1 से 153 तक एवं ग्राम बरोठा के खसरा क्रमांक 780 से 1404 तक।
- दक्षिण** – ग्राम बरोठा के खसरा क्रमांक 481 से खसरा क्र. 779 तक एवं बरोठा आदिवासी दफाई सम्मिलित करते हुए।
- पश्चिम** – ग्राम बरोठा के खसरा क्रमांक 138 से 480 तक।

### वार्ड क्रमांक 30 – टैगोर वार्ड

- उत्तर** – इटायल राजस्व खसरा क्रमांक 1 से 430, 474 से 500, 501 से 560, 671 से 700 तक।
- पूर्व** – इटायल के खसरा क्रमांक 747 से 917, 1973 से 1810, 1388 से 1393 तक।
- दक्षिण** – मार्केटिंग सोसायटी से प्रारम्भ होकर लखन के मकान को लेते हुये राजस्व सीमा के सहारे सहारे खसरा क्रमांक 248 तक।
- पश्चिम** – ग्राम सिरोही के खसरा क्रमांक 438 से 546 तक एवं ग्राम इटायल के खसरा क्रमांक 431 से 685 तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर.

Gwalior, the 10<sup>th</sup> September 2014

No Q-DUDA-Gwl-288- in exercise of the power conferred under sub- section (i) of section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) read with notification No. 4-25-XVIII-3-2004 Bhopal, Dated 24<sup>th</sup> February 2004 of urban administration and Development Deptt. Of Madhya Pradesh Govt. Mantralay Bhopal. I P. Narhari Collector Gwalior hereby notifies the intension to include the following description of ward boundaries and schedule of the wards of Nagar Palika Parishad Dabri Distt. Gwalior as shown below.

### SCHEDULE

<b>Ward No.</b>	<b>Name of the Ward</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
01	Maharani Laxmi Bai Ward
02	Sardar Patel Ward
03	Babu Jagjeevan Ram Ward
04	Vankhandeshwar Ward
05	Lal Bahadur Shastri Ward
06	Kidvai Ward
07	Bhagat Singh Ward
08	Chandra Shekhar Ward

(1)	(2)
09	Lala Lajpat Rai Ward
10	Azad Ward
11	Jawahar Ward
12	Balaji Dham Ward
13	Rajeev Gandhi Ward
14	Subhash Ward
15	Mahatma Jyotibarao fule Ward
16	Dr. Ambedkar Ward
17	Rastrakavi Maithli Sharan Gupt Ward
18	Tilak Ward
19	Tatyा Tope Ward
20	Dr. Rajendra Prasad Ward
21	Indira Gandhi Ward
22	pandit Deendayal Ward
23	Gurudwara Ward
24	Jain Mandir Ward
25	Thakur Baba Ward
26	Sant Kanwar Ram Ward
27	Vivekanand Ward
28	Shyama Prasad Mukharjee Ward
29	Kabir Ward
30	Tagore Ward

**Ward No. 01 – Maharani Lakshmi Bai Ward**

- North** – From Simariya revenue survey No. 1 to 290, from 1564 to 1962, from 2137 to 2162 .
- East** – From Simariya revenue survey No. 1963 to 2289.
- South** – From Simariya revenue survey No.518 to 1563 and from 2320 to 2522
- West** – From Simariya revenue survey No. 301 to 517.

**Ward No. 02 – Sardar Patel Ward**

- North** – Starting from survey No. 292, taking Arroo Gram survey No. 558 and BrijPur I.I.P.S. School on Pichhore Road near of Katare Madhi up to Municipality border point.
- East** – Starting from Municipality border point Katare Madhi, proceeding taking all the houses of right side, crossing on Gwalior Jhansi Road at Pichhore Tiraha up to Dubeyji's house at Dabra Gaon.
- South** – Starting from Dubeyji's house at Gwalior Jhansi Road proceeding toward west side taking all the houses of right side, taking Gopiram Batham's house proceeding toward North side, power house at Jail Road and crossing Jail Road on Jail Road proceeding west side up to railway line.
- West** – On Jail Road starting from railway line proceeding toward North side , taking all the building/land up to Arroo Gram Survey No. 292.

**Ward No. 03 – Babu Jagjeevan Ram Ward**

- North** – Starting from Nala situated at Jail Road proceeding toward East taking all the houses of right side ,taking Phool Singh Chandel house proceeding on Dabra Gaon Road, taking all houses of right side up to ShisuPal Dubeyji's house at Gwalior Jhansi Road .

- East** – Starting from ShisuPal Dubeyji's house at Gwalior Jhansi Road upto Ramgarh bridge nala at Gwalior Jhansi Road.
- South** – Starting from Ramgarh bridge at Gwalior Jhansi Road proceeding toward West side adjacent to nala taking all the building/ land of right side upto Saleem Khan's house.
- West** – Starting from Saleem Khan.s house proceeding toward North side taking all the buildings /lands of right side upto nala situated Jail Road.

#### **Ward No. 04 – Vankhandeshwar Ward**

- North** – Starting from Gangaram Sardar's house at Chinor Road on jail Road proceeding toward east side taking all the buildings/ land of right side crossing railway line up to government gutter situated at Jail Road.
- East** – Starting from government gutter at jail Road proceeding toward south side taking Gram Kheri upto government gutter at south east corner.
- South** – Starting from the south east corner of government gutter proceeding toward west direction adjust to gutter crossing railway line upto Amar Singh's house at Chinor Road puliya .
- West** – Starting from Amar Singh's house at Chinor Road proceeding toward north direction upto Ganga Sardar's house.

#### **Ward No. 05 – Lal Bahadur Shastri Ward**

- North** – From survey no of Dabra Gaon 1 to 358, 366 to 750, from 775 to 890, 922, from 924 to 927, 225/2171, 224/2122 and upto cremation place of Gram Aaroo railway line.
- East** – Starting from cremation place of Gram Aaroo railway line adjacent to railway line proceeding toward south upto jail road.
- South** – Starting from railway line Jail Road proceeding toward west taking all the houses of right side upto Heeralal's house and crossing chinor road taking all the houses of right side at Sirohi road up to boundary of government ware houses.
- West** – Starting from boundary of government ware house proceeding toward north direction taking all the buildings/land of right side upto servey no 1 of Dabra gaon.

#### **Ward No. 06 – Kidvai Ward**

- North** – Starting from Dr. Anresh kailashiya's From near all Dabra gaon of survey no. 1817 proceeding toward east direction at Sirohi road taking all the buildings / lands on chinor road up to Mahesh Singh Flour mill.
- East** – Starting from Mahesh Singh Flour mill at chinor road proceeding toward north direction up to rawat's house, from rawat's house proceeding toward west direction taking all the houses at right side up to ramesh gupta's house. from ramesh gupta's house proceeding to South side at bhitarwar road Hari prakash shivhare's house.
- South** – from Hari prakash Shivhare's at bhitarwar road proceeding towards west direction and taking all the house at right side and taking all the houses up to Shanti ware House.
- West** – from Shanti ware house at bhitarwar road adjacent to dabra gaon revenue border up to Dr. Kailashiya's Farm house in front Survey no1817.

### **Ward No. 07 – Bhagat Singh Ward**

- North** – Starting From S.R. convent School pichhore tiraha at Gwalior Jhansi road proceeding toward east direction at piclore road taking all the Buildings / Lands of right side up to ramgarh survey no 168 Municipality border point.
- East** – Starting From ramgarh survey no 168 Municipality border point proceeding toward South direction taking all the buildings / Lands at right side up to over bridge at sahrai road.
- South** – Starting From bridge at sahrai road proceeding toward west direction taking all the Buildings / Land of right side up to Ram prakash Sahu's house till D.P at Gwalior Jhansi road Crossing Savra and Hafij khan's house taking Chhinga sen's house up to rajendra mishra's house.
- West** – Starting from misra's house at Gwalior Jhansi road proceeding toward north direction taking all Building / Land of right side up to S.R Convent school at pichhore tiraha.

### **Ward No. 08– Chandra Shekhar Ward**

- North** – Starting From Bhagwati agro industries situated at Gwalior Jhansi road Proceeding toward East direction crossing road up to Ishak's house and Crossing the proceeding ahead taking all the house at right side taking Dhanti Bai's house and Taking Ramkumar,s House and Sattar's house up to D.P situated at Sahrai Road .
- East** – Starting From D.P. situated at Sahrai road proceeding toward South direction taking all the Building / Land of right side Taking all Revenue Survey no 400 Municipality border point.
- South** – Starting From Municipality border point Survey no 400 proceeding toward west direction with edge of sahrai nala Taking all the House of right side up to khemraj Kuswah's House Situated at ramgarh Bridge.
- West** – Starting From khemraj Kuswah's House at Gwalior Jhansi road near of Ramgarh bridge proceeding toward north direction taking all the Buildings / Land at right side up to bhagwati agro industries at Gwalior Jhansi road.

### **Ward No. 09– Lala lajpat Rai Ward**

- North** – From Revenue survey no 1 kheri Natwa up to 215 and From Sultanpur revenue Survey No. 1 to 297 from 352 to 399 and Nibhera revenue Survey No. 101 to 133, 142 to 177, 212 to 293, 427 to 655, 500 to 505 from 564 to 577.
- East** – From nibhera revenue survey No. 531 to 563, 669 to 715 and Gaindol khurd revenue No. 293 to 374 and 374/ 472.
- South** – From Gaindol kala revenue survey No. 548 to 606 and tighroo revenue survey No. 461 to 480.
- West** – From tighroo revenue survey No. 211 to 460 and Kheri natwa survey No. 216 to 260.

### **Ward No. 10– Azad Ward**

- North** – Staring From Lakhan Kuswah's house edge of nala of Municipality north West corner adjacent to nala up to border point of Bujurg Panchayat till Sahrai bridge.
- East** – Starting From Bujurg Panchayat till Sahrai road nala along with bujurg panchayat border Taking Batham Colony up to Ajmer Singh rawat's Farm.
- South** – Starting from Ajmer Singh rawat's Farm proceeding toward west direction at nehar road Taking all the Buildings / Land at right side up to Santosh Hotel Wale plot and up to Aadarsh Montesorrey School .

**West** – Starting from Aadarsh Montesorey School proceeding toward East direction up to Rramnath Kuswah's house crossing in front road at Rramnath Kuswah proceeding toward Gaindol road up to Munna Kuswah's house. From Munna Kuswah's house proceeding toward north direction up to Manoj Luhar's House. in front of Manoj Luhar's House crossing bujurg road taking at prakash Jha proceeding toward north direction up to hanumanji's Temple. Crossing in front road at hanumanji's Temple taking Rajesh batham's house and Sardar singh parihar's home up to Lakan Singh kuswah House and upto Government Nala.

#### **Ward No. 11– Jawahar Ward**

**North** – Starting from nisadraj School proceeding toward east direction taking all the Buildings / Land of right side Crossing Gwalior Jhansi road Taking Dinesh gupta's plot Crossing deedar Colony road taking house of B.S Gorakhwar up to ajmer singh rawat's house.

**East** – Starting from ajmer singh rawat's house adjacent to bujurg revenue border proceeding toward South direction Taking all the Buildings / Land of right up to Sub health center Bujurg.

**South** – Starting from Sub health center of Bujurg Gaon Proceeding toward west direction adjacent to Bujurg revenue border up to Sankhni Walon mill at Gwalior Jhansi road Crossing the road proceeding taking Badri Nagariya's House proceeding toward west direction taking all the Buildings / Land of right side Taking Bhrahmakumari Ashram and mohan singh Parihar's house at Nahar road till Neechal's Plot.

**West** – at nahar road till Neechal's Plot Proceeding Toward north direction taking all the Building / Plot of right side at nahar road up to Nisadraj School.

#### **Ward No. 12– Balaji Dhaam Ward**

**North** – Starting from ramesh Chandra katthil's house at nahar road proceeding toward east direction taking all the buildings / land at right side at Gwalior Jhansi road up to Kuldeep sahu's phad.

**East** – From sahu's phad at Gwalior Jhansi road proceeding toward South direction taking all the Buildings / land at right side up to temple situated at nehar .

**South** – With edge Temple situated at Gwalior Jhansi road Proceeding toward west direction Taking all the Buildings / Land of right side up to railways line kathhau puliya.

**West** – From Railways Line kathhau puliya proceeding toward north direction taking all Buildings / Land of right side Taking vanskar colony up to railways crossing gate. crossing road near of railway crossing gate proceeding toward thakur Baba road taking Ram Vatika adjacent to nehar up to ramesh katthil's house at nehar road.

#### **Ward No. 13– Rajeev Gandhi Ward**

**North** – Starting from new Ramgarh bridge at Gwalior Jhansi Road proceeding toward north direction taking all the houses of right side taking Nandu's Dera upto Snehlata Tripathi's house.

**East** – From Snehlata Tripathi's house proceeding toward south direction taking all the houses of right side upto Lakkhu Ram Jha's house at Bujurg Road.

**South** – From Lakkhu Ram Jha's house at Bujurg Road proceeding toward west direction taking all the streets and crossing the road upto Vishwanath Modi's house.

- West** – Starting from Vishwanath Modi's house at Gwalior Jhansi Road taking all the houses of right side upto Ramgarh Puliya at Gwalior Jhansi Road.

#### **Ward No. 14– Subhash Ward**

- North** – Starting from Jai Singh Dau's house north est corner at Community Hall road proceeding towards east direction taking all the houses of right side upto Gauri Spare Parts at Gwalior Jhansi Road.
- East** – From Gauri Spare Parts at Gwalior Jhansi Road proceeding toward south direction taking all the streets of right side and crossing the road taking all the houses of right side upto Rambabu Baderiya's house at Harsi Bhitarwar Road.
- South** – From Rambabu Baderiya's house at Harsi Bhitarwar Road proceeding toward west direction taking all the houses of right side crossing hospital road upto Munna Nigoti's shop at Gadi Adda road.
- West** – From Munna Nigoti's shop at Gadi Adda road proceeding toward north direction Tahseeal Road, crossing Ramgarh road Hospital Road proceeding toward in Ramjilal Biswari's house near street at Ramgarh road taking all houses of right side along with hospital boundry upto Mahesh Babu Sharma's house at Usha Colony and from Mahesh Babu Sharma's house proceeding toward north direction upto Hargovind's house adjacent to Pokhar taking Govt.H.S. School crossing Kanji House Road taking Chaturi Sahu's house taking all the houses of right side upto Jai Singh Dau's house.

#### **Ward No. 15– Mahatma Jyotibarao Phule Ward**

- North** – Starting from Ramgarh Gadhi adjacent to gutter (Nala) proceeding toward east direction taking all the houses of right side upto Ramgarh bridge at Gwalior Jhansi Road.
- East** – Starting from Ramgarh bridge at Gwalior Jhansi Raod proceeding toward south direction taking all the houses of right side upto Mukteshwar Aashram.
- South** – Starting from Mukteshwar Aashram at Community Hall Road proceeding toward west side taking all the houses of right side upto Patwari House . From Patwari House to street of Parsediya taking all the houses of right side upto Narayan Jatav's house, From Narayan Jatav's house crossing Kanji House Road Taking jeetendra Gautam's house proceeding toward south direction taking all the houses of right side leaving puddle (Pokhar) proceeding in Adarsh Montesorey School's street upto Soni Compounder's house, From Soni Compounder's house proceeding to Harcharan Vaid's street taking all the houses of right side upto Nibhera Wale Panditji's at Ramgarh Road.
- West** – From Nibhera Wale Panditji's house at Ramgarh Road proceeding toward north direction taking all the houses of right side crossing Ramgargh road Choraha crossing the road adjacent to nala taking all the houses of right side upto Ramgarh Gadhi.

#### **Ward No. 16– Dr. Ambedkar Ward**

- North** – Starting from govt. Nala Municipality border point at Dabra Gaon Road toward Graveyard adjacent nala proceeding toward East taking all the houses of right side and open plot upto Ramgarh Road Churaha.
- East** – Crossing Road vacant open plot at Ramgarh Road proceeding toward South direction taking all the houses of right side up to Lakshi Katthil's shop.

**South** – From Lakshi katthil shop at Gadi adda road proceeding toward west direction taking all the house of right side taking Hanumant Nai's shop crossing all the street at Dabra Gaon Road up to Matadeen Jatav's house.

**West** – Starting from Matadeen Jatav's house at Dabra Gaon Road proceeding toward North direction taking all the houses of right side up to Govt. Nala Municipality border point.

#### **Ward No. 17– Rashtrakavi Maithali Sharan Gupt Ward**

**North** – Starting from Habib Khan's home at Madarsa Masjid Road proceeding toward East direction from Dhankuiya's home to Shiv Charan kadere's House.

**East** – From Shiv Charan Kadere's house to Kothari wali Street proceeding toward South direction taking all the house of right side up to Thakur Das's home, from Thakur Das's home crossing JangiPura Road taking Dubeyji's Bagiya adjacent to Gadi Adda Boundary taking all the streets and crossing the road up to Ganesh Medical Jhansi Walon ka Chauraha.

**South** – Starting from Ganesh Medical proceeding toward West side taking all the houses of right side up to railway line Goshwami Watch Comapany's shop.

**West** – From Goswami Watch Company shop adjacent to Railway line proceeding toward North direction taking all the houses of right side up to Habib Khan's house at Madarsa Road.

#### **Ward No. 18– Tilak Ward**

**North** – Starting from Government nala situated on railway boundary adjacent to nala proceeding toward North direction taking all the houses of right side up to Masjid at Dabra Gaon Road.

**East** – Starting from Masjid proceeding at Dabra Gaon Road toward South direction taking all the houses of right side up to K.P. Painter's house, From K.P. Painter's house at jangiPura Road taking all the houses of right side up to Dr. Trivedi's house.

**South** – From Dr. Trivedi's to Naina Prajapati House.

**West** – From Naina Prajapati's house proceeding toward North direction , proceeding toward Kothari's street taking all the houses of right side adjacent to railway boundary up to govt. nala.

#### **Ward No. 19– Tatyा Tope Ward**

**North** – With adjacent to Govt. nala situated at Tiwari Farm's boundary proceeding toward North direction cremation place and taking all the house of right side up to railway line.

**East** – Starting from Govt. nala adjacent to railway line proceeding toward South direction taking all the house of right side up to Param Lal's house.

**South** – Starting from Param Lal's house with edge of railway line crossing Meat Market taking Gandhi park, taking all the house of right side up to Ganpat Shakya's house.

**West** – starting from Ganpat Shakya's house proceeding toward North direction taking all the house of right side up to Govt. Nala Tiwari Farm boundary.

#### **Ward No. 20– Dr. Rajendra Prasad Ward**

**North** – Starting from Raju soni's house at Gupta Pura Road proceeding toward North direction taking all the house of right side up to Makkhan Sahu's house at Tiwari Farm road. Proceeding to Makkhan Shau's home up to Mehra's house. Crossing the road from Mehra's house proceeding toward East direction at Rajiyar wale Jain's house taking all the house of right side up to taking Kallu khatik house and crossing the road up to railway line.

- East** — From Kallu Khatik's house Infront of railway line proceeding toward South direction up to railway bridge Harsi Bhitarwar Road.
- South** — At Harsi Bhitarwar road proceeding toward West direction taking all the house of right side crossing the streets upto SriKrishna kumar Pandey's shop at Pashu Chikitshalay Road.
- West** — Starting form sri Krishna Kumar Pandey's shop proceeding toward North direction at Pashu chikitshalay road taking all the house of right side and crossing the streets up to Raju soni's house at Gupta Pura Road.

#### **Ward No. 21— Indira Gandhi Ward**

- North** — Starting from Aaraa Machine at Jagdamba colony proceeding toward East direction crossing Chinor Road up to Chinor Road Pulia, and from Chinor Road Pulia adjacent to nala proceeding toward East taking all the house of right side up to Tiwari Farm boundary.
- East** — Starting From Tiwari Farm boundary proceeding toward South direction taking all the house of right side up to Tiwari Farm boundary at Mahaveer Pura Road .
- South** — Starting from Tiwari Farm boundary at Mahaveer Pura Road proceeding toward West direction crossing all the streets Road taking Dilip jain's house at pashu Chikitshalay road proceeding toward Bhitarwar Road taking Atar Singh Rawat's house up to Punna Radio Wale's house at Harsi Bhitarwar Road.
- West** — Starting from Punna Radio Wale's house at Harsi Bhitarwar Road proceeding toward North direction taking all the house of right side of Jagdamba Colony up to Aaraa Machine.

#### **Ward No. 22— Pandit Deendayal Ward**

- North** — Starting from the boundary of M.P.V.V.Co. at Harsi Bhitarwar Road proceeding toward North direction taking all the buildings /land of right side up to Ram Sevak Babuji's house.
- East** — Starting from Ram Sevak Babuji's house adjacent to Sugar Mill boundary up to railway line from railway line proceeding toward South direction taking Khallasi line and Dafaai of Sugar Mill and Chhole ki Dafaai up to Municipality border point Magrora Rajaswa Gram.
- South** — Starting from survey no. 1499 of Magrora Rajaswa situated at Municipality border point proceeding toward West direction taking all the buildings/land up to Survey no. 2110 of Magrora Rajaswa of border point.
- West** — Starting from Survey no. 2110 of Magrora Rajaswa Municipality border point proceeding toward North direction taking all the buildings/land leaving Barotha Dafaai at Harsi Bhitarwar Road up to boundary of M.P.V.V.Co.

#### **Ward No. 23— Gurudwara Ward**

- North** — Starting from Har Kishor Dubey's house at Harsi Bhitarwar Road proceeding toward East direction taking all the houses of right side up to railway line.
- East** — Starting from railway line proceeding toward South direction taking all the house of right side taking Railway Station up to Sugar Mill boundary.
- South** — Adjacent to Sugar mill boundary proceeding up to Saudagar Singh's house.
- West** — Starting from Saudagar Singh's house situated at Sugar Mill boundary proceeding toward North direction up to Har Kishor Dubey's house at Harsi Bhitarwar Road.

#### **Ward No. 24— Jain Mandir Ward**

- North** — Starting from North East corner of Railway Bridge proceeding toward East direction at Harsi Bhitarwar Road crossing all Road and streets taking all the buildings / land up to Bhullu Guru's house at Geeta Talkies Chauraha.

- East** – Starting from Bhullu Guru's house at Geeta Talkies Road proceeding toward South direction taking all the buildings/ land upto Namdev's house , open land and proceeding toward open land taking all the house of right side up to Raju Narang's house at Thakur Baba Road.
- South** – From Raju Narang house crossing the road taking Madan Lal Suri's house proceeding toward Thakur Baba Road up to Ashok Madan's house from Ashok Madan's house processing toward South Direction at Kamal Talkies Road crossing all the streets taking all the house of right side up to Ketkar Nursing Home and crossing the road Infront of Nursing Home proceeding toward Society Road taking Railway Shishu mandir up to Railway line.
- West** – Starting from Railway Shishu Mandir railway line proceeding toward North direction taking all the houses of right side up to railway bridge corner.

#### **Ward No. 25– Thakur Baba Ward**

- North** – Starting From Platform No. 2 Railway Line proceeding toward East direction crossing society road taking Bacchhumal's Mill proceeding ahed taking all the houses of right side up to Kalyan Das Panjabhi's house and crossing Thakur Baba road taking Laddha Ram Gurudwara taking all the houses of right side taking Davani's house and taking Jugal Kishor's house up to Narendra Sharma's house at Nehar Road.
- East** – Starting From Narendra Sharma's House adjacent to Canal proceeding toward South direction crossing the road up to Thakur Baba Mandir.
- South** – From Thakur Baba Mandir proceeding toward West direction taking Bhairo Baba Temple upto railway line.
- West** – From Bhairo Baba Mandir railway line proceeding toward North direction adjacent to Plate farm No. 2 up to railway line.

#### **Ward No. 26– Sant Kanwar Ram Ward**

- North** – Starting from Gopal Das Goyal's house at Harsi Bhitarwar Road Geeta Talkies Chauraha proceeding toward North direction taking all the houses of right side upto Police Station.
- East** – Proceeding toward South direction Police Station at Gwalior Jhansi Road taking all the houses of right side crossing infront road of Mahesh Halwai taking house of Rajendra Ghura proceeding ahed upto Amar Gupta's house. From Amar Gupta's house taking Ashok Parihar house proceeding toward West direction taking all the building/land of right side up to Daisy moral School at Nehar Road.
- South** – From Daisy Moral School at Nehar Road proceeding toward West direction crossing the Road adjacent to canal taking all the buildings/land of right side taking ParasuRam Parashar's House proceeding ahed taking houses of Khemchand Verma and BhojRaj upto Saraswati Shishu Mandir at Thakur Baba road.
- West** – Starting form Saraswati Shishu Mandir Thakur Baba road proceeding toward North direction taking all the house right side taking Kanhaiya lal Ganga Ram Mill's upto Ramdas Billaiya's house and crossing the road taking the house of Pramod Billaiya and Geeta Talkies upto Gopal Das Goyal House at Harsi Bhitarwar Road.

#### **Ward No. 27– Vivekanand Ward**

- North** – Proceeding toward East direction of North East corner of Swayamver Lodge at Bujurg Road of Gwalior Jhansi Road , taking all the buildings/land crossing streets and Gaindol Road upto Purushottam Saithiya's house.

- East** — Starting from Purushottam Saithiya's house proceeding toward South direction taking all the buildings/land right side crossing Gaindol Road, proceeding toward Gaindor Road upto Ramswaroop's flour Mill at Nehar Road.
- South** — From Ramswaroop's flour mill at Nehar Road proceeding toward West side upto Canal and proceeding Canal upto Rajendra Gupta's house.
- West** — Rajendra Gupta's house at Nehar Road proceeding toward North direction upto Janakraj Sharma's house and crossing the road proceeding toward temple upto Raghu Kevat's house and From Raghu Kevat's house at Gwalior Jhansi road upto swayamvar lodge.

#### **Ward No. 28— Shyama Prasad Mukharji Ward**

- North** — From Karra revenue survey No. 1 to 8, 30 to 40, 159 to 335, 391 to 393, 431, 447 to 451, 459 to 473, 476 to 640, 2/830, 30/822, 228/827.
- East** — From Karra revenue survey no. 641 to 821, Chandpur revenue Survey No. 550/1369, 479 to 480, 531 to 550, 572 to 975, 480/1355, 631/1358, 636/1378, 750/1354, 758/1366 , 808/1362, 895/1379, 900/1375, 919/1389, 927/1363, 932/1359, 935/1373.
- South** — Chandpur revenue Survey No. from 976 to 1023, 1117 to 1346, 994/1384, 1261/1349, 1262/1353, 1262/1353, 1268/1352, 1297/1361, 1302/1367, 1302/1368, 1302/1369, 1283/1391, 1297/1361, 1260/1348, 1003/1381, 1297/1361, Karra revenue survey No. from 336 to 390, 394 to 430, 432 to 446, 452 to 458, 474 to 475, 455/828, 396 / 825, 357/827, 416/829, 418/826.
- West** — Karra revenue survey No. from 9 to 22, 41 to 158, 69/823.

#### **Ward No. – 29 Kabir Ward**

- North** — Starting from revenue survey No. 480 of Gram Barotha proceeding toward East side adjacent to rajaswa seema taking on the buildings/ land of right side upto Ramkishan's house. From Ramkishan's house taking all the buildings/land of right side and taking Ashamaani mandir rajaswa seema upto survey No. 437.
- East** — From survey No. 1 of Gram Sirohi to 153 and survey No. 780 of gram Barotha to 1404.
- South** — From Survey No.. 481 of gram Barotha up to 779 and adding Barotha Addivasi Daffai.
- West** — From survey No.. 138 of gram Barotha to 480.

#### **Ward No. – 30 Tagore Ward**

- North** — From revenue survey No. 1 of Itayal to 430, 474 to 500, 501 to 560, 671 To 700.
- East** — From survey No.747 of Itayal to 917 , 1973 to 1810, 1388 to 1393.
- South** — Starting from Marketing Society Taking house of Lakan adjacent to rajaswa seema up to survey No.. 248 .
- West** — from survey No.. 438 of Sirohi to 546 and SurveyNo. of gram Itayal from 431 to 685.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
P. NARHARI, Collector.

## कार्यालय, कलेक्टर, ( पंचायत ) जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

नरसिंहपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्र. 3938-पंचा-14.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 09-एफ-1-28-2013-अठारह-3-दिनांक 16 मई 2014 में प्रकाशित जिले की 05 ग्राम पंचायतों के 06 ग्राम (कंडिका 5 में दर्शित ग्राम के सर्वे नंबर अनुसार) नगरपालिका परिषद् गाडरवारा क्षेत्र में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16 मई 2014 को प्रकाशित अधिसूचना एवं दिनांक 9 सितम्बर 2014 को प्रकाशित जाहिर सूचना (प्रारंभिक सूचना) के क्रम में प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण पश्चात् मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क के तहत राज्यपाल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के तहत मैं नरेश पाल, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर निम्न ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों (कंडिका 5 में दर्शित ग्राम के सर्वे नंबर अनुसार) को नरसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किये जाने की अधिसूचना अनुसूची में प्रकाशित करता हूँ:—

खंड—जनपद पंचायत साईखेडा

जिला—नरसिंहपुर

### अनुसूची

अनु. क्र.	विस्थापित की जाने वाली ग्राम पंचायत	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम	तहसील	विस्थापित किये जाने वाले क्षेत्र ग्राम, का सर्वे नम्बर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(53)	इमलिया	इमलिया पतलोन	गाडरवारा	1 से 127 (सम्पूर्ण ग्राम), रकबा-444.395 है। 1 से 152 (सम्पूर्ण ग्राम), रकबा-378.283 है।
2(39)	बोदरी			ग्राम बोदरी से सर्वे नं. 249, 291, 292, 293, रकबा-8.187 है।
3(35)	चिरहकलां	चिरहकलां		ग्राम चिरहकला से सर्वे नं. 525, 527, 538, 534, 535, 537, 539, 540, 541, 544, 559, 561, 562, 563, 564, 565, 590, 591, 600, 603, 604,, 605 रकबा-52.036 है।
4(43)	कामती	कामती		ग्राम कामती से सर्वे नं. 142, 143, 144, 145, 146, 357, 358, 359, 371, 372, 373, 378, 379, 380, 381, 385, 386, 387, 388, 390, 391 से 440 रकबा-170.559 है।
		कामतीखैरी		ग्राम कामतीखैरी से सर्वे नं. 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 रकबा-10.813 है।
5(52)	जमाडा	जमाडा		ग्राम जमाडा से सर्वे नं. 41/6, 43/3, 43/4, 43/5, 43/8, 49/1, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 55, 57/1, 57/3, 130/5 रकबा-18.504 है।

नरेश पाल, कलेक्टर,

## कार्यालय, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

म. प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मैं दीपक खाड़ेकर, कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर नगर पालिक निगम जबलपुर के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार एतद् द्वारा अवधारित करता हूँ।

(गत जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार)

प्रस्तावित वार्ड का क्रमांक	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	जनसंख्या (अनुसूचित जाति)	जनसंख्या (अनुसूचित जन जाति)
1	2	3	4	5
1	गढ़ा	17700	1727	674
2	स्वामी वीरेन्द्र पुरी	17693	3419	879
3	त्रिपुरी	16124	3600	943
4	शंकरशाह नगर	17655	3090	708
5	सरदार वल्लभ भाई पटेल	17180	1831	992
6	इंदिरा गांधी	17195	1699	416
7	वीर सावरकर	17220	1664	590
8	गवारीघाट	17659	2875	1440
9	दादा बाबूराव परांजपे	17664	4442	1087
10	गुप्तेश्वर	17520	935	627
11	गिरिराज किशोर कपूर	16349	1940	727
12	जार्ज डिसिल्वा	14177	1941	599
13	पं. बनारसी दास भनोत	15063	1871	805
14	नरसिंह	15940	1669	1496
15	मदनमहल	17687	2328	1319
16	महाराणा प्रताप	15075	1700	636
17	रानी दुर्गावती	17707	3437	589
18	शहीद गुलाब सिंह	17444	1678	809
19	कमला नेहरू नगर	17448	765	865
20	कस्तूरबा गांधी	16792	2143	922
21	स्वामी विवेकानंद	15418	569	657
22	जवाहर गंज	13739	746	115

23	लोक. बालगंगाधर तिळक	17416	1557	46
24	हनुमानताल	14087	214	30
25	महात्मा गांधी	13117	785	105
26	गोविंद वल्लभ पंत	13930	690	104
27	चेरीताल	13763	1186	229
28	जयप्रकाश नारायण	13964	3658	246
29	डॉ राममनोहर लोहिया	14085	2052	281
30	पं. दीनदयाल उपाध्याय	13974	1385	1002
31	राजीव गांधी	14219	1585	186
32	सुभद्रा कुमारी चौहान	14139	424	327
33	स्वामी दयानंद सरस्वती	13401	595	240
34	पं. भवानी प्रसार तिवारी	13201	412	130
35	महाराजा अग्रसेन	14585	1337	669
36	मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	13567	491	8
37	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	13469	723	73
38	पं. मोतीलाल नेहरू	13539	791	277
39	चितरंजनदास	13632	496	100
40	डॉ. जाकिर हुसैन	16503	6	—
41	संजय गांधी	15821	50	5
42	नेताजी सुभाषचंद्र बोस	14665	2300	648
43	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी	15466	3873	2290
44	आचार्य विनोबा भावे	13866	3967	402
45	शीतलामाई	16290	3455	400
46	पं. द्वारका प्रसाद मिश्र	13630	2405	344
47	सेठ गोविंददास	13575	3173	575
48	सिद्धबाबा	13672	3953	470
49	लाल बहादुर शास्त्री	16544	783	1
50	ठक्करग्राम	15387	1350	—
51	रविन्द्रनाथ टैगोर	16871	4148	14
52	पं. मदनमोहन मालवीय	13307	3730	157
53	महर्षि अरविंद	17222	9332	640

54	पं. जवाहरलाल नेहरू	15010	3725	935
55	खेरमाई	15572	3938	243
56	शहीद अब्दुल हमीद	14486	1008	260
57	महर्षि महेश योगी	13501	481	300
58	सर्वपल्ली राधाकृष्णनन	16436	8807	255
59	शहीद अशफाक उल्ला ख्यौ	14532	18	—
60	निर्मलचंद्र जैन	14211	733	1153
61	दीवान आधार सिंह	13466	1175	783
62	डॉ. भीमराव अंबेडकर	14981	4045	1469
63	शहीद भगत सिंह	14297	3838	1745
64	महर्षि सुदर्शन	14641	3580	2362
65	सुभाष चंद्र बैनर्जी	16230	1347	702
66	रानी लक्ष्मीबाई	16163	4947	1699
67	वीरांगना रानी अवंतीबाई	17693	2704	1194
68	गोकलपुर	14851	2160	1422
69	चंद्रशेखर आजाद	15034	2214	490
70	लाला लाजपतराय	13101	1077	2472
71	नया वार्ड	17696	2543	1943
72	नया वार्ड	14594	2522	1701
73	नया वार्ड	16202	2873	1140
74	नया वार्ड	16903	3372	1394
75	नया वार्ड	17695	2299	3364
76	नया वार्ड	17195	1669	1540
77	नया वार्ड	17110	1685	2571
78	नया वार्ड	14349	3960	1779
79	नया वार्ड	13140	1583	1645
		1216445	175278	62455

दीपक खांडेकर, आयुक्त.

## कार्यालय कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर

पत्र क्रं 1503 / 2014

जबलपुर दिनांक 15/9/2014

मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रं.23 सन् 1956) की धारा 10 हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुये मैं दीपक खांडिकर, कमिशनर जबलपुर संभाग जबलपुर नगर पालिक निगम जबलपुर के वार्डों का परिसीमन (विस्तार) नीचे दी गई अनुसूची अनुसार एतद हारा अवधारित करता हूँ।

### चर्टर्सीमा विवरण

वार्ड क्रं. 01 गढ़ा

उत्तर – मध्य रेल्वे लाइन गढ़ा कछुपुरा बसहा मार्ग के तिमडे के पास नगर निगम की पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर मध्य रेल्वे लाइन के साथ–साथ भूलन चौकी के पास जे.डी.ए. योजना क्रमांक–6 के 60 फीट मार्ग के संगम तक।

पूर्व – रेल्वे लाइन एवं जबलपुर विकास प्राधिकरण की 60 फीट मार्ग के सहारे शाही तलेया होकर दुग्गा कालोनी मार्ग के संगम तक तथा शाहीनाका मेनरोड के सहारे दक्षिण की ओर शाहीनाका मार्ग के साथ–साथ गिरदोनिया के पूर्व की सड़क के साथ–साथ पुराने थाने मार्ग के संगम गढ़ा पुराना मार्ग के संगम तक।

दक्षिण – गढ़ा मार्ग पुराने थाने के पास मार्ग के संगम से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर गढ़ा मुख्य मार्ग के सहारे पंडा महिया तक। पंडा महिया से गंगानगर जाने वाले मार्ग के संगम तक वहाँ से उत्तर की ओर नवनिवेश कालोनी के बीचोंबीच मार्ग के सहारे गंगानगर कालोनी मार्ग के संगम तक, वहाँ से पश्चिम की ओर बकसेरा तालाब की ओर जाने वाले मार्ग के साथ–साथ बकसेरा तालाब के उत्तर में जे.एन.एन.यू.ए.एम. के तहत नवनिर्मित भवनों के पूर्व सावित्री के मकान तक।

पश्चिम – सावित्री के मकान से उत्तर से और खुली भूमि से आगे रेल्वे लाइन तक।

वार्ड क्रं. 02 स्वामी वीरेन्द्रपुरी

उत्तर – गंगानगर में इंजी नामदेव के भवन के सामने से रानीडुगार्वती स्कूल होते हुये पूर्व की ओर गंगानगर मोड मेन रेड इमरती तालाब से पंडा की महिया के सामने का पश्चिमी भाग एवं दक्षिण की ओर का भाग गढ़ा बाजार मार्ग के साथ–साथ नगर निगम कार्यालय के सामने से होकर मकान नं. 01 कश्यप के मकान तक।

पूर्व – पुराने गढ़ा थाने के सामने श्री कश्यप के मकान से हितकारिणी स्कूल तक। वहाँ से राष्ट्रीय राज्य मार्ग से पूर्व की ओर मार्ग के साथ–साथ सूपाताल तालाब के सामने कविस्तान के पूर्व की बाउन्ड्री से होकर दक्षिण की ओर मार्ग के सहारे मदनमहल दरगाह को जाने वाले मार्ग के मध्य से मौजा बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा तक।

दक्षिण – ग्राम बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा के सहारे पश्चिम की ओर कच्चे संग्राम सागर मार्ग के साथ–साथ पिसनहारी महिया की उत्तरी बाउन्ड्री की सीमा के सहारे पश्चिम की ओर गैवीनाथ मंदिर की एवं पिसनहारी महिया की उत्तरी बाउन्ड्री की सीमा के सहारे राष्ट्रीय राज्य मार्ग 07 के संगम तक।

**पश्चिम** – पिसनहारी महिया के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के सहारे पश्चिम की ओर रेनबरसेरा के बाजू से मेडिकल हॉस्पिटल सर्वेट क्लाटर से आगे पुरवा कांजी हाउस से पूर्व की ओर गढ़ा धनवंतरी मार्ग सड़क पार करते हुये ऋषि होटल से उत्तर की ओर गंगानगर में इंजी, नामदेव के सामने वाले मकान तक।

#### वार्ड क्र. 03 त्रिपुरी

**उत्तर** – भेड़ाधाट मार्ग पर नगर निगम की पश्चिमी सीमा से पूर्व की ओर भेड़ाधाट मार्ग के साथ-साथ धनवंतरी नगर चौक संगम से नई भेड़ाधाट मार्ग के साथ-साथ एन. एच. 7 के संगम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थल मेडिकल कालेज बाउझीवाल सड़क मध्य तक।

**पूर्व** – नेताजी सुभाषचंद्र बोस मूर्ति स्थल एन. एच. 07 सड़क मध्य से सगड़ा लिराहा बरगी हिल्स होते हुये सड़क मध्य से नर्मदा नदी तक।

**दक्षिण** – नर्मदा नदी तिलवाराधाट के पुराने पुल मार्ग के मध्य पश्चिम की ओर नदी के साथ-साथ रमनगरा ग्राम की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा के कोने तक।

**पश्चिम** – नगर निगम की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी के पास में रमनगरा ग्राम के दक्षिण पश्चिमी कोने से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर उसी सीमा के साथ-साथ बाल सागर तालाब के उत्तरी पश्चिमी कोने पर स्थित भेड़ाधाट मार्ग संगम तक।

#### वार्ड क्र. 04 शक्रशाह

**उत्तर** – पश्चिमी सीमा के एम.पी.एस.इ.बी. वॉटर टैंक को जाने वाले मार्ग के संधि क्षेत्र से पूर्व दिशा की ओर शिवाजी नगर के पीछे से होते हुए आदिवासी छात्रावास बृज मोहन नगर छापर बस्ती के बीच से होकर जाने वाले मार्ग का दाहिनी ओर का हिस्सा जो आगे चलकर गोयल फर्नीचर से जलपरी एम.पी.एस.इ.बी. की को जोड़ने वाले मार्ग का दाहिना हिस्सा एवं महकार नगर के पीछे से होते हुए केशरवानी होटल आजाद चौक का दाहिना हिस्सा।

**पूर्व** – छोटी लाईन रामपुर रेल्वे कासिंग के संगम से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन के पास आदर्श नगर परफेक्ट पाटरी होते हुये रेल्वे लाईन के सहारे दक्षिण की ओर शाहनाला खंदारी नाले के संगम तक।

**दक्षिण** – रेल्वे लाईन और खंदारी नाले के संगम से खंदारी नाले के सहारे होते हुए वार्ड क्र.05 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड की पूर्वी सीमा के संगम तक।

**पश्चिम** – खंदारी नाला और सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड क्र.05 की पूर्वी सीमा के संगम से होते हुए एम.पी.एस.इ.बी.वॉटर टैंक की ओर जाने वाले मार्ग के संगम तक।

### वार्ड क्रं. 05 सरदार बलभ माई पटेल

**उत्तर –** पिसनहारी की महिया से पूर्व दिशा की ओर स्थित पहाड़ी क्षेत्र को पार करते हुए मदन महल वार्ड की दक्षिणी पहाड़ी सीमा तक से एम.पी.एस.ई.बी. के पौवर हाउस के पीछे से होते हुये पूर्व दिशा की ओर नया गेंव हॉउसिंग सोसायटी के पीछे से होते हुए जलपरी के सामने स्थित बस्ती विजय नगर से दक्षिण दिशा छापर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित गोयल फर्नीचर्स की दुकान तक।

**पूर्व –** आजाद चौक से छापर जाने वाले मार्ग पर स्थित गोयल फर्नीचर्स दुकान के दायें हिस्से का भाग जो कि छापर मार्ग से होता हुआ रीवा कालोनी सिद्धनाथ आदिवासी छात्रावास, शिवाजी नगर से होते हुये दक्षिण की ओर नर्मदा नदी के तट तक।  
**दक्षिण –** नर्मदा नदी की पूर्वी सीमा से पश्चिम दिशा की ओर पुराने तिलवाराधाट के पुल तक दौहिने हाथ का हिस्सा।  
**पश्चिम –** पुराने तिलवाराधाट पुल के मुख्य मार्ग के दाहिने हिस्से से शाहनाला होते हुए बरगी हिल्स कालोनी, बाजानामठ, नेहरू नगर, पिसनहारी की महिया मुख्य मार्ग का दौहिना हिस्सा।

### वार्ड क्रं. 06 इदिया गांधी

**उत्तर –** गुलौआ चौक से गौतम जी की महिया से डॉ. मुकर्जी के सामने टावर पश्चिम की ओर गुलमोहर पार्क के आगे रेल्वे लाईन के सहारे जे डी ए स्कॉम नंबर 06 के प्लाट कं 1082 से 1122 तक संजीवनी नगर मुख्य मार्ग से शाहीनाका रोड एवं संजीवनी नगर रोड के संगम से शाहीनाका की ओर महेरा नाला के संगम तक।

**पूर्व –** गुलौआ चौक से शुकला नगर मार्ग के साथ – साथ कर्नल शुकला के मकान के सामने से होते हुए एकता चौक तक।  
**दक्षिण –** एकता चौक से पश्चिम की ओर बी टी साहब के बंगले से डॉ. रामगोपाल गुप्ता के सामने से आनंद कुञ्ज तिरहा से पुराना गढ़ा पुलिस चौकी के रोड के संगम तक।  
**पश्चिम –** पुराना गढ़ा पुलिस चौकी से पूर्व की ओर गढ़ा मुख्य मार्ग के संगम से प्रारंभ होकर गढ़ा स्कूल के पीछे से होते हुए महेरा नाला एवं शाहीनाका मार्ग के संगम तक।

### वार्ड क्रं. 07 वीर सावरकर

**उत्तर –** जे.डी.ए. योजना क्रमांक 06 संजीवनी रेल्वे लाईन के सामने प्लाट नं. 976 श्री लक्ष्मीकात देशपांडे से सड़क एवं रेल्वे लाईन के साथ–साथ गढ़ा रेल्वे कासिंग गुलौआ होते हुये रेल्वे लाईन से पूर्व की ओर काली मठ मंदिर के पीछे बहते वाले आमनुपर नाले एवं रेल्वे लाईन के संगम तक।

**पूर्व –** आमनपुर नाला एवं रेल्वे लाईन के संगम से दक्षिण की ओर नाला के साथ–साथ कालीमठ मंदिर के सामने से नरसिंह वार्ड की सीमा से होते हुये जायसवाल के मकान के सामने सीमेन्ट रोड के सहारे म. नं. 6/6 से होते हुये पश्चिम की ओर नवीन ट्रेडर्स के सहारे मार्ग के साथ–साथ केशव शां मिल पोल नं. ६ एस. 18/4 से होते हुये गंगा सागर मार्ग तालाब के सामने कृष्णा टिप्पर मार्ट के संगम तक।

**दक्षिण** — गंगासागर मार्ग कृष्णा देवर्षी टाल मार्ग से प्रारंभ होकर मार्ग संगम से पश्चिम की ओर गंगासागर मार्ग के साथ शुक्ला नगर होते हुये गुलोआ चौक तक वहां से पश्चिम की ओर गौतम जी की मढ़िया के सामने से पटेल स्वीट्स होते हुये हेम सिंह ठाकुर के भवन के पास लगे टावर के पास शिवम उद्यानिकी भवन तक।

**पाइयम** — शाहीनाका मेन रोड टॉवर के पास शिवम उद्यानिकी से उत्तर की ओर वसुधा परिसर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण होते हुये गुलमोहर पार्क होकर संस्कार निकेतन बारत धर होकर प्लाट नं. 897 चंद्रकांत चौबे से पूर्व की ओर प्लाट नं. 925 बिलथरे के मकान से उत्तर की ओर नैयर से पश्चिम की ओर एवं प्लाट नं. 976 लक्ष्मीकांत देशपांडे के भवन रेलवे लाईन तक।

वाडे क्र. 08 ज्यारीधार

**उत्तर** — रेलवे लाइन के किनारे परफेक्ट पाटरी की बाउन्ड्रीचाल से होते हुये साउथ एवेन्यू माल के किनारे स्थित बाउन्ड्री (जलकुड़) से गवरीघाट मुख्य मार्ग होते हुये सामने स्थित बागडा दफाई बस्ती में खेरमाई मंदिर होते हुये राज्य वन अनुसंधान की बाउन्ड्री तक।

**पूर्व** — बागडा दफाई से राज्यवन अनुसंधान की बाउन्डी से लगकर पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर स्थित सुखसागर वेली, खंदारी नाला कास करते हुये बिलहरी ग्राम की पश्चिमी सीमा के संगम से छेवला ग्राम की सीमा से होते हुये दक्षिण की ओर भटोली ग्राम की सीमा स्थित नर्मदा नदी के तट तक।

**दक्षिण** — नम्बदा तट ललपुर ग्राम से रेलवे फिल्टर प्लाट से खारीधाट, दरोगाधाट, गवारीधाट मुख्यधाट, जिलहरी घाट, इमशान घाट से भट्टोली ग्राम की ईमा तक।

**परिचय** – नर्मदा तट ललपुर ग्राम सीमा से उत्तर दिशा की ओर खंदारी नाला शाहनाला के संगम से उत्तर की ओर रेल्वे लाईन के दौर्यों और शित नर्मदा नगर पीरी कालोनी स्थित प्रस्फेक्ट पार्टी की बातें तक।

ગાડી કુ. 09 ડાદા બાબુલાલ પટ્ટાણપુ.

**उत्तर -** शक्ति भवन मुख्य मार्ग स्थित रेल्वे गेट से रामपुर चौराहे स्थित जी. आर.सी. बाउन्डी वाल तक।  
**पूर्व -** रामपुर चौराहे से दक्षिण की ओर गवरीघाट मार्ग पर जी. आर. सी. से बाउन्डी के किनारे पंचशील नगर ईगोर नगर मोदी कालोनी होते होशे शाजा तत्त्व अनुसंधान की सीमा से दक्षिण दिशा की ओर बागड़ा दफार्ड की पर्याप्त हिस्से से चार्ड की सीमा तक।

**दक्षिण** — राज्य वन अनुसंधान की बाउन्डी से लगा हुआ बागड़ा दफाई शेत्र से पूर्वी भाग से गवरीधाट मुख्यमार्ग कास करते हुये पश्चिम की ओर साझा एवन्हू मॉल के बाजू स्थित बाबली (जलकुड़) से होते हुये परफेक्ट पाटरी की बाउन्डी से सटकर पश्चिम की ओर स्थित।

**पाँचिम** — साउथ एवेन्य मॉल के दक्षिण दिशा स्थित बाजू में बाउन्डी (जलकुड़) से परफेक्ट पाटरी के पीछे स्थित रेलवे लाईन के पूर्वी हिस्से के सहारे शाहनाला आदर्श नगर से बेन मोहल्ला होते हये सूधा बिहार से घूमकर शक्ति भवन के मुख्य मार्ग तक।

### वार्ड क्रं. 10 गुप्तेश्वर

**उत्तर – राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के पास से आमनपुर जाने वाले मार्ग के संगम से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के साथ–साथ मदन महल चौराहा पार करके महानददा के पूर्व मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के संगम तक।**

**पूर्व – राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 एवं महानददा से पूर्व की ओर के मार्ग के संगम से पूर्वी मार्ग के साथ–साथ दक्षिण की ओर नाला पार कर हाथीताल रेल्वे कासिंग से होते हुये हाथीताल मार्ग हाउसिंग बोर्ड ऑफिस होते हुये दक्षिण की ओर मकान नं. 1021 श्रीमति भगवती बाई यादव (नर्मदा भवन) तक।**

**दक्षिण – नरोगेज छोटी लाईन के मध्य संगम मार्ग से प्रारंभ होकर मकान नं. 1021 श्रीमति भगवती बाई यादव (नर्मदा भवन) के मकान से पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग के साथ–साथ शमशान घाट होते हुये साहू किराना के बाजू से दक्षिण की ओर बूढ़ी खेरमाई मंदिर होते हुए (सड़क का पूर्वी हिस्सा) गुप्तेश्वर मंदिर मुख्य मार्ग तक। सरिता ट्रेडर्स (सड़क का पूर्वी हिस्सा) डॉ. भद्रोलिया होते हुए इम.जी.एम. स्कूल रेल्वे लाईन केंटोमेट सीमा खंभा नं. 131 तक। गुप्तेश्वर चौक कृपाल चौक कास कर डॉ. कमला गुप्ता के आगे से जो प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस से मुड़ती है एन. एच. 7 मार्ग वहाँ तक।**

**पश्चिम – डॉ० कमला गुप्ता रोड एवं प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस मार्ग के संगम (पोस्ट ऑफिस चर्च के पास) से होते हुये प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस मार्ग के सामने एन.एच. 7 नागपुर मुख्य मार्ग एवं प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के संगम तक।**

### वार्ड क्रं. 11 गिरिराज किशोर कपूर

**उत्तर – हाथीताल मार्ग पर मदनमहल वार्ड की पूर्वी सीमा के संगम से पूर्व की ओर मकान नं. 1837 डॉ. कमला गुप्ता के मकान के आगे एवं कृपाल चौक से होते हुए शमशानघाट मुख्य मार्ग स्थित साहू किराना तक।**

**पूर्व – शमशानघाट मुख्य मार्ग स्थित साहू किराना के बाजू से सड़क का पश्चिमी हिस्सा बूढ़ी खेरमाई होते हुए गुलेश्वर मंदिर मुख्य मार्ग से पूर्व की ओर उत्तर–पूर्व रेल्वे की लाइन को काटती है। वहाँ दक्षिण की ओर दक्षिण–पूर्व रेल्वे के साथ–साथ एम.पी.ई.बी. को जाने वाले मार्ग के संगम तक।**

**दक्षिण – रामपुर छोटी लाईन फाटक एम.पी.ई.बी. शक्ति भवन को जाने वाले मुख्य मार्ग के सहारे एफ.सी.आई. गोदाम से नेशनल कालोनी के सामने से होते हुये मार्ग के साथ–साथ पश्चिम की ओर नगर निगम संभागीय कार्यालय संभाग कमांक– 3 रामपुर तक।**

**पश्चिम – रामपुर संभाग कमांक– 3 रामपुर से उत्तर की ओर सैनिक कालोनी आने वाले मार्ग के साथ–साथ शहीद गुलाब सिंह वार्ड की पूर्वी सीमा के संगम तक तथा उत्तर पूर्व की ओर भोले बाबा कुटी से होते हुये शक्ति नगर कोयला खान भविष्य निधि कार्यालय से होते हुए मकान न. 1920 श्री मोहनलाल प्रजापति के मकान के आगे मुख्य मार्ग पर बने नाले के कासिंग के साथ–साथ गुप्तेश्वर वार्ड की दक्षिण–पश्चिम सीमा तक।**

## वार्ड क्र. 12 जार्ज डिसिल्वा

**उत्तर —** मध्य रेल्वे लाईन शास्त्रीपुल से प्रारम्भ होकर उसी लाईन के साथ—साथ पूर्व की ओर गोरखपुर से आगे वाले कच्चे नाले पर स्थित मध्य रेल्वे लाईन पुल तक जो खंडेलवाल के बंगले के पश्चिम के तरफ हैं।

**पूर्व —** कच्चा नाला, मध्य रेल्वे लाईन से पुल से प्रारंभ कर दक्षिण की ओर नाले द्वारा दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाईन को पार कर खंडेलवाल के बंगले के पश्चिमी सीमाओं के साथ—साथ पूर्व की ओर फिर कटागा मार्ग के साथ—साथ दक्षिण की ओर केन्टोमेन्ट की सीमा के खंभा नं. 115—ए तक जो नर्मदा मार्ग पर स्थित साउथ इस्टर्न रेल्वे रेस्ट हाउस के दक्षिण पश्चिमी कोने पर हैं।

**दक्षिण —** नर्मदा मार्ग पर स्थित केन्टोमेन्ट सीमा के खंभा नं. 115—ए से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कपूर योक होते हुए केन्टोमेन्ट खंभा नं. 11 के सामने पड़ित चिरौजीलाल शर्मा के बंगले को जाने वाली कुलिया के साथ—साथ पड़ित चिरौजीलाल शर्मा तथा आर गोपाल के बंगले के बीच से होते हुए नल्युल धर्मशाला के पूर्व मार्ग की ओर पश्चिम की ओर ईसाई मोहल्ला कुमार मोहल्ला होते हुए, श्री तोमर सिंह के मकान से श्री अरुण सिंह गौर के मकान तक त्रिमूर्ति कला मंदिर तिराहा होते हुये शारदा टाकिज गोरखपुर प्रमुख मार्ग के सामन तक वहां से प्रमुख मार्ग द्वारा पश्चिम की ओर गवारीघाट मार्ग पर मित्तल गेस एजेंसी के पश्चिम मार्ग के संगम तक।

**पश्चिम — गवारीघाट मार्ग दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाईन के फाटक से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर उसी मार्ग के साथ—साथ मध्य रेल्वे लाईन पर स्थित शास्त्री पुल तक।**

## वार्ड क्र. 13 पं. बनारसी दास भनोत

**उत्तर —** महानदा के पूर्व मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक— 7 के साथ—साथ छोटी लाईन फाटक तक। नगर निगम सभागांच कार्यालय से शारदा टाकीज के पास से शमू पान दुकान से दक्षिण की ओर त्रिमूर्ति कला मंदिर से नर्मदा रोड संगम तक।

**पूर्व —** त्रिमूर्ति कला मंदिर के सामने से जयराज आटा चब्की से केसर सिंह के मकान के सामने सरकारी कुआ होते हुए मकान नं. 1904 महावर दुकान से ईसाई मोहल्ला होते हुए सतगुरु अपाटमेंट के पीछे मकान नं. 1918 मदासी के मकान तक। चिरौजी लाल शर्मा के बंगले से होते हुये दक्षिण की ओर कुलिया के साथ—साथ नर्मदा मार्ग पर स्थित केन्टोमेन्ट सीमा के खंभा क्रमांक— 111 के आगे नर्मदा रोड पर स्थित मित्तल गेस एजेंसी की पश्चिमी सीमा तक।

**दक्षिण —** नर्मदा रोड स्थित केन्टोमेन्ट खंभा नं. 111 से प्रारंभ होकर उसी सीमा के साथ—साथ दक्षिण की ओर खंभा नं. 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96 तक वहां से पश्चिम की ओर चारीघाट मार्ग पर केन्टोमेन्ट खंभा नं. 95 तक किर उत्तर की ओर केन्टोमेन्ट उसी सीमा के साथ—साथ सी.बी. खंभा नं. 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 होते हुये पश्चिमी की ओर केन्टोमेन्ट खंभा नं. 87 तक जो दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाईन पर स्थित है।

**पश्चिम** – खंभा नं. 87 से उत्तर की ओर दक्षिण पूर्व रेल्वे के साथ–साथ हाथीताल रेल्वे कासिंग तक वहाँ से हाथीताल कालोनी जाने वाले मार्ग पर स्थित नाला के साथ–साथ लक्ष्मी कालोनी होते हुये उत्तर और ककरहाई तलेया की ओर जाने वाले मार्ग के साथ–साथ नाला पार कर महानदा के पूर्व की ओर से होते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक– 7 के संगम तक।

#### वार्ड क्र. 14 नरसिंह

**उत्तर** – मध्य रेल्वे लाइन महल आउटर सिंगल के पास आमनपुर वाले नाले के संगम से पूर्व की ओर मध्य रेल्वे लाइन के साथ–साथ मदन महल स्टेशन होते हुए शास्त्री पुल तक।

**पूर्व** – मध्य रेल्वे लाइन के पास बने शास्त्री पुल से प्रारंभ होकर गवरीघाट की ओर वाले मार्ग के द्वारा दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाइन फाटक के पास राष्ट्रीय के संगम तक।

**दक्षिण** – राष्ट्रीय मार्ग 7 दक्षिण पूर्वी रेल्वे लाइन फाटक के पास गवरीघाट मार्ग के संगम से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय मार्ग 7 के साथ–साथ पश्चिम की ओर मदन महल चौरहा पार कर प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के आगे सिंह धर्मकाटा के समने कौशल्या लाजा से एल.आई.सी. कालोनी होते हुये गंगा सागर मार्ग के संगम शिव मंदिर तक।

**पश्चिम** – प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस के समने राष्ट्रीय मार्ग 7 के संगम से आमनपुर बस्टी की ओर जाने वाले मार्ग के साथ–साथ उत्तर की ओर घनश्याम तिवारी के मकान के समने से होते हुए पश्चिम की ओर पन्नालाल चौहान के मकान के पास वाली कुलिया के साथ–साथ नाले के द्वारा गंगासागर मार्ग के संगम तक वहाँ से नाला पार कर कृष्णा टिम्बर मार्ग पोल नं. जी.एस / 18/1 वहाँ से उत्तर शामिल के सामने से पूर्व की ओर मार्ग के सहारे नवीन ट्रेडर्स होकर सीमेंट रोड के सहारे मकान नं. 616 के आगे मकान नं. 875 से उत्तर की ओर मार्ग से पूर्व की ओर कालीमठ मदिर विर सावरकर वार्ड की सीमा नाले तक।

#### वार्ड क्र. 15 मदन महल

**उत्तर** – सूपाल के सामने स्थित कबिस्तान राष्ट्रीय राजमार्ग 07 के संगम के पूर्व की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 07 के साथ–साथ शारदा चौक तक वहाँ से उत्तर की ओर शारदा देवी मार्ग के संगम तक। वहाँ पूर्व की ओर गंगा सागर मार्ग के साथ–साथ गंगासागर रोड एवं आमनपुर रोड के संगम तक जो मल्लू माली के सामने तक।

**पूर्व** – गंगासागर तिराहे से दक्षिण की ओर एल.आई.सी. कॉलोनी के सामने हर्ष ट्रेडर्स के सामने तालाब की मेड होते हुए नागपुर मुख्य मार्ग कौशल्या होम्स के सामने जबलपुर बेटरी हाउस तक, राष्ट्रीय राजमार्ग क. 07 पार कर प्रेमनगर पोस्ट ऑफिस से पिछियी मार्ग के द्वारा दक्षिण की ओर इसाई मोहल्ला होते हुए हाथीताल मार्ग पारकर हृदय नाम की पश्चिम सीमा के नाले द्वारा दक्षिण की ओर गुप्तेश्वर मंदिर से उत्तर नगर कालोनी जाने वाले मार्ग के संगम तक।

**दक्षिण** — गुप्तेश्वर रतन नगर कालोनी मार्ग पर स्थित हृदय नगर वाले मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर उसी मार्ग के साथ-साथ रतन नगर कालोनी शामिल करते हुये बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा तक।

**पश्चिम** — सूपातल तलाब के सामने श्री कमल सिंह के प्लाट इन.एच. 07 मार्ग से दक्षिण की ओर रोड के सहारे दरगाह मार्ग की ओर पोल क. इन.एन./01/52/2846 से होते हुये म.नं. 1977 / बी प्लाट 83 के सामने मदनमहल दरगाह होते हुये बदनपुर एवं महाराजपुर की सीमा संगम सागर कब्जे मार्ग तक।

#### वार्ड क्र. 16 महाराणा प्रताप

**उत्तर** — मध्य रेल्वे लाइन गढ़ा कछपुरा बसहा मार्ग के तिमेडे के पास नगर निगम की पश्चिमी सीमा से प्राञ्च मध्य रेल्वे लाइन के साथ-साथ भूलन चौकी के पास जे.डी.ए. योजना क्रमांक-6 के 60 फीट मार्ग के संगम तक।

**पूर्व** — मध्य रेल्वे लाइन भूलन चौकी के पहले से दक्षिण की ओर खुली भूमि के सहारे बकसेरा तलाब के पूर्व की ओर सावित्री लोधी के निर्मित भवनों के संगम तक वहां से गंगानगर कालोनी के पूर्व की ओर नवनिवेश कालोनी के मध्यमार्ग के साथ-साथ डॉ दिनेश जैन के संगम तक वहां से पश्चिम की ओर पुराना गढ़ा मार्ग डॉ. दिनेश जैन के द्वाराधाना के पूर्व में पुराना गढ़ा मार्ग के संगम तक वहां से पुराना गढ़ा मार्ग के साथ-साथ पश्चिम की ओर पुराने पुरवा चुंगी चौकी होते हुये सरवेंट क्वार्टर कालोनी के मध्य मार्ग के सहारे दक्षिण की ओर मार्ग के साथ-साथ पिसनहारी मढिया के समने ऐन बसेरा राजमार्ग 12 के संगम तक।

**दक्षिण** — पिसनहारी मढिया के सोमने ऐन बसेरा से राजमार्ग नं. 12 के सहारे पश्चिम की ओर भेड़ाधाट मार्ग के साथ-साथ धनवर्ती नगर चौराहा पार कर भेड़ाधाट मार्ग के सहारे बालसागर चुंगी चौकी होते हुये मार्ग के साथ-साथ नगर निगम पुरवा ग्राम की सीमा तक।

**पश्चिम** — राजमार्ग 12 नगर निगम की सीमा एवं पुरवा ग्राम की सीमा से उत्तर की ओर पुरवा ग्राम की सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर मध्य रेल्वे लाइन के संगम तक।

#### वार्ड क्र. 17 रानी दुर्गावती

**उत्तर** — गढ़ा पुराने थाने से पूर्व की ओर गढ़ा मुख्य मार्ग संगम से आनंद कुंज तिराहे तक वहां से बी टी तिराहा एवं हितकारिणी कन्या शाला मार्ग के साथ गंगासागर तिराहे तक।

**पूर्व** — गंगासागर तिराहे से दक्षिण की ओर शारदा देवी मार्ग के साथ-साथ शारदा चौक तक।

**दक्षिण** — शारदा चौक से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के साथ-साथ पश्चिम की ओर हितकारिणी स्कूल के समने तक।

**पश्चिम** — गढ़ा हितकारिणी स्कूल के सामने घोरलाल पटेल के मकान नं. 2735 से चिकनी कुओं मार्ग के सहारे गढ़ा पुराने थाने के पास मकान नं. 1 सतीश कुमार कश्यप के मकान तक।

### वार्ड क्र. 18 शहीद गुलाब सिंह

**उत्तर** — रतन नगर से प्रेम नगर कृष्णपाल चौक जाने वाले मार्ग स्थित शाहजी के मकान से पूर्व दिशा की ओर प्रेमनगर जाने वाले मार्ग पर नाले की बाउन्ड्री म.नं. 148 अनिता मजेदा के मकान से नाले का सटकर होते हुये दक्षिण दिशा की ओर नाले से सटकर होते हुये गप्ता श्री होटल का कार्नर तिवारी जी की सीमेंट दुकान तक बाजनामठ पहाड़ी जाने वाली पांडडी स्थित दानव बाबा से पहाड़ी के किनारे होते हुये साकार हिल्स सैनिक कालोनी से शारदा मंदिर स्थित रोड से पानी की टक्की का एरिया फिर तक्षशिला इंजीनियरिंग कालोज की पीछे वाली रोड से डाकघर होते हुये गुप्ता होटल से गुप्तेश्वर मंदिर की मुख्यमार्ग स्थित शक्ति नगर चौक से दक्षिण दिशा में भोले कुटी शक्तिनगर मुख्यमार्ग नगर निगम जोन कर्यालय शक्ति भवन मुख्य मार्ग के दाएं हाथ का हिस्सा पी. डब्ल्यू. डी. क्वाटर से रामपुर रेल्वे गेट तक।

**पूर्व** — रामपुर चौराहे स्थित रेल्वे गेट से दक्षिण दिशा की ओर दाएं हाथ की तरफ स्थित आजाद चौक पार्श्व निवास तक।

**दक्षिण** — आजाद चौक से पश्चिम दिशा की ओर जलपरी एम.पी.एस.ई.बी. रोड के बाएं स्थित सहकार नगर जलपरी नवागांव आउसिंग सोसायटी से होते हुये पावर हाउस एम.पी.एस.ई.बी. की दक्षिण दिशा की बाउन्ड्री होते हुये पावर हाउस तक।

**पश्चिम** — पावर हाउस एम.पी.ई.बी. (बरगी हिल्स) की सीमा से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर स्थित पहाड़ी इलाके की सीमा से बाजनामठ की पहाड़ी स्थित दानव बाबा क्षेत्र के पीछे तक दाएं हाथ का हिस्सा।

### वार्ड क्र. 19 कमला नेहरू नगर

**उत्तर** — वसहा लक्ष्मीपुर तथा कल्पुरा ग्राम के तिमेडे के पास स्थित ओमती नाले के साथ—साथ एम.आर. 04 रोड कास कर तिराहे पर पी.के. जेन के मकान के सामने से होते हुये पूर्व की ओर वर्धमान ट्रेलर्स बी. एस. दीवान से होकर कुशवाहा व्यायामशाला के सामने का भाग मातेश्वरी मंदिर से होकर पंकज टेलीकॉम के सामने पुखराज भवन के उत्तर की ओर राज किराना होकर गुलाब कुटी से ए.के.दीक्षित के मकान से पूर्व की ओर सचिन किराना से आगे साई परिसर रानीताल तालाब की मेड से किशन रैकवार के मकान से आगे उसी मार्ग से अखाडे के सामने के मार्ग से होते हुये बच्चू, मंगोड़ा वाले के मकान से आगे गढ़ा रानीताल मार्ग के संगम तक वहाँ से टेलीग्राफ गेट नं. 1 से गढ़ा मार्ग के सहारे पूर्व की ओर रानीताल चौक तक।

**पूर्व** — मदनमहल स्टेशन जाने वाले मार्ग के सहारे पश्चिम की ओर गेट नं. 02 तक, वहाँ से टेलीग्राफ की ओर चार दीवारी तक साथ—साथ दक्षिण की ओर टेलीग्राफ गेट नं. 04 को जाने वाले मार्ग संगम तक। फिर पश्चिम की ओर गेट नं. 04 होते हुये टेलीग्राफ की बाउन्ड्री के सहारे नाला तक।

**दक्षिण** — मध्य रेल्वे लाइन पथ्यर क. के 986/3 पश्चिम की ओर टेलीग्राफ गेट नं. 04 को जाने वाले मार्ग संगम तिमडे तक। चौकी पार कर कल्पुरा बसा तथा गढ़ा ग्राम तिमडे तक।

**पश्चिम** – कछुरा बसहा गढ़ा ग्राम के तिमडे के पास से मध्य रेलवे लाईन से प्रायः होकर उत्तर की ओर वसहा लक्ष्मीपुर तथा कछुरा ग्राम के तिमडे के पास ओमती नाला संगम तक।

### वार्ड क्र. 20 कस्तूरबा गांधी

**उत्तर** :— उत्तर की ओर उखरी मार्ग पर निर्भित पुलिया के संगम तक (गुलजार बिल्डिंग के सामने) वहाँ से उखरी मार्ग के सहारे पूर्व की ओर बल्देवबाग चौराहा अग्रवाल पेट्रोल पंप तक।

**पूर्व** :— दक्षिण की ओर मार्ग के साथ—साथ आगा चौक पार कर मेदामिल के दक्षिण में स्थित मार्ग पूर्व की ओर गढ़ाफाटक जाने वाले मार्ग के साथ—साथ गढ़ाफाटक मुख्य मार्ग संगम तक। शंकर धी भंडार तिराहे के सभीप जगदीश मंदिर गढ़ाफाटक के मार्ग के साथ—साथ दक्षिण की ओर केशरवानी कॉलेज के सामने स्थित नाले के संगम तक, वहाँ से नाले के सहारे ईदगाह की दक्षिणी सीमा के साथ—साथ पुराना पिंजपुर मार्ग रानीताल मेन रोड के संगम तक।

**दक्षिण** :— रानीताल ईदगाह रानीताल चौराहे होकर पश्चिम की ओर गढ़ा रोड होते हुए बच्चू मगोड़ा वाले के सामने से छिदामीलाल खलीफा अखाड़ा होते हुए करवला मार्ग रानीताल तालाब की पश्चिम सीमा तक।

**पश्चिम** :— करवला मार्ग तालाब के किनारे से झुग्नी झोपड़ी तालाब के मेड़ के सहारे संजय गांधी कॉलेज की प्रतिमा तक संजय गांधी कॉलेज से साहिब परिसर होते हुए पीछे से केवट मोहल्ला तथा मुस्लिम कब्रिस्तान की पश्चिमी सीमा से शमशानघाट गेट।

### वार्ड क्र. 21 सावामी विवेकानन्द

**उत्तर** — ग्राम बसहा लक्ष्मीपुर एवं कछुरा के तिराहे के पास ओमती नाले से पूर्व की ओर श्रीमति भूरी बाई पटेल म.नं. 342 के उत्तर की तरफ से पूर्व की ओर लमती ग्राम की सीमा के साथ—साथ विजय नगर के दक्षिणी ओर मिथलापुरी कॉलोनी की सीमा से होते हुये विनय डेरी को साथ लेते हुये दक्षिण की ओर जे.डी.ए. स्कॉम नं. 05 की सीमा से होकर एकता नगर की उत्तरी सीमा से अग्रवाल मंडपम से होकर ढीगरा भवन के सामने पूर्व की ओर अहिंसा चौक से जानकी नगर मोड तक दक्षिण की ओर लक्ष्मीपुर मार्ग से रानीताल शमशान के गेट तक।

**पूर्व** — साहिब परिसर से पश्चिम की ओर हर्षित नगर होते हुये कब्रिस्तान की पश्चिमी सीमा से होते हुये शमशानघाट गेट तक। **दक्षिण** — साहिब परिसर के पश्चिम मोड़ की गली से होते हुये पश्चिम की ओर सविन किराना के सामने से होकर एक दीक्षित के मकान से होकर दक्षिण की ओर वैधनाथ चतुर्वेदी के मकान के सामने से होते हुये राज किराना के पास शारदा गुप्ता मकान नं. 1305 से दक्षिण की ओर आश्रय परिसर होकर पंकज एस.टी.टी. से मातेश्वरी मंदिर के सामने से कैलाशधाम होते हुये कुशवाहा व्याधमशाला, एल्जो कलासिस होकर पश्चिम की ओर एल्जा पालेर, प्रभात कॉलोनी से पी.के.जेन के मकान एम.आर. 4 रोड पार करते हुये ओमती नाले तक।

**पश्चिम** — एम.आर. 4 पी.के. जैन के सामने से ओमती नाला के सहारे पश्चिम की ओर ग्राम बसहा लक्ष्मीपुर एवं कछुपुरा के तिराहे पर बने ओमती नाले पुल तक।

### वार्ड क्र. 22 जवाहर गंज

**उत्तर** :— कोतवाली थाने के बाजू से दरहाई चौक फिर फूटाताल चौक मार्ग के दाई ओर का भाग।

**पूर्व** :— ओम स्टेशनरी मार्ग के संगम से बंदरछाप दुकान से होकर पूर्व की ओर तिलक भूमि तलेया पुराने लार्डगंज पोस्ट ऑफिस होते हुए नरधेया मार्ग के संगम तक जो कि पन्नालाल श्रीबास्तव के मकान के उत्तरी पूर्वी कोने के पास है वहाँ से उत्तर की ओर नरधेया मार्ग के साथ—साथ श्री कोदू लाल देवचंद के मकान के सामने से होते हुए (के.आर.भूरे) के पास सुनहरहाई मार्ग के संगम तक वहाँ से पूर्व की ओर सुनहरहाई मार्ग के साथ—साथ खटीकपुरा तिराहा वहाँ से पूर्व की ओर अंबिकाचरण मार्ग के साथ साथ फूटाताल चौक तक तिलक भूमि की तलेया से तुलाराम चौक।

**दक्षिण** :— रनीताल ईदगाह के पश्चिम में नाले के पुल से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर नरधेया नाला गङ्गा फाटक मार्ग के संगम तक नरधेया नाला गङ्गा फाटक मार्ग के लोहिया पुल से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर नरधेया नाले के साथ—साथ कछियाना मार्ग पर मालेगांवकर के मकान के पास नाले पर बनी पुलिया तक वहाँ से कछियाना मार्ग के साथ—साथ लार्डगंज थाने के पास चौराहे पर स्थित नरधेया नाले के पुल तक।

**पश्चिम** :— केशरवानी कॉलेज के तिराहे से शंकर धी भंडार होते हुए चरहाई होकर धमंडी चौक वहाँ से बड़ा फुहारा कमानिया गेट दायी और का भाग सराफा चौक कोतवाली के सामने तक।

### वार्ड क्र. 23 लोकमान्य बालगांगाधर तिलक

**उत्तर** :— ओम स्टेशनरी मार्ग के संगम से बंदर छाप दुकान से होकर पूर्व की ओर तिलक भूमि तलेया पुराने लार्डगंज पोस्ट ऑफिस होते हुए नरधेया मार्ग के संगम तक जो कि पन्नालाल श्रीबास्तव के मकान के उत्तरी पूर्वी कोने के पास है, वहाँ से उत्तर की ओर नरधेया मार्ग के साथ—साथ श्री कोदूलाल देवचंद के मकान से होते हुए (के.आर.भूरे के पास) सुनहरहाई मार्ग के संगम तक। वहाँ से पूर्व की ओर सुनहरहाई के साथ—साथ खटीकपुरा तिराहा तक, वहाँ से पूर्व की ओर अंमिका चरण मार्ग के साथ—साथ फूटाताल चौक तक।

**पूर्व** :— फूटाताल चौक से लकड़गंज तिराहा फिर वहाँ से गुरंदी तिराहा फिर गलाला चौक। गलाला चौक से ओमती चौक। ओमती चौक से पेशकारी मार्ग होकर अच्छेलाल सोनकर के मकान से होकर सामुदायिक भवन के सामने से ओमती नाला तक।

**दक्षिण** :— उडिया मोहल्ला ओमती नाले के किनारे होकर धंठाधर पुल चायनीज होटल के कोने से ओमती नाला के साथ—साथ राजीव गांधी प्रतिमा तक।

**पश्चिम** :— राजीव गांधी प्रतिमा नौदरापुल से योगी होटल होकर पारस स्टोन गली होते हुए बंगाली मस्जिद होकर मोहम्मदी गेट से हरिजन थाना चौक से विकटोरिया अस्पताल होकर तुलाराम चौक तक।

## बाई क्र. 24 हनुमानताल

**उत्तर :-** खेया मार्ग गरीब उल्ला के मकान के पास ढलगर मोहल्ला पुराने मार्ग पर बने नाले के पुर्व की ओर नाले के साथ—साथ शंकर मालगुजार के मकान के सामने होते हुए नगर निगम सुलभ काम्पलेक्स के पास 367 मिर्जा जमाल बेग के सामने से रवैया मार्ग के साथ—साथ पी. एम. तिवारी के पास हनुमानताल पुलिस चौकी जाने वाले पुलिया के संगम नरेश सराफ से मालपाणी स्कूल होते हुए गुडहाई तिराहे तक।

**पूर्व :-** खेया मार्ग पी. एम. तिवारी के मकान से खेया संगम से दक्षिण पश्चिम की ओर पुलिस चौकी के पास हनुमानताल के पूर्व मार्ग द्वारा दक्षिण की ओर हनुमान प्रसाद वर्मा के मकान के पास शुक्रवारी बजरिया संगम तक वहाँ से पूर्व की ओर उसके साथ—साथ कुंजड़हाई मस्जिद के सामने फूटाताल जाने वाली पुलिया से दक्षिण की ओर बढ़ई मोहल्ला मार्ग एवं विश्वकर्मा मंदिर के पास कोष्ठा मोहल्ला वाली पुलिया द्वारा दक्षिण की ओर फूटाताल पूर्व मार्ग संगम होते हुए दक्षिण मार्ग संगम तक एवं हनुमानताल पश्चिम मार्ग तथा पं. देवी शुक्रला मार्ग होते हुए घोड़ा नककास संगम से दक्षिण की ओर राजा सागर मार्ग गोकुलदास महल के सामने से बोहरा मस्जिद तक के बाजू से फकीरचंद अखाड़ा होते हुए दरहाई चौक के संगम तक।

**दक्षिण :-** फूटाताल दक्षिण मार्ग फूटाताल उर्दू स्कूल के पास के पूर्वी मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर दक्षिण की ओर उसी मार्ग के साथ—साथ मस्जिद के पास चौराहा तक वहाँ से उत्तर पश्चिम साठिया कुआं के साथ—साथ मालवीय मंदिर के पास देवी प्रसाद शुक्रला मार्ग के संगम तक एवं दरहाई चौक, से पश्चिम की ओर कोतवाली थाने के पास शहर के मुख्य मार्ग के संगम तक, दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग से सुनरहाई चौराहा तुनहाई चैरिटाल मार्ग द्वारा हितकारिणी माध्यमिक कथ्या शाला होते हुए, उपरेनगंज मार्ग के सामने तक।

**पश्चिम :-** देवी प्रसाद शर्मा मार्ग मालवीय मंदिर से साठिया कुआं मार्ग के संगम से उत्तर की ओर देवी प्रसाद शुक्रला मार्ग हनुमानताल के पश्चिम मार्ग के साथ—साथ डॉ. के. एल. जैन के दवाखाना के सामने वाली गली से फकीरचंद अखाड़ा से होकर बोहरा मस्जिद एवं वहाँ से हनुमानताल पश्चिम मार्ग के साथ—साथ घोड़ा नककास पर कर ढलगर मोहल्ला गरीब उल्ला के मकान के पास बने नाली पुल तक एवं उपरेनगंज मार्ग हितकारिणी माध्यमिक शाला से तुनहाई चैरिटाल मार्ग के उपरेनगंज मार्ग द्वारा उत्तर की ओर राजा सागर पर राजा सागर तथा तमरहाई मार्ग द्वारा द्रस्ट गुडहाई तिराहे से तमरहाई चौक से मुकेश सराफ पार्श्व निवास से होते हुए मन्नूलाल अस्पताल से दीक्षितपुरा तिराहे तक एवं दीक्षितपुरा तिराहे से सराफा चौक आहिंसा इलेक्ट्रिकल के सामने गली दरहाई चौक से व गोकुलदास महल तक।

### वार्ड क्र. 25 महात्मा गांधी

**उत्तर** :— हरदौल मंदिर से दीक्षितपुरा हितकारिणी रक्कूल के सामने सराफा चौक।

**पूर्व** :— सराफा चौक से कमानिया गेट बड़ा फुहारा फिर घांडी चौक।

**दक्षिण** :— घांडी चौक से शंकर धी भंडार होते हुए बड़ी महाकाली मंदिर तक फिर बड़ी महाकाली के सामने से जगदीश मंदिर होते हुए एन एच-7 मुख्य मार्ग पुराने आर.के.बिस्कुट के सामने तक।

**पश्चिम** :— आर.के. बिस्किट के सामने से आगा चौक होकर बलदेव बाग चौक होकर हरदौल मंदिर तक।

### वार्ड क्र. 26 गोविंद वल्लभ पंत

**उत्तर** :— क्षेत्रीय बस स्टेंड के कोने से अमरज्योति होटल होकर अध्यारताल रोड पर मोतीनाला पुल पार करके गोहलपुर ईदगाह के कोने तक।

**पूर्व** :— गोहलपुर तिराहा ईदगाह से मोती नाला पुल होकर बायें तरफ बुनियाद शाह बाजा से होकर पुराना पोस्ट ऑफिस वाली गली के आगे भूरे पहलवान के सामने से घोड़ा नकास तिराहा नरेश सराफ के मकान से बटुक भैरव के मंदिर के कोने तक का दाहिना हिस्सा।

**दक्षिण** :— बटुक भैरव के बाजू से गली में नारायण नामदेव के मकान के सामने से मिलोनीगंज कोतवाली मार्ग पर धनुषधारी मंदिर के सामने से गुड़हाई चौक होकर लॉ. पहाड़िया निवास से मौर्य के मकान तक।

**पश्चिम** :— मौर्य मकान से छोटा फुहारा होकर सूजीपुरा स्कूल से जमुनिया कुंआ बांधी तरफ होकर कोसी मंदिर के सामने से अतारी लाल तिवारी के मकान से क्षेत्रीय बस स्टेंड के कोने तक।

### वार्ड क्र. 27 चेरीताल

**उत्तर** :— कोठारी मेडिकल के सामने साहु के मकान से दमोह नाका चौराहा साहु आटाचूककी तक।

**पूर्व** :— दमोह नाका परिजात बिल्डिंग हीर जी बलदेव बाग तिराहा एसबीआई एटीएम तक।

**दक्षिण** :— बलदेवबाग SBI (ATM) से शीतल तुरी कालोनी यंग ब्लड बैन रोड से गुलजार बिल्डिंग के सामने उत्तमचंद जैन किराना दुकान तक।

**पश्चिम :-** उत्तमचंद्र जेन किरणा दुकान से साम कालोनी जेन मंदिर के पहले तिरहा होकर राजेश अग्रवाल द्रास्फारम के सामने से मथूर किराना होकर स्टेम फैल्ड स्कूल के सामने से क्षत्रिय आटा चबकी पतली गली से आगे कस्टल पाञ्चव की फेवटी से आगे पुलिया के अन्दर से साइड रोड पूर्व पार्श्व धानघोरिया के घर के पास से पुरुषोत्तम कुटी से सरस्वती उद्यान पर करके दाहिनी तरफ वर्मा के मकान के सामने एस०बी० बोहरा से रविन्द्र गुप्ता रोड पर करके दीपक साहू के बाजू से अंदर कोठारी मेडिकल के सामने साहू के मकान तक।

**वार्ड क्रं. 28 जयप्रकाश नारायण**  
उत्तर :- अनिल साहू के मकान से पंजाब बैंक कॉलोनी मोड पर कोठारी मेडिकल के मकान तक।

**पूर्व :-** कोठारी मेडिकल से प्रार्थ होकर पंजाब बैंक कालोनी मार्ग पर करके नवीन नेमा के मकान से अग्रवाल इंजीनियर से सरस्वती उद्यान के बायें हिस्सा आगे रोड पर करके पुरुषोत्तम कुटी के सामने से अंदर दाहिने मुडकर क्रिस्टल पाञ्चव के आगे दाहिनी तरफ श्री छाया से दुर्गा मंदिर मथूर किराना से बी०के० धाद के सामने से दोसो० शर्मा से दादा-दादी गार्डन से जायसवाल के मकान से आगे मुडकर गुलजार बिलिंग।

**दक्षिण :-** उखरी तिरहा बैलिंग दुकान से बलदेवबाण की ओर गुलजार बिलिंग तक।

**पश्चिम :-** उखरी तिरहा बैलिंग की दुकान से नर्मदा नर्सरी से होते हुए प्रवीण दबे के भवन से नामदेव ब्रदर्स से वार्ड की बाहरी सीमा के साथ-साथ प्रसन्न रद्दी के सामने नण्डी की बांडडी से लगाकर मण्डी के दक्षिणी कोने से घूमकर एयरटेल के सामने से अनिल साहू के मकान तक।

**वार्ड क्रं. 29 डॉ० राममनोहर लोहिया**

**उत्तर :-** रानीदुर्गावटी चौक त्रिमूर्ति नगर होते हुए कठोंदा निगम सीमा तक।

**पूर्व :-** त्रिमूर्ति नगर रानीदुर्गावटी चौक सोनी मार्केट से होते हुए पार्श्व रेणु कोरी के सामने से पूर्व की ओर बाजपेठी बैलिंग डबल रोड होते हुए जयदत्त पाण्डे के मकान से मुडकर केशववानी फर्म से होते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स से होकर सामुदायिक भवन होते हुए चंडाल भाटा गली नंबर एक से होकर भूतडा के मकान तक।

**दक्षिण :-** दीनदयाल चौक स्थित रुपचंद मतानी के मकान से पचोरी पेट्रोल पंप के आगे साँई मादिर ट्रास्पोर्ट नगर होते हुए शांति नगर भूतडा के मकान तक।

**पश्चिम :-** कठोंदा निगम सीमा से ग्रीन स्टी होकर माडोताल कोल बरसी तिरहा होकर यादव डेरी के सामने से संचार नगर साँई कॉलोनी पार करते हुए आईटीआई मुख्य मार्ग से दीनदयाल चौक रुपचंद मतानी के मकान तक।

### वार्ड क्रं. 30 पं. दीनदयाल उपाध्याय

**उत्तर** :— कठौदा प्लाट नगर निगम सीमा के उत्तर की ओर निगम सीमा का बाहरी भाग मदर टेरेसा कॉलोनी का कोना कटांगी मेन रोड तक।

**पूर्व** :— रुपचंद मतानी के मकान से सड़क के उस पार से अर्तिराज्यीय बस स्टैण्ड की सीमा से लगकर तालाब के किनारे से कोल बस्ती तिरहा होते हुए ग्रीन सिटी मेनरोड होते हुए कठौदा प्लाट के पास नगर निगम सीमा तक।

**दक्षिण** :— माठोताल चुंगिनाका से मुख्य मार्ग दीनदयाल चौक होते हुए रुपचंद मतानी के मकान तक।

**पश्चिम** :— मदर टेरेसा नगर से रुपचंद स्टैट होते हुए आईटीआई चंगी नाका माठोताल तक।

### वार्ड क्रं. 31 राजीव गांधी

**उत्तर** :— मोती नाला पुल के किनारे से शांति नगर से होते हुये किनारे किनारे रियान स्कूल के आगे राजा तिवारी की साइड से होते हुये नंदन विहार के आगे कृष्णा कालोनी होते हुये भूलन देवी मंदिर खेत के कोने तक।

**पूर्व** :— दमोहनका चौराहा कटनी रोड होते हुये जे.डी.ए. मार्केट के आगे मेहरानिशा के निवास मोती नाला पुल तक।

**दक्षिण**— त्रिमूर्ति नगर तिरहा से पूर्व की ओर बाजपेयी बैलिङ्गा जयदत्त पाण्डे के मकान से होते हुए दांसपोर्ट नगर से होकर सुलभ शौचालय होते हुये चौधरी मोहल्ला गली न. 1 से होते हुये मुख्य मार्ग दमोह रोड भूतडा के मकान से होकर मेडोना श्री अनिल पचौरी के आगे कुवैनी मार्केट के आगे दमोह नाका चौराहे तक।

**पश्चिम**— भूलन देवी मंदिर खेत के कोने से होते हुये कृष्णा कालोनी अनमोल गोल्डन ड्यूप्लेक्स के किनारे से श्री राम कुमार पटेल के निवास कोने से होते हुये लाला पान भंडार के डबल रोड से होते हुये ईश्वर प्रेम आश्रम के आगे त्रिमूर्ति नगर तिरहे तक।

### वार्ड क्रं. 32 सुभदा कुमारी चौहान

**उत्तर** — तीन पत्ती चौक से होते हुये यातायात थाने के सामने से बी.एस.एन.एल. कारबलिय होते हुये गेट नं० 2 तक। फिर गेट नं० 2 से होते हुये गेट नं० 3 विरायु अस्पताल तक।

**पूर्व** — नगर निगम चौराहे से प्रांतम होकर दक्षिण की ओर शास्त्री पुल की ओर जाने वाले मार्ग के सहारे मध्य रेल्वे लाईन पर बों शास्त्री पुल तक।

**दक्षिण** — मध्य रेल्वे लाईन पर स्थित शास्त्री पुल से प्रांतम होकर परिचम की ओर मध्य रेल्वे लाईन के साथ मदन महल स्टेशन अंडरब्रिज होते हुये मध्य रेल्वे स्थित खेबा नंबर— 986 / 3 तक।

**पश्चिम** — मध्य रेल्वे लाईन पर स्थित खंभा नं० 986 / 3 से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ओमती नाला पार करते हुए टेलीग्राफ नाला के साथ—साथ टेलीग्राफ कंपाउडवाल तक जो कि सॉइबाबा मंदिर मार्ग पर स्थित हैं वहाँ से साईं बाबा मंदिर के साथ—साथ पूर्व की ओर टेलीग्राफ गेट नं० 3 तक।

### वार्ड क्रं. 33 खार्मी दयानंद सरस्वती

उत्तर — नवभारत प्रेस ओमती नाले से होकर कृष्णा होटल के पीछे ओमती नाला होते हुये ज्योति टॉकिंज होते हुये नौदरा पुल होकर देशबंधु प्रेस नगर निगम के संभागीय कार्यालय होते हुये मुस्लिम मुसाफिर खाना ओमती नाला पुल तक।

**पूर्व** — डॉ० राजेन्द्र प्रसाद चौराहा (हाईकोर्ट चौक) से दक्षिण की ओर दत्त रेसीडेंसी होकर स्टेट बैक मार्ग के साथ—साथ रेल्वे लाईन के पुल नं० 2 के पास केन्टोमेंट सीमा के सामने पोल नं० 121 तक।

**दक्षिण** — मध्य रेल्वे पुल नं० 2 के पास केन्टोमेंट सीमा खंभा नं० 121 से दक्षिण की ओर पुल नं० 3 होते हुए केन्टोमेंट सीमा खंभा नं० 118 तक वहाँ से दक्षिण की ओर केन्टोमेंट सीमा के साथ—साथ नं० 117 बी, 117ए, 1 / 116, 115 एवं 115 ऐ होते हुये वहाँ से उत्तर की ओर कंठगा मार्ग के साथ—साथ हाउबाग रुद्धेलवाल के बांगले के पश्चिम से बहने वाले नाले के साथ—साथ दक्षिण पूर्व रेल्वे लाईन पर कर मध्य रेल्वे लाईन तक वहाँ से मध्य रेल्वे लाईन के साथ—साथ पश्चिम की ओर शास्त्री पुल तक।

**पश्चिम** — मध्य रेल्वे लाईन पर बने शास्त्री पुल से उत्तर की ओर मार्ग के साथ—साथ नवभारत प्रेस के पास पेंद्रेल पंप के पहले मार्ग के संगम तक।

### वार्ड क्रं. 34 पं० भवानी प्रसाद तिवारी

उत्तर — तुलाराम चौक से होकर लार्डगंज चौक वैष्णवी स्टोर्स से कठियाना नाला का बाया हिस्सा होते हुए कठियाना से केशरवानी कॉलेज की ओर नाले का बाया हिस्सा एवं डॉ० अभिनंदन जेन के मकान से होकर किनारे का बायां हिस्सा लेते हुए रानीताल का बाया हिस्सा।

**पूर्व** — तुलाराम चौक से ओमती मस्तिजद के सामने जनता सायकिल से होकर मोहम्मदी गेट का दाहिना हिस्सा होते हुये बंगाली मस्तिजद के सामने से होकर पारस स्टोन गली होते हुये विजया रानी सिंधई के मकान से होकर राजीव गांधी प्रतिमा तक।

**दक्षिण** — राजीव गांधी प्रतिमा नौदरा ब्रिज से ओमती नाले के सहारे नवभारत प्रेस तक, तीन पत्ती से यातायात थाने के सामने आर्य हिन्दु लॉज से गेट नं० 02 हनुमान मंदिर तक।

**पश्चिम** — रानीताल से पी.एन.टी.पी. बाउन्ड्री के किनारे—किनारे गेट नं० 03 चिरायु हॉस्पिटल तक का बाया हिस्सा।

## वार्ड क्र. 35 महाराजा अगसेन

**उत्तर :-** पाटन मार्गपर स्थित नगर निगम की सीमा जो करमेता ग्राम की पूर्वी सीमा से लगकर है वहाँ से पूर्व की ओर दगोह जबलपुर मार्ग के साथ—साथ दीनदयाल चौराह पार कर कृषि उपज मट्ठी की पश्चिम सीमा जो दीनदयाल वार्ड की सीमा तक स्थित है।

**पूर्व :-** दीनदयाल वार्ड की सीमा से लाभग वर्तमाला पेराडाइज से पश्चिम की ओर मतेश्वरी गार्डन के सामने वाले मार्ग से होते हुये दिनेश किराना उसके आगे दीवान का मकान वहाँ से मुड़कर एकेतिवारी के सामने वाले मार्ग के साथ — साथ पश्चिम की ओर जानकी नगर उद्धान के पास आर के प्रोविजन तक।

**दक्षिण :-**आर के प्रोविजन के सामने से जानकी नगर होते हुये अंहिला चौक पार कर पश्चिम की ओर यादव ट्रेडर्स से अग्रसेन मंडपम के सामने से होते हुये दक्षिण की ओर ज्वाट न. 1106 सेन के मकान से दक्षिण की ओर स्कीम न. 41 की मेन रोड से पश्चिम की ओर उत्तरी सीमा मकान न. 1145 सी. 1 श्री दुबे जी के मकान से होते दीर्घायु फिजियोथेरेपी से पूर्व की ओर बाके विहारी मकान से एच.बी कॉलेज के सामने से अभिषेक प्राविजन के पीछे का भाग मिथिला पुरी के कानूर से JDA के स्कीम न. 05 के भवनों से होकर 28 याटर होते हुये सर्वे आफ इडिया के अवासी याटर से लमती ग्राम की दक्षिण सीमा के सामने तक।

**पश्चिम :-**माठेताल राजीव नगर से होते हुये जे.डी.ए. स्कीम न. 14 सरस्वती ज्ञान मंदिर से होते हुये नब्बे याटर कंचनबिहार कंचनारसिंही नगर निगम सीमा होते हुये कंचनार सिंठी रोड तक तथा नचिकेता चौराहे से दक्षिण की ओर विनय डेरी के सामने शंकरजी के मंदिर तक।

### वार्ड क्र. 36 मौलाना अबुल कलाम आजाद

**उत्तर —**नालबंद मोहल्ला मार्ग छोटे सोनकर वाली पुलिया एवं ढलारपुरा मार्ग के संगम से उत्तर पूर्व की होर हाजी अब्दुल जब्बार के मकान नं 521 के बिरया मार्ग द्वारा श्याम सिंह के धड़े पर मोतीनाले के नये पुल तक वहाँ से लाने के द्वारा नए मिर्जापुर मार्ग पर बने मोती नाले के पुल तक जो मुसलमान कब्रिस्तान के पास हैं।

**पूर्व —** नई मिर्जापुर सड़क मुसलमान के कब्रिस्तान के पास मोतीनाला पर बने पुल के दक्षिण की ओर खेया मार्ग के संगम तक जो वाटर वर्कर्स ब्रुस्टिंग के पास हैं।

**दक्षिण —** खेया मार्ग वाटर वर्कर्स के ब्रुस्टिंग पंप के पास मिर्जापुर मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर उसी मार्ग के साथ साथ मिर्जा जमाल बेग के मकान नं. 376 तक यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर नगर निगम के सेटिक लोट्रिन के सामने से नाले द्वारा शंकर मालगुजार मार्ग पर स्थित नाले के पुल तक।

**पश्चिम —** ढलारपुरा मार्ग गरीबउल्ला के मकान के पास ढलारपुरा मार्ग पर बने नाले के पुल से उसी मार्ग द्वारा उत्तर की ओर छोटे सोनकर के मकान के पास नालबंद मोहल्ला मार्ग के संगम तक।

### वार्ड क्र. 37 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

**उत्तर :-** दमोहनाका चौक से गोहलपुर मार्ग पर केशीय बस स्टेप्प के सामने इडिया मटन सौप अतारी लाल तिवारी के मकान के सामने से होकर कोई मंदिर, जमुनिया कुओं होकर सूजीपुर रुक्ल के कोने तक दाहिना हिस्सा ।

**पूर्व :-** सूजीपुर रुक्ल के सामने कोने से प्रारंभ होकर छोटा फुहारा आगे तमराहाई चौक तक दाहिना हिस्सा । तमराहाई चौक से होकर ज्ञाहू मोहल्ला राजा टेन्ट सिमरिया रानी की कोठी होकर दीक्षितपुरा बाबू मनमोहनदास हितकारिणी रुक्ल तक दाहिना हिस्सा ।  
**दक्षिण :-**बाबू मनमोहनदास हितकारिणी रुक्ल होकर गुरु तिराहा मिश्रबच्चु कार्यालय के सामने से चेरीताल चौक पुलिस क्वाटर तक दाहिना हिस्सा ।

**पश्चिम :-**दमोहनाका बल्लदेव बाग चौक के बीच पुलिस क्वाटर से समदिल्या काम्पलेक्स गोपाल बिहार होकर दमोहनाका चौक के आगे श्यामा प्रसाद मुख्यमंत्री नगर निगम मार्केट के कोने में मटन की दुकान तक दाहिना हिस्सा ।

### वार्ड क्र. 38 प० मोतीलाल नेहरू

**उत्तर :-** अरब चालों के मकान के बाजू से नवाबे रुक्ल से होते हुए कीर्ति नगर अशोक नगर जैन मंदिर आनंद नगर से होते हुए अनुसृतित जन जाति छात्रावास से रद्दी चौकी तक ।

**पूर्व :-** रद्दी चौकी से परस रम लोहा वाले से हाई कोर्ट रोड होते हुए बहोरा बाग चौक से हनफिया मस्जिद वाली गली नईमुद्दीन बर्फ वाले के मकान तक एवं गली होते हुए काली चाय वाले के सामने सलीम राशन वाले की लाईन एवं उचरउआं कुंआ से होते हुए अमीनुद्दीन डेरी वाले की लाईन होते हुए डॉ. खान वाली लाईन से मेनरोड गाजी मिया मझार तक ।  
**दक्षिण :-** गाजी मिया मझार से गोहलपुर पुरानी पानी टंकी होते हुए अमरेश रोड भारत नगर का हिस्सा ।

**पश्चिम :-** गाजी नगर से होते हुए वंदना नगर की गली राजनीति नगर के बाजू से घनश्याम अधिकार के मकान से एवं रसीद नेता की गली से भूमि विकास बैंक गृह निर्माण सोसाइटी से अरब चालों के मकान तक ।

### वार्ड क्र. 39 चितरंजनदास

**उत्तर :-** अमरेश मेनरोड से बस्ती नंबर 2 एक्स क्लब की गली न्यू नर्मदा नगर एवं फिरोज भाई की प्लाटिंग तक ।

**पूर्व :-** गोहलपुर थाना से भरत नगर रसाजान भाई की सीमेन्ट दुकान के बाजू से आशिक अली के मकान के आगे वंदना नगर विद्युत ट्रांसफार्म तक की बाजू वाली गली से श्री लखेश जी के मकान से होते हुए बाबू सलाम के सामने से होते हुए सवान बिजली वाले के आगे कच्ची रोड से होते हुए कुंआ वाली गली से होते हुए अनीता बर्मन के मकान के बाजू से मिथलेश तिवारी के मकान से होते हुए घनश्याम अधिकार के मकान से ज्ञानी होटल अमरेश मेनरोड तक ।

**दक्षिण** :— अहमद नगर से मोतीनाला के किनारे से होते हुए एवं नवीन पानी की टंकी तक का हिस्सा पुलिस क्वाटर गोहलपुर थाना तक।  
**पश्चिम** :— फिरोज के लाटिंग से नेवल डिस्ट्रॉक्यू की प्लाटिंग से वकील तिवारी जी के मकान के आगे से होते हुए सुभाष नगर एवं अहमद नगर के किनारे तक।

#### वार्ड क्रं. 40 डॉ. जाकिर हुसैन

**उत्तर** :— उचुआ कुंडा के सामने वाली गली एवं अमीन उद्दीन डेरी वालों के घर के सामने वाली लाईन, डॉ खान के सामने वाली लाईन एवं सामने वाली गली से मुस्तफा टाल वाले एवं नई बस्ती होते हुए ईडल्यूपुर स्कूल के बाजू वाली गली नगीना मस्जिद के सामने वाली गली।

**पूर्व** :— बहोरा बाग चौक स्थित बहोरा मार्केट से दारुल उलुम तक एवं उससे होते हुये चार खम्बा तक।

**दक्षिण** :— नगीना मस्जिद से मदन गोपाल असाठी के मकान तक एवं नोने लाल की गली से मोमीन पुरा तलेया होते हुये बेनी सिंह की तलेया, अंसार नगर गली तक।

**पश्चिम** :— यादव माल गुजार से लाल स्कूल गोहलपुर उड्ड स्कूल एवं पानी वाली तलेया काली चाय वाली लाईन होते हुए फकीर मोहम्मद के मकान तक।

#### वार्ड क्रं. 41 संजय गांधी

**उत्तर**— खुशी जनरल स्टोर से पश्चिम की ओर दुर्गा मादिर के आगे कट्टीर मुंशी कार्यालय से रेजा चौक तक।

**पूर्व** :— टनटनिया पहाड़ी सलाउदीन मदरसा होते हुए बाए हाथ के क्षेत्र सम्मति नगर मुख्य मार्ग होते हुए उत्तर की ओर खुशी जनरल स्टोर तक।

**दक्षिण** — डा. असलम से होते हुए टनटनिया पहाड़ी क्षेत्र पूर्व दिशा की ओर सलाउदीन मदरसा तक।

**पश्चिम** — रेजा चौक ताहा किराना स्टोर से बांई पट्टी पर आगे दक्षिण की ओर डा. असलम तक।

#### वार्ड क्रं. 42 नेताजी सुभाष चंद्र बोस

**उत्तर**— मिल्क स्कैम महाप्रबंधक के निवास से शोभापुर मुख्य मार्ग पर दाहिने हाथ की ओर का हिस्सा ईनिक भास्कर प्रेस कार्यालय व औद्योगिक क्षेत्र के आगे बढ़ते हुए शोभापुर रेल्वे फाटक के पास काली मंदिर तक।

**पूर्वः—** शोभापुर रेल्वे फाटक के सामने काली मादिर पहाड़ी के बीच से दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए सपना नगर नई पानी की टंकी के आगे की ओर निर्भय नगर पहाड़ी होते हुए टनटनिया पहाड़ सलाउदीन मदरसा तक।

**दक्षिण — सलाउदीन मदरसा के** पहले संतोष पांडे के मकान से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए अबेडकर भवन का क्षेत्र ललित नागले के मकान से होते हुए अबेडकर भवन तक।

**पश्चिम — अबेडकर भवन के** पास मुकेश कोरी के निवास से आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए शुक्रला किराना से मिलक स्कीम महाप्रबंधक के निवास तक।

#### वार्ड क्रं. 43 डॉ. शयामा प्रसाद मुखर्जी

**उत्तर —** चुंगी चौकी गुरु प्रसाद के मकान से होते हुये काच घर चौकी की सीमा तक।

**पूर्व —** चुंगी चौकी से जी.सी.एफ. (बाउच्यू) सीमा से होते हुये हनुमान टोरिया रेल्वे लाईन के किनारे होते हुये पुल नं. 1 तक।

**दक्षिण —** पुल नं. 1 गोकुल दस धर्मशाला से इंदिरा मार्केट होते हुये जल गेट तक।

**पश्चिम —** सेन्ट्रल जेल क्वार्टर से हाउसिंग बोर्ड पुलिया होते हुये रेल्वे स्टेशन से कांचघर रोड तक।

#### वार्ड क्रं. 44 आचार्य विनोदा भावे

**उत्तर—पूर्व —** गोहलपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा पहाड़ी के मध्य से होते हुये हिन्दू शमशान के पश्चिमी उत्तरी कोने पर स्थित जबलपुर पनेहरा तथा गोहलपुर ग्राम पहाड़ी की सीमा के तिराहे से पूर्वी की ओर हिन्दू शमशान की पूर्वी उत्तरी सीमा के कोने तक, पहाड़ के मध्य से दक्षिण की ओर हिन्दू शमशान की पूर्वी सीमा के सामने श्रीराम गणेश पाली के मकान के पास वाले मार्ग से पूर्व की ओर नाला पारकर उसी मार्ग के साथ—साथ मकान नं. 1882 के पास स्थानी समकृष्ण परमहस मार्ग द्वारा ओमती नाले पर स्थित पुलिया तक स्थानी रामकृष्ण परमहंस मार्ग पर ओमती नाले के साथ कुण्डम मार्ग पर स्थित ओमती नाले के पुल तक।

**दक्षिण —** ताड़ीखाने के सामने नाले पर बने पुल से कुण्डम मार्ग के साथ—साथ उत्तर की ओर ताड़ीखाने के पास नाले से लगा हुआ हिस्सा तथा गोहलपुर ग्राम पहाड़ी की सीमा के तिराहे से पूर्वी की ओर हिन्दू शमशान की पूर्वी उत्तरी सीमा के किनारे—किनारे होकर ताड़ीखाने के नाले तक, मकान नं. 1864 वर्षा के मकान नं. 1890 हीरालाल के मकान होते हुये पिछले तिराहा नाले फिर दक्षिण की ओर शीतला माई मदिर होते हुये सरकारी कुआ के सामने पश्चिम के मार्ग से प्रेमसागर मार्ग स्थित प्रेमसागर पुलिस चौकी तक।

**पश्चिम —** प्रेमसागर पुलिस चौकी से उत्तर की ओर मरठाई रोड के साथ—साथ गनेशगंज मार्ग के संगम होते हुये ग्राम जबलपुर गोहलपुर तथा पनेहरा ग्राम के तिराहे तक।

### वार्ड क्र. 45 शीतलामाई

**उत्तर** — न्यू मिर्जापुर मार्ग से प्रेम सागर जाने वाले मार्ग पर रिथत हरिजन क्वार्टर के पास नाले से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर शीतलामाई मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के साथ—साथ सरकारी कुंआ के सामने से होते हुए कुण्डम मार्ग पर बने ओमटी नाले के पुल तक तर्जीखाना के पास मेन रोड खण्डेलवाल बिल्डिंग होते हुए कुचबदिया मोहल्ला मेन रोड महाराणा प्रताप चौक तक ।

**पूर्व** — ताड़ी खाना के पास कुण्डम मार्ग पर स्थित नाले के किनारे पश्चिम की ओर रामखरुप शर्मा के मकान से पश्चिम की ओर मुख्य नाले के साथ साथ रविकांत रावत बिल्डिंग के पीछे के नाले के सहारे पश्चिम की ओर ओमटी नाले के साथ साथ न्यू मिर्जापुर मार्ग पर बने जंजीरा नाले के साथ साथ न्यू मिर्जापुर पर बने जंजीरा पुल के पास तक एवं हाउसिंग बोर्ड कालोनी तिराहा संगम से कांच घर मेन रोड समदिया कालोनी से होते हुए कांच घर रोड खण्डेलवाल बिल्डिंग तक ।

**दक्षिण** — गोपाल मदिर बाई के बगीचा से होते हुए रामकृष्ण आश्रम से कुंयबदिया मोहल्ला होते हुए बच्चल का बाड़ा हाऊसिंग बोर्ड कालोनी तिराहे के संगम तक ।

**पश्चिम** — न्यू मिर्जापुर पर बने जंजीरा पुल से पूर्व की ओर प्रेम सागर नाले के संगम तक वहा से उत्तर की ओर प्रेम सागर नाले के किनारे कुण्डम मार्ग पर नाले के साथ साथ हरिजन क्वार्टर के पास प्रेम सागर मार्ग संगम तक ।

### वार्ड क्र. 46 प. द्वारका प्रसाद मिश्र

**उत्तर** :— गोपाल होटल एवं सिद्धबाबा मार्ग के संगम से पूर्व की ओर आचार्य केपलानी मार्ग के साथ—साथ छ. खम्मा चांदमारी मार्ग होते हुये चौरस्ते से पूर्व की ओर मार्ग के किनारे—किनारे जी.सी.एफ. की पश्चिम सीमा तक । जी.सी.एफ. सीमा खम्मा नं. 8 डी एवं 8 सी. के मध्य में स्थित हैं।

**पूर्व** :— चांदमारी छ. खम्मा मार्ग के संगम से पूर्व की ओर जो मार्ग जी.सी.एफ. सीमा के पश्चिम में मिलता है, से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 सी होते हुये सीमा के साथ—साथ कुण्डम मार्ग तक जहाँ पर पुरानी चुंगी स्थित है ।

**दक्षिण** — कुण्डम मार्ग पूर्व माध्यमिक शाला के पास जी.सी.एफ. सीमा खम्मा नं. 3 से प्रारंभ होकर कुण्डम मार्ग के साथ—साथ पश्चिम की ओर कांचघर चौक के संगम तक ।

**पश्चिम** — कांचघर चौक से उत्तर की ओर जाने वाला आचार्य कृपलानी मार्ग के साथ—साथ घमापुर थाना भारत सेवक समाज के आगे झामनदास चौक पार करते हुये । झामनदास चौक से भवन कमांक—1793 शासकीय राशन दुकान से 1805 मूलचंद नारायणी से 1812 नाले के इस दाहिने ओर का एरिया भवन कमांक—1799 अरुण बनाफर तक भवन कं 1766 से 1757 कल्याराम महरोलिया के मकान तक 1757 से 1788 संतोष ज्वेलर्स तक, आचार्य कृपलानी मार्ग के संगम तक वहाँ से उत्तर की ओर आचार्य कृपलानी मार्ग के साथ—साथ गोपाल होटल चौराहे तक ।

### वार्ड क्रं. 47 सेठ गोविंद दास

**उत्तर** — बैतला ग्राम की पश्चिमी सीमा (कंचनपुर टोरिया) के मध्य से सिद्धबाबा टोरिया से शुरू होकर पूर्व की ओर पहाड़ी के मध्य से चांदमारी टोरिया की शारदा मंदिर के दक्षिणी भाग से जी.सी.एफ. सीमा के खम्मा नं. 8 डी. तक जो चांदमारी टोरिया पश्चिम कोने पर है।

**पूर्व** — जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 डी से दक्षिण की ओर जी.सी.एफ. सीमा के साथ—साथ चांदमारी मार्ग से दक्षिण की ओर जो मार्ग जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 डी एवं 8 सी के मध्य मिलता है, उसी मार्ग के साथ—साथ उत्तर पश्चिम की ओर छ: खम्मा से चांदमारी की ओर जाने वाले मार्ग के संगम तक।

**दक्षिण** — जी.सी.एफ. खम्मा नं. 8 डी एवं 8 सी के मध्य से आने वाले मार्ग एवं छ: खम्मा चांदमारी मार्ग से संगम से पश्चिम की ओर मार्ग के साथ—साथ आचार्य कृष्णपानी मार्ग होते हुये गोपाल होटल चौराहे तक। जहाँ सिद्धबाबा मार्ग का संगम है।

**पश्चिम** — गोपाल होटल एवं सिद्धबाबा मार्ग के साथ—साथ नारायण विश्वकर्मा भवन क्रं. 2196 से भवन क्रं. 2209 कपिल देव से भवन कं. 2222 आठा चक्रकी शिव मंदिर का हिस्सा से होते हुये भवन कं. 2237 कैलाश नगर स्कूल 2284 से होते हुये भवन कं. 2217 तक भवन कं. 2240 से भवन कं. 2267 तक मुंशी प्रजापति पूर्व पार्षद का एरिया, पश्चिम की ओर पोल नं. के.आर. 511 मकान नं. पुरानी 2351 नरबदा साहू के मकान तक फिर वहाँ से डामर सड़क के (दक्षिण हिस्सा) नाले के किनारे मकान नं. 2588 मकान नं. 2488 पोल नं. के.आर. 151 श्री बाबूलाल गुप्ता के मकान के पास से होते हुये मकान नं. 2561 वहाँ मार्ग के साथ—साथ पोल नं. के.आर. 151 डी की दक्षिण हिस्सा फिर डामर मार्ग से होते हुये मील पार कर मकान नं. 2008 (नथा) कृष्णपाल गोतम के मकान से होते हुये मकान नं. 1989 शातिबाई के मकान से पश्चिम ओर जाने वाले मार्ग कलउ के मकान लकड़ी के टाल से मंदिर तक फिर मंदिर से टोरिया की ओर (कंचनपुर) तक। जहाँ सुदरबाई पति रामशंकर काढ़ी का मकान है।

### वार्ड क्रं. 48 सिद्धबाबा

**उत्तर** — बैतला ग्राम की दक्षिणी सीमा याने सिद्धबाबा मंदिर के दक्षिण पूर्व में हैं वहाँ से पूर्व की ओर एवं बैतलाग्राम से दक्षिण सीमा के पहाड़ी के मध्य के साथ—साथ रामगोपाल के मकान के पास कृष्णदेव पाण्डे के मकान नं. 1306 के उत्तर में पहाड़ी के मध्य से पिहाड़ी मोहल्ला होते हुये चौप वाली कुलिया से संगम तक जो सुंदर बाई पति रामशंकर काढ़ी के मकान के समने हैं।

**पूर्व** – बैतला ग्राम के दक्षिणी सीमा सिद्धबाबा टोरिया के पूर्व उत्तर पहाड़ी के मध्य होते हुये चौप वाले मार्ग के सहारे दक्षिण की ओर ढुलारी बाई यादव के मकान के पास नये चांदमारी मार्ग के संगम जो के.आर. 145 की ओर पोल नं. 145 के.आर.इ. से दक्षिण की ओर डामर सड़क के साथ–साथ नाला पारकर श्री हल्के सिंह के मकान के आगे पोल नं. के.आर. 145 आई.एस.पी. 2 के आगे मोड़ पर श्री गणेश प्रसाद जिनके मकान के आगे मदिर के बाजू से दाहिना हिस्सा मकान नं. 2548 पुराना पन्ना लाला काढ़ी के मकान से होते हुये गिर्दी बोल्डर की कच्ची सड़क के साथ–साथ पोल नं. जे.आर. 151 सी. के मोड़ से नाले पर पुलिया पारकर मकान नं. 2612 पुराना के मकान नं. 2607 तक सिद्धबाबा मार्ग संगम से सड़क पारकर गोपल होटल की ओर जाने वाली सड़क का दाहिना हिस्सा जो आचार्य कृष्णपलानी मार्ग संगम से जनता होटल तक।

**दक्षिण** – स्वामी रामकृष्ण परमहंस मार्ग झामनदास चौक की ओर मकान नं. 1882 के पास पाटबाबा टोरिया की दक्षिण मकान नं. 1882 के पास चौक के साथ–साथ पश्चिम की ओर नाला मरघटाई की पूर्वी सीमा तक जो रामनरेश पासी के मकान के पास बिजली खम्मा नं. 113 जी.एस.पी. 10 तक।

**पश्चिम** – बिजली खम्मा नं. के.आर. 113 / जी.एस.पी. 10 डी से राम नरेश पासी के मकान के पीछे मरघटाई की पूर्वी सीमा के साथ–साथ उत्तर की ओर मरघटाई जाने वाले मार्ग की नई पुलिया पारकर गोहलपुर ग्राम की दक्षिणी सीमा के साथ–साथ उत्तर की ओर सिद्धबाबा टोरिया के मंदिर के दक्षिण में स्थित कुये के पास सिद्धबाबा टोरिया मध्य तक।

#### वार्ड क्र. 49 लाल बहादुर शास्त्री

**उत्तर** – पोल नं. एन.ए. 6 सीमेन्ट पोल से इब्राहीम के मकान से क्वार्टर नं. ई डब्ल्यू. एस 152 से होते हुए म.न. ई डब्ल्यू. एस 71 हमीद कम्पाउंडर के मकान से आगे सादिक होटल के मकान से पुरानी पानी की टंकी पहाड़ी क्षेत्र होते हुए जीवन लाल पासी के मकान एवं मुस्ताक मंसुरी का मकान होते हुए रहीस भाईजान के सम्पूर्ण प्लाइंग ठेढ़ी नीम वाले बाबा से नाले तक।

**पूर्व** – स्व. राम किशोर चौधरी के मकान से डॉ. पर्यायी के मकान के पीछे का सम्पूर्ण हिस्सा एवं आगे सीधे हाथ झाड़ा चौक से होते हुए अबुल खालिक म.न. 600 से होते हुए सीधे हाथ का हिस्सा जमील हाजी के मकान से होते हुए पुराने स्लाटर हाऊस तक।

**दक्षिण** – पंचकुर्डिया चौक तहा भौडिकल स्टोर्स शक्कील अहमद के मकान से तालिब दूध डेरी से सोलह क्वार्टर सीधे हाथ का हिस्सा होते हुए डॉ. जमिल के मकान से रजा मस्जिद तक।

**पश्चिम** – स्व. शेख रशीद के मकान से खुनी नाला से किनारे के मकान लेते हुए आगे पंचकुर्डिया चौक राजू टेन्ट वाले के मकान तक।

### वार्ड क्र. 50 ठवकरणाम

**उत्तर –** नया स्लाटर हाउस कबिस्तान से सिधी लाईन होते हुये सिधि लाईन होते हुये शमशाद मुझाड़ की होटल से होते हुये सिधी लाईन बाबू सलाम वाले मकान से विश्वनाथ लाईन तक ढौं पचौरी के आमने-सामने तक एवं बाबू सलाम के आगे तक ।

**पूर्व –** मजहर हाजी से सिधी लाईन होते हुए शब्बीर कुरैशी के मकान से ढौं सेन की गली से होते हुए सीधे हाथ का हिस्सा नागपुर वाले बाबा के मकान से सिधी लाईन होते हुए सुलभ शौचालय मुना भिठाई से पुराना स्लाटर हाउस से अन्ना फारूक की लाईन से होते हुए पचकुईया चौराहा सुमान बाबा के मकान तक घसिया गेट होटल से सुलभ शौचालय वाली लाईन सलाम हथाती के मकान से रमजान होटल वाली लाईन से हड्डी गोदाम इलेक्ट्रीक दुकान ढौं लाहिर का दवाखाना से बाये हाथ का हिस्सा गोसिया मदरसा सीधी लाईन से होते हुए सफी किराना से किलकारी गाड़न से घसिया गेट तक एवं दादा निया गंठ के सामने से सीधी लाईन सरीफ पहलवान से बिल्ले के मकान से हाजी मजहर तक ।

**दक्षिण –** शकर चौक से नब्बू खलीफा पुल से कबिस्तान बालंडीवाल से होते हुये नया कमेला तक ।

**पश्चिम –** राजाराम चौधरी बकील के मकान से होते हुये राकुर चकी तक । रामभान किराना की दुकान से होते हुये जय माता दी राशन दुकान होते हुये हरीनारायण साहू जनरल स्टोर से पूर्व पार्शद पण्ड सोनकर मकान से होते हुए चौथ वाले बाबा की लाईन से अहिरवार के मकान तक । लाल जी साहू के मकान के पास एवं सामने होते हुये अयोध्या किराना स्टोर्स शंकर चौक तक ।

### वार्ड क्र. 51 रविन्द्र नाथ टेगोर

**उत्तर –** (1) रद्दी चौकी स्टार होटल से खण्डेलवाल से होते हुए कासिम सरदार वेलिंग खुनी नाला तक ।  
 (2) कासिम सरदार वेलिंग से पूर्व पार्शद हाजी आमीन के गोदाम तक ।  
 (3) अहसान आटा चकी से वाजदुल्कादरी की ओर से अंजुमन स्कूल होते हुए सरफाबाद कालोनी बाबै टेलर के मकान तक

**पूर्व –** हनीफ के मकान के बाजू से पोल नं. ए/26 सीमेन्ट पोल से सीधे हाथ किंग मेडिकल स्टोर्स से असरा कलेक्शन की लाईन से अजमत मूला से याकूब सौदागर के मकान तक ।

**दक्षिण –** (1) मालिक भाई के मकान से राजा मंजिल पोल नं. एपी/67 पुलिया से अग्रवाल पनी गोदाम होते हुए एसी लाईन में एम ई ओ SS स्टील ट्रेडर्स तक एवं एसी हाथ पर होते हुए हमजा मस्तिज से सुलताना घाट नाले खलील किराना से सीधे लाईन सीधे हाथ का हिस्सा मुरली टेन्ट हाऊस के मकान से सीधे हाथ रद्दी चौकी स्टार होटल तक ।

**परिचय—** दाउद मास्टर के मकान से हाजी मजीद के मकान से होते हुए सोना स्टील से सीधे हाथ का हिस्सा रिपब्लिक स्कूल से असलम एडवोकेट हनीफ किराना नाले तक से होते हुए एस के टेन्ट से इलियाज दूध वाले की ओर होते हुए म.न.ई.डब्ल्यू.एस.62 से होते हुए म.न.ई.डब्ल्यू.एस.159 से रजा मस्जिद से डॉ. जमिलल हक के मकान से इलियाज दूध वाले का हिस्सा लेते हुए आविद होटल सीधी लाईन लेते हुए समीद होटल के सामने हिन्दी स्कूल वाली लाईन घसिया कॉलानी गेट से भवन से यासीन के मकान से हिस्सा सीधी लाईन से लेते हुए कल्लू खोड़े की राशन दुकान की लाईन से शेष निजामी वाला हिस्सा से सीधी लाईन मतीन होटल लेते हुए लतीफ कुरैशी शहजाद हिस्क की सीधी लाईन से नूरानी गेट से होते हुए रजाक मार्केट से होते हुए दाउद टेलर्स मास्टर के मकान तक।

### वार्ड क्र. 52 पं. मदनमोहन मालवीय

**उत्तर—** घमापुर चौक से बेलबाग थाना मुख्य मार्ग की ओर लकड़गांज तिरहा, दर्शन चौक तक (बार्थी और का हिस्सा तक)।  
**पूर्व—** घमापुर चौक से परिचम की ओर जंजीरा पुल तक, जंजीरा पुल से ओमती नाला का दायां हिस्सा घोड़ा अस्पताल पुल होते हुऐ मध्य यादव के मकान तक।

**दक्षिण—** ओमती नाले के किनारे मध्य यादव के सामने से उडिया मोहल्ला रिथ्ट शंकर जी के मंदिर के पास पुल नं. सी 96 से परिचम की ओर जाने वाले मकान नं. पुराना 219 नया 511,512 से होते हुए सड़क पार कर नरिसंहदास सोनकर के मकान के सामने से डामल मार्ग जो पेशकारी मार्ग पर अच्छे लाल सोनकर के मकान के सामने से होते हुए पेशकारी स्कूल से बड़ी ओमती चौक तक।

**परिचम—** बड़ी ओमती से भरतीपुर मार्ग खुदा बक्श मस्जिद (दीपचंद यादव) मार्ग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर लक्ष्मी टॉकीज के सामने से होते हुए गलगला चौक स्थित दुर्गा मंदिर से पूर्व की ओर दर्शन चौक तक दायां हिस्सा होते हुये मुख्य मार्ग से लकड़गांज तिरहा दायां हिस्सा।

### **वार्ड क्रं. 53 महर्षि अरविंद**

**उत्तर:**— कात्यायनी मन्दिर के सामने का क्षेत्र, भगवानदास विश्वकर्मा से ( पोल नं. एल / 166— एस.पी.—3 बी) राधा बाई से लक्ष्मीनारायण सौंदिया से नारायण कश्यप से, दिलीप विश्वकर्मा से, राकेश कश्यप से (पोल नं. एल / 166—एस.पी.5 / डी) अशीष विश्वकर्मा से (पोल नं. जे.बी.ई 2 एल टी 03827) गुलाइ बाई लोधी से , प्रेमबाई पाठक से, छब्बीलाल समन से (पोल नं. एल / 166 एस.पी४ / 2 ) से लक्ष्मी सौंदिया से ढोलक प्रसाद कोरी से, विजय विश्वकर्मा से अनीता सेन से पानी की टंकी (बेलबाग टोरिया) से सरस्वती शिशु मंदिर से बकरा मार्केट (स्लाटर के सामने) विश्वकर्मा मार्ग पर विथ्यत मिठाई लाल ढोलक वाले के मकान से उत्तर की ओर डामर सड़क के साथ—साथ पुलिस क्वार्टर के सामने शुक्रवारी बजरिया मार्ग संगम होते हुए पूर्व की ओर भानतलेया तिराहे के पास एन.एच. पार कर प्रेमसागर मार्ग पर हरिजन क्वार्टर के सामने प्रेमसागर नाले की पुलिया तक।

**पूर्व:**— प्रेमसागर जाने वाली मार्ग स्थित हरिजन क्वार्टर के पास नाले से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नाले के साथ—साथ कुण्डम मार्ग पार कर ओमती नाले के संगम तक जो हनुमान मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने के पास है।

**दक्षिण:**— घमापुर चौक से बेलबाग थाना मुख्य मार्ग की ओर लकड़गंज तिराहा होते हुए फूटाताल चौक तक (दायी ओर का हिस्सा तक।)

**परिचयम:**— कात्यायनी माता मन्दिर के सामने से विश्वकर्मा मंदिर होते हुए माखन तेली मार्ग के साथ—साथ उत्तर की ओर जूँड़ी तलेया मार्ग संगम की ओर (शेख पापा के मकान तक, फूटाताल उर्दू स्कूल के पीछे से (म.नं. 34 पोल नं.163 तक) फूटाताल चौक जूँड़ी तलेया मार्ग संगम से मुख्य मार्ग (सरफा घमापुर चौक) की ओर बाया हिस्सा।

### **वार्ड क्रं. 54 पं. जवाहर लाल नेहरू**

**उत्तर:**— जंजीरा पुल की सीमा खंडेलवाल कम्पांड से सीएम चर्च कम्पांड से जीआरपी क्वार्टर होते हुये रामहरक का बगीचा मजार तक।

**पूर्व:**— मजार से कुचबंधिया मोहल्ला पुल से गली की सीमा से फलजरिय के मकान से रेल्वे स्टेशन रोड दोपक डेरी से रेल्वे स्टेशन रोड होते हुये हाउसिंग बोर्ड तिराहा होते हुये जेल के इंदिरा मार्केट पुल नं. 1 रेल्वे ट्रेक से होते हुये पुल नं. 2 ऋषि रिजेन्सी तक।

**दक्षिण:**— ऋषि रिजेन्सी से मुख्य मार्ग से हाईकोर्ट चौराहे से होते हुये घटाघर पुल तक।

**परिचयम:**— घटाघर नाला से किनारे होतु हुये रामप्रसाद चौधरी के मकान से जंजीरा पुल तक।

### वार्ड क्रं. 55 खेरमाई

**उत्तर —** खेयामार्ग हनुमानताल पुरानी चौकी से आने वाली कुलिया पी.एन.तिवारी के मकान से पूर्व की ओर खेया मार्ग होते हुए मिर्जापुर सड़क से संगम तक जो पथ हाउस के पास हैं, कात्यायनी माता मंदिर का क्षेत्र भगवानदास विश्वकर्मा (पोल नं.एल / 166-एस.ई.3 बी) राधा बाई से लक्ष्मीनारायण सौंधिया से नारायण कश्यप से (पोल नं.जे.बी.ई.2एल टी03827) गुलाई बाई लोधी से प्रेम बाई पाठक से छब्बीलाल से (पोल नं.एल / 166-एस.पी.8/2) से लक्ष्मी सौंधिया से ढोलक प्रसाद कोरी से विजय विश्वकर्मा अनिता सेन से पानी की टंकी (बिलबाग टोरिया) से सरस्वती शिशु मंदिर से बकरा मार्केट (स्लाटर के सामने तक)।

**पूर्व —** नया मिर्जापुर मार्ग खेया के संगम से दक्षिण की ओर उसी मार्ग पर संगम भानतलेया तिरहा से सुलभ काम्पलेक्स होते हुए शुक्रवारी बजरिया के संगम तक।

**दक्षिण —** शुक्रवारी बजरिया मार्ग के संगम एशिया टेंट हाउस से पश्चिम से दक्षिण की ओर बकरा स्लाटर हाउस एवं मकान नंबर 600 अब्दुल बाकर के बाये हथ एवं दाया हाथ 1785 गफ्फार बाबू के मकान से पश्चिम की ओर 1777 किशन विश्वकर्मा के मोड़ से उत्तर गली होते हुए पश्चिम की ओर सड़क होते हुए जहोर भाई के मकान से पार कर पश्चिम की ओर चुन्दू खां के मकान से पश्चिम की ओर गली के साथ साथ भगवानदास सिंधी पश्चिम उत्तर की ओर जाने वाली सीमेंट सड़क।

**पश्चिम —** हनुमानताल संगम पर हनुमानप्रसाद वर्मा के मकान से होते हुए शुक्रवारी बजरिया के संगम एवं एशिया टेंट हाउस के सामने अजीम किराना के मकान से होते हुए झटुआ कुंआ एवं सामने पूर्व पार्श्व श्री नवी अहमद के मकान से टेक से दाय हथ पर सीधे अधिषेक फर्नीचर होते हुए संगम तक का एरिया।

### वार्ड क्रं. 56 शहीद अब्दुल हमीद

**उत्तर —** राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मिर्जापुर मुख्यमार्ग अधारताल तिराहे के संगम से मिलक स्कीम औद्योगिक क्षेत्र मार्ग की ओर नगर निगम हॉकर्स जोन सब्जी मंडी होते हुये संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा एवं मिलक स्कीम होते हुये शासकीय उ.मा. विद्यालय तक।

**पूर्व —** औद्योगिक क्षेत्र मुख्यमार्ग पर स्थित शासकीय उ. मा. विद्यालय से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर नेता कालोनी मिलन आठा चबकी म. नं. 4009 होते हुये रजा वलीनिक कदीर मुश्ती के मकान से होते हुये रजा चौक म.न. 2668 मुईनुद्दीन मसूरी के मकान तक।

**दक्षिण —** रजा चौक म.नं. 2668 मुईनुद्दीन मसूरी के मकान से प्रारंभ होकर कुरैशी मार्बल के मकान से आगे रेटल ब्लाटर हाउसिंग बोर्ड से न्यू जनता ब्लाटर पानी की टंकी से होते हुये खुनी नाले के साथ-साथ कासिम सरदार वेल्डिंग के मकान नं. 2041 तक।

**पश्चिम – राष्ट्रीय राजमार्ग 7 मुख्यमार्ग कासिम सरदार बैलिंग के मकान नं. 2041 से प्रांत होकर मौसम कायाक्वा आनंद नगर बस स्टॉप स्प्रिंग डे स्कूल विमल नर्सरी होम कम्पला भंडार च्यू नगर निगम मार्केट होते हुए मिर्जापुर अधारताल मुख्यमार्ग तिराहे के संगम तक।**

#### **वार्ड क्र. 57 महर्षि महेश योगी**

**उत्तर – अमरेला मार्ग पर सीमाकर के साथ–साथ उत्तर की ओर जयप्रकाश नगर मुख्यमार्ग के संगम तक फिर वहाँ से पूर्व की ओर जयप्रकाश मुख्यमार्ग के साथ–साथ 1281 तथा सुभद्रा कुंज के मध्य से बिजली खेला नं. 18 आदर्श विद्या मंदिर होते हुये यू.एस. राजपूत के लाल बंगले तक। फिर पुष्कर नगर मार्ग के साथ–साथ दक्षिण की ओर पुष्कर नगर मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के संगम तक।**

**पूर्व–दक्षिण – पुष्कर नगर रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के संगम से प्रांत होकर पश्चिम की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 7 के साथ–साथ आनंद नगर बसस्टॉप मुख्यमार्ग के सामने स्थित आर के किरणा स्टोर्स तक।**

**पश्चिम – राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित आर के किरणा स्टोर्स से प्रांत होकर उत्तर दिशा की ओर मोनालिसा ब्यूटी पार्लर तथा पोस्ट ऑफिस होते हुये डॉ. पारिख के मकान से होते हुये पश्चिम दिशा की ओर पोल नं. आर/10 पोल नं. आर/9 वहाँ से उत्तर दिशा की ओर त्रिमूर्ति मिडिल स्कूल होते हुये पोल नं. आर/8/3 चित्रा सोनी के मकान से होते हुये पश्चिम की ओर पोल नं. इएन/बी/15/4 एमजेड आटा चक्की होते हुये अमरेला मुख्यमार्ग से उत्तर दिशा की ओर सोनू दुबे के मकान नगर निगम सीमा तक।**

#### **वार्ड क्र. 58 सर्वपल्ली राधाकृष्णन**

**उत्तर – नया मिर्जापुर मार्ग के पूल के साथ पूर्व की ओर चौथवाले बाबा के मंदिर के पीछे से होते हुए भगवान्दास कोरी के मकान के पास राजेन्द्र नगर मार्ग के संगम व. म.न. 1402 सड़क पारकर राजेन्द्र नगर मार्ग की ओर कब्बे मार्ग से उत्तर की ओर नयी पुलिया मकान नं. 1440 मकान के पास के चमड़ा गोदाम पुरानी टंकी अर्थात तीन कुंआ के पास के नाले के संगम से सुखबलाल खटीक के बगीचे के बाजू से नाला जो पहाड़ी के मध्य मिलता है नाले का पूर्वी हिस्सा सिद्धबाबा मंदिर के दक्षिण में कुएँ के पास सिद्धबाबा मार्ग के संगम तक।**

**पूर्व** – सिद्ध बाबा मंदिर के दक्षिण में कुएँ के पास सिद्ध बाबा मार्ग के संगम से गोहलपुर ग्राम के दक्षिण सीमा के साथ अर्थात् दक्षिण पश्चिम के ओर मरघटाई जाने वाले मार्ग की नदी पुलिया पार कर शमशान के उत्तरी सीमा के साथ गोहलपुर फनहरा तथा जबलपुर ग्राम के तिरहे से होतु हुए मरघटाई मार्ग एवं गनेश गंज मार्ग संगम से दक्षिण की ओर मरघटाई मार्ग होतु हुए प्रेमसागर पुलिस चौकी तक जो प्रेमसागर मार्ग पर स्थित है।

**दक्षिण** – प्रेमसागर मार्ग पुलिस चौकी से पश्चिम की ओर प्रेमसागर मार्ग द्वारा मिर्जापुर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के संगम से होतु हुए शुक्रवारी बजरिया मार्ग के संगम तक जो भानतलैया पुलिस चौकी के पास है।

**पश्चिम** – नद्य मिर्जापुर मार्ग भानतलैया पुलिस चौकी के पास भानतलैया तथा शुक्रवारी बजरिया मार्ग के संगम से उत्तर की ओर नद्य मिर्जापुर मार्ग पर बने मोतीनाला के पुल तक जो मुख्यमान कब्रिस्तान के पास है।

### वार्ड क्रं. 59 शहीद अशफाक उल्ला खाँ

**उत्तर** – गुललहा पुल के पास गोहलपुर मार्ग के संगम से पूर्व की ओर सीमून्ट मार्ग द्वारा पुराने गोहलपुर के मकान नं. 614 हाजी रज्जाक के मकान के सामने वाली कुलिया से उत्तर की ओर हीद उल्ला खाँ तथा हाजी इब्राहिम के मकान जो सामने से होते हुए बेनीसिंह तलैया मार्ग के संगम तक जो गोहलपुर इमाम बाड़ा के कुंएँ के पास है वहाँ से पूर्व की ओर बेनीसिंह तलैया मार्ग द्वारा चार खंभा के पास नालबद मोहल्ला मार्ग पार कर तिलयाना मार्ग द्वारा नई मिर्जापुर मार्ग के संगम तक जो मुख्यमान के कब्रिस्तान के पास है।

**पूर्व** – नद्य मिर्जापुर मार्ग मुख्यमान कब्रिस्तान के पास तिलयाना मार्ग के संगम से दक्षिण की ओर उसी मार्ग के साथ साथ मुख्यमान कब्रिस्तान के दक्षिण पश्चिम कोने के पास मोतीनाला के पुल तक।

**दक्षिण** – मोतीनाला मुख्यमान कब्रिस्तान के पास नई मिर्जापुर सड़क पर बने मोतीनाला के पुल से उसी नाले के साथ साथ पश्चिम की ओर श्यामसिंह के धड़े पर बने नद्य मोतीनाला के पुल तक वहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने वाले बरिया मार्ग के द्वारा श्यामशुद्दीन की मकान नं. 423 मोतीनाला के सामने से होते हुए हाजी अब्दुल्ला जब्बार के पुराने मकान नं. 521 के सभीप नालबद मोहल्ला मार्ग के द्वारा दक्षिण की ओर छोटे सोनकर के मकान के पास वाली पुलिस तथा ढलगपुरा मार्ग के संगम तक।

**पश्चिम** – नालबद मोहल्ला मार्ग के संगम से छोटे सोनकर वाली कुलिया के द्वारा शेख मोहम्मद के मकान के पास पुराने दक्षिण मिलौनीगंज उद्द स्कूल वाली कुलिया का संगम कर गुलबहा पुल के पास मोतीनाला के संगम तक।

### वार्ड क्रं. 60 नर्मलबद जैन

**उत्तर** – उर्दना नाले एवं कृषि नगर कालोनी के मार्ग के संगम से पूर्व दिशा की ओर उर्दना नाले के साथ-साथ होते हुये उर्दना नाले पर बने मध्य ऐल्वे लाइन के पुल तक।

**पूर्व** – उर्दना नाले पर बने मध्यरेल्वे लाइन के पुल (तीन पुलिया) दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन के साथ–साथ शोभापुर रेल्वे कासिंग तक।

**दक्षिण** – शोभापुर रेल्वे कासिंग तथा मुख्य मार्ग के साथ पश्चिम की ओर औद्योगिक क्षेत्र की ओर होते हुये कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय तक।

**पश्चिम** – शोभापुर मेनरोड से उपाध्याय रेस्टारेट के बाजू की सड़क से होते हुये पूर्व की ओर राधेश्याम से शासकीय उ.मा. शाला कंचनपुर डब्ल्यू. एस. राय से उत्तर की ओर वर्मा आटा चवकी से पश्चिम की ओर म.प्र. राज्य बीज भंडार संस्थान होते हुये मेन सड़क शोभापुर मार्ग पर शामिल। नोट–(निर्मलचंद जैन वार्ड क्र.43 की सीमा से काटे गये हिस्से को दीवान आधार सिंह वार्ड क्र.44 में शामिल किये गये भाग की चौहदादी का विवरण)

### वार्ड क्र. 61 दीवान आधार सिंह

**उत्तर** – मध्यो प्रसाद काठी के मकान के तिमेडे से प्रांग होकर नगर निगम सीमा के साथ–साथ उत्तर फिर पूर्व की ओर उर्दना नाले के साथ–साथ नये मिर्जापुर मार्ग रा. मार्ग 7 पार करते हुये कृषि नगर कालोनी को लेते हुये बंगलादेश कालोनी के पास उर्दना नाले तथा कृषि नगर कालोनी के मार्ग संगम तक।

**पूर्व** – कृषि नगर एवं उर्दना नाले के पुल तथा कृषि कालोज को जाने वाले मार्ग संगम से दक्षिण की ओर अभियांत्रिकी केन्द्र मुख्य मार्ग तक।

**दक्षिण** – कृषि अभियांत्रिकी केन्द्र मुख्य मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर मुर्छा मार्ग के साथ–साथ अधारताल तिराहा पार कर पुष्टक नगर मार्ग एवं रा.रा.मार्ग 7 के संगम तक वहाँ से रा.रा.मार्ग 7 एवं पुष्टक नगर मार्ग के संगम से पश्चिम की ओर मार्ग के साथ–साथ यू.एस. राजपूत के बंगले तक वहाँ से आदर्श विद्या मंदिर होते हुये बिजली खंभा नं. जे. 18 तक वहाँ से पश्चिम की ओर म. नं. 1281 तक सुभदा कुंज मकान से जाने वाले मार्ग के साथ–साथ नगर निगम सीमा तक।

**पश्चिम** – शोभापुर मेन सड़क से उपाध्याय रेस्टारेट के बाजू की सड़क होते हुये पूर्व की ओर दुल्हा देव मंदिर से उत्तर की ओर अवरथी रिलाइस 4 डी. टावर से पश्चिम की ओर राकेश जायसवाल नहर सड़क से शोभापुर मार्ग पर शामिल कृषि नगर मार्ग तथा उर्दना नाले के संगम तक। नोट–(निर्मलचंद जैन वार्ड क्र.43 की सीमा से काटे गये हिस्से को दीवान आधार सिंह वार्ड क्र.44 में शामिल किये गये भाग की चौहदादी का विवरण)

### **वार्ड क्रं: 62 डॉ. भीमराव अंबेडकर**

उत्तर – ढीकल खंभा नं. 99 से ढीकल सीमा होते हुये उत्तर पूर्व की ओर शारदा नगर आदिवासी छात्रावास से पीछे से दक्षिण की ओर नेवर पार्क की सीमा होते हुये रखा कालोनी की सीमा से पहाड़ी क्षेत्र से होते हुये अमर नगर ढीकल मार्ग तक पुनः श्री उमेश पाण्डे से होते हुये उत्तर पूर्व की ओर ढीकल रोड होते हुये उत्तर पूर्व की ओर ढीकल होटल के सामने पुष्टा पान भंडार तक।

**पूर्व** – किशन होटल के सामने से मस्ताना चौक डॉ. लालवानी से होते हुये रांझी कुडम मार्ग संगम दर्शन तिराहा तक।

**दक्षिण** – रांझी मार्ग के संगम से कुडम मार्ग द्वारा पश्चिम की ओर सी.ओ.डी. मार्ग के संगम होते हुये केंटामेंट सीमा के खंभा नं 31 / 41 तक वहाँ से केंटामेंट सीमा के साथ–साथ पश्चिम की ओर जलशोधन संयंत्र के मार्ग के संगम तक जो लक्ष्मी नारायण यादव रकूल के दक्षिण–पश्चिम कोने के सामने केंटामेंट सीमा नं. 31 / 36 एवं 31 / 33 होते हुए जलशोधन संयंत्र के पश्चिम तरफ नाले एवं कुडम मार्ग के संगम तक।

**पश्चिम** – नगर निगम जलशोधन संयंत्र के पश्चिम की ओर के नाले एवं कुडम रोड के संगम से नाले के साथ–साथ जलशोधन संयंत्र के उत्तर पश्चिम की ओर दीवार तक वहाँ से पूर्व की ओर राम नगर, शारदानगर बस्तियों के पीछे से ढीकल फेकटरी की सीमा के किनारे–किनारे ढीकल फेकटरी खंभा नं. 99 तक।

### **वार्ड क्रं: 63 शहीद भगत सिंह**

उत्तर – बिलपुरा ग्राम की दक्षिण सीमा एवं नार निगम सीमा मकान नं. 445 देवी सिंह के मकान से पूर्व की ओर मोहनिया गांव को जाने वाले मार्ग के संगम तक जो रांझी इमशान घाट के पीछे से होते हुये पूर्व की ओर निगम की उत्तरी सीमा के साथ मोहनिया एवं रांझी ग्राम के तिमेडे तक।

**पूर्व** – मोहनिया, मानेगांव, रांझी ग्राम के तिमेडे से दक्षिण की ओर नगर निगम की पूर्व सीमा के साथ–साथ मानेगांव चम्पानगर निगम खंसरा नं. एम.टी./44 से पश्चिम में निर्मित नाले के ऊपर पुलिया खंभा नं. एम.टी./45 तक।

**दक्षिण** – मानेगांव चम्पानगर पुलिया से मोहित किरणा तक ट्रांसफार्मर खंभा नं. 44 / 434 से सुमदा रजक के मकान होते हुये सेंट ग्रेविल बाउण्डी से पीछे होते हुये खंभा नं. 44 / 423 से होते हुये टीटू शर्मा की दुकान के बाजू से सरणीपल चौक होते हुये बड़े पत्थर के आगे बने सामुदायिक भवन के सामने मार्ग के संगम तक।

**पश्चिम** – बरडा पत्थर जे.डी.ए. माकेट चौक से बेला बेलिंग दुकान होते हुये तारा चंद साह के मकान से होकर शिव मंदिर होते हुये श्री विश्वरक्षा के मकान से होते हुये पूर्व की ओर गोविंद सिंह के मकान के सामने तक, पुनः गोविंद सिंह के मकान से उत्तर की ओर जे.डी.ए. कार्यालय के बाजू व पीछे से होते हुये एल.आई.जी. क्वाटर के पूर्व की ओर बिलपुरा रोड की पुलिया से होते हुये बिलपुरा ग्राम की दक्षिण सीमा तक।

### वार्ड क्रं. 64 महर्षि सुदर्शन

**उत्तर** — आदिवास छात्रावास शारदा नगर के पीछे से ढीकल स्टेट की सीमा होते हुये बजरंग नगर होते हुये काली मंदिर तक, काली मंदिर से सेंट मेरी स्कूल बाउण्डी से होते हुये दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर होते हुये शारदा ऐक्यार के मकान से ग्राम पंचायत होते हुये अपस्ताकांनवेट से पीछे पहाड़ी से होते हुये श्री यू. एस. बिहारे के मकान के पीछे तक।

**पूर्व** — श्री यू. एस. बिहारे के मकान से काली मंदिर जे.डी.ए. कार्यालय के पीछे से जे.डी.ए. ब्याटर्स होते हुये श्री गोविंद सिंह के मकान तक, श्री गोविंद सिंह के मकान से पश्चिम की ओर विश्वकर्मा के मकान के सामने से होते हुये दक्षिण की ओर रामदीन केवट के मकान के सामने से पूर्व की ओर श्री गोस्वामी के मकान से साहू, किराना स्टोर्स होते हुये वकील श्री मदन मोहन साहू के मकान से होते हुये बड़ा पथर चौक स्थित तिवारी टेलीकाम होते हुये मेजर किराना गनेश गंज स्कूल पीतम किराना स्टोर्स किशन होटल के सामने तक।

**दक्षिण** — किशन होटल के सामने से पीतम किराना स्टोर्स से दक्षिण पश्चिम की ओर श्री महेन्द्र सिंह बघेल के मकान तक, राठोर के मकान होते हुये पहाड़ी क्षेत्र होते हुये रक्षा कालीनी सीमा तक।

**पश्चिम** — रक्षा कालीनी सीमा से एस.ए.एफ. बाउण्डी होते हुये नेवर पार्क के पीछे होते हुये शारदा नगर आदिवासी छात्रावास ढीकल सीमा तक।

### वार्ड क्रं. 65 सुभाष चंद्र बैनर्जी

**उत्तर** — रेल्वे स्टेशन प्लेटफॉर्म नं. 1 से रेल्वे पुल क्र. 1 से लोको तलेया लोको व्याटर अपर लाईन होते हुये रेल्वे लाईन के साथ साथ जी.सी.एफ. पोल क्र. 29 तक।

**पूर्व** — जी.सी.एफ. पोल क्र. 29 से जी.सी.एफ. चुंगी चौकी नाका से जरिस्त स्त्री शिशिर चंद्र पाण्डे जी के निवास से सांसद निवास चौराहे से सांइस कालेज महाकौशल कालेज होते हुये यूनिवर्सिटी तिराहे तक। यूनिवर्सिटी तिराहे से रिज रोड हनुमान मंदिर भारतीय स्टेट बैंक रिज रोड तक।

**दक्षिण** — रिज रोड खम्बा नं. 17 से लोहिया पुल तनखा मेमोरियल स्कूल होम गार्ड आकिस के सामने से दैनिक भास्कर प्रेस के सामने से सेंट थामस स्कूल के सामने से होते हुये माता मरियम चौराहे से एम्पायर टाकीज के सामने से होते हुये रेल्वे पुल क्र. 2 तक।

**पश्चिम** — रेल्वे पुल क्र. 2 से (रेल्वे लाईन के पूर्व चाला हिस्मा) रेल्वे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्र. 1 तक।

### वार्ड क्र. 66 रानी लक्ष्मीबाई

**उत्तर :-** केन्द्रोमेंट कर सीमा ऊँचा नं. 78 एवं 77 के बीच जहां काटती है उस संगम से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर केन्द्रोमेंट की सीमा के साथ-साथ ऊँचा नं. 77 से 76 सी. 76 बी. 76 ए एवं 75 होते हुए कंण्ठला भार्ग पार कर केन्द्रोमेंट सीमा ऊँचा नं. 74,75,72,71,70,69,68, 67,66,65,64,63,62,61,60,59 तक।

**पूर्व :-** नगर निगम सीमा से महगवा आम की पश्चिम सीमा होते हुये नगर निगम की पूर्वी सीमा के साथ-साथ दक्षिण की ओर आम उमरिया की उत्तरी सीमा तक।  
**दक्षिण :-** आम उमरिया की उत्तरी सीमा से होते हुये पिर पश्चिमी सीमा के साथ-साथ गौरिया घाट की उत्तर पूर्वी सीमा और नदी एवं गौरिया घाट आम की सीमा के संगम तक।

**पश्चिम :-** गौरिया घाट आम की पूर्वी सीमा एवं और नदी के संगम से प्रारंभ होकर कजरवारा आम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ कजरवारा बस्ती देवन भैगद्वार बस्ती देवन एवं धोबीघाट बस्ती शामिल करते हुये घाट बस्ती भार्ग के साथ-साथ आम उमरिया नाले को पार कर केन्द्रोमेंट की सीमा ऊँचा 77,76 सी एवं प्रियदर्शनी नेगी से कूलचंद रजक 769 तक होते हुये पुनित सिंह, प्रेम शंकर तिवारी, के मकान के आगे अशोक शालोमन 1320/5 ओड्डा निवास मकान तक।

### वार्ड क्र. 67 वीरांगना रानी अवंतीबाई

**उत्तर :-** केन्द्रोमेंट सीमा ऊँचा नं. 74 एवं 75 के बीच वाली सड़क से सीधे दोनों तरफ ऊंचारी नाले तक। दर्किण की ओर होते हुए मंडला आर्ग और तक।

**पूर्व :-** बिलहरी ऊंचारीनाला तिलहरी आम का संगम होते हुए चौथामील से नगर निगम की सीमा से और तिरहे के जमतरा औड़ तक।

**दक्षिण :-** कुडिया आम से होते हुए आम पंचायत के संगम स्थल जमतरा परसवारा का बस्ती क्षेत्र।

**पश्चिम :-** चौथामील से होकर जेरैक्स कालेज रेड तिलहरी आम के सामुदायिक भवन से होते हुए छिवला आम बस्ती अटेली नदी की सीमा तक।

### वार्ड क्र. 68 गोकलपुर

**उत्तर पूर्व -** ढीकल फैक्ट्री खम्बा नं. 99 से ढी.एफ.जे. की पूर्वी सीमा पर अंबेडकर वार्ड की पश्चिमी सीमा के संगम से होकर दक्षिण की ओर राम नगर शारदा नगर बस्तियों से पीछे से होते हुये जलशोधन संयंत्र की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जलशोधन संयंत्र की पश्चिम की ओर नाले के साथ-साथ कुंडम मार्ग के साथ-साथ पूर्व की ओर खम्बा नं. 31/33 तक।

**दक्षिण** — केंटोमेंट सीमा के खम्बा नं. 31 / 33 से जलशोधन मार्ग के संगम के पास से पश्चिम दक्षिण की ओर केंटोमेंट सीमा के साथ—साथ खम्बा नं. 31 / 24 होते हुये जी.सी.एफ. खम्बा नं. 18 के पास नाले के पुल तक वहाँ से उत्तर फिर पूर्व की ओर जी.सी.एफ. खम्बा नं. 17, 16, 15, 14, 13 होते हुये मध्य रेलवे लाईन पर जी.सी.एफ. खम्बा नं. 12 तक।

**पश्चिम** — जी.सी.एफ. सीमा खम्बा नं. 12 से उत्तर की ओर जी.सी.एफ. सीमा खम्बा नं. 11 बी, 11 ए होते हुये ल्ही.एफ.जे. के खम्बा नं. 29 से पूर्व की ओर ल्ही.एफ.जे. सीमा के साथ—साथ खम्बा नं. 128 तक, वहाँ से ल्ही.एफ.जे. सीमा के साथ—साथ उत्तर की ओर खम्बा नं. 148 तक वहाँ से ल्ही.एफ.जे. सीमा के साथ—साथ उत्तर की ओर खम्बा नं. 99 तक।

### वार्ड क्र. 69 चंद्रशेखर आजाद

**उत्तर** — बड़ा पथर सामुदायिक भवन से होते हुये सर्पापील चौक तक, श्री टीटू शर्मा की डुकान के बाजू से होते हुये, 44 / 423 तक सेंट प्रेवियल एक्स्प्रेस के पीछे की बाउची से मकान नं. 3135 / 2 श्रीमति सुभद्रा रजक के मकान से होते हुये दांसफार्मर खम्बा नं. 44 / 434 तक, मोहित किरणा के सामने से चम्पा नगर पुलिया तक।

**पूर्व** — नगर निगम की पूर्वी सीमा खम्बा नं. एम.टी. 45 मानेगांव की पुलिया से दक्षिणी की ओर निगम की पूर्वी सीमा के साथ—साथ नाला चंदन नगर के पूर्व की ओर खमरिया स्टेट की सीमा केट होते हुये नाले द्वार सिंचाई की नहर एवं कुंडम मार्ग पार कर केन्टामेंट की सीमा खम्बा नं. 31 / 50 तक जो रेलवे लाईन के दक्षिण किनारे पर स्थित है।

**दक्षिण** — केंटोमेंट सीमा खम्बा नं. 31 / 50 से पश्चिम की ओर खम्बा नं. 31 / 41 तक सी.ओ.डी. जाने वाले मार्ग पर स्थित है। **पश्चिम** — केंटोमेंट सीमा के खम्बा नं. 31 / 41 तक सी.ओ.डी. द्वारा मार्ग उत्तर की ओर कुंडम मार्ग के संगम तक वहाँ से पूर्व की ओर कुंडम मार्ग द्वारा राङझी मार्ग द्वारा उत्तर की ओर राङझी स्कूल के सामने से होते हुये बड़ा पथर सामुदायिक भवन तक।

### वार्ड क्र. 70 लाला लाजपत राय

**उत्तर** :— ग्राम मोहनिया एवं बिलपुरा के उत्तरी सीमा के साथ—साथ ग्राम मोहनिया की उत्तरी सीमा के साथ—साथ ग्राम मोहनिया मानेगांव के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम मानेगांव चंदेली की सीमा स्थित तिमेडे को पार करते हुये ग्राम चंदेली महगावा के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम महगावा की सीमा के साथ—साथ ग्राम चंदेली की सीमा के साथ—साथ ग्राम महगावा चकदेही की सीमा स्थित तिमेडे को पार करते हुये ग्राम चकदेही की सीमा के साथ—साथ पूर्व की ओर ग्राम चकदेही डुमना की सीमा स्थित तिमेडे तक।

**पूर्व** :— ग्राम चकदेही डुमना की सीमा स्थित तिमेडे से प्रारम्भ होकर ग्राम चकदेही की पूर्वी सीमा के साथ—साथ ग्राम चकदेही, डुमना, गधेरी की सीमा को पार करते हुये ग्राम चकदेही गधेरी एवं ग्राम कोटा के तिमेडे तक।

**दक्षिण:-** ग्राम चकदेही, गधेरी एवं ग्राम कोटा के तिमडे से प्रांगम होकर ग्राम चकदेही महगावा की सीमा के साथ-साथ ग्राम चकदेही की सीमा के साथ-साथ ग्राम चकदेही महगावा की सीमा स्थित तिमडे एवं वार्ड क. सी-१० की सीमा एवं महगावा के सहारे केन्ट बोर्ड की सीमा तक।

**परिचय** :- ग्राम महगांव की सीमा एवं केन्ट एरिया की सीमा से प्रारंभ होकर ग्राम महगांव की सीमा के सहरे ग्राम महगांव एवं ग्राम चंदेली के तिमेडे को पार करते हुये मानेगाव के साथ-साथ केन्ट एरिया के सहरे ग्राम चंदेली, मानेगाव के तिमेडे को पार करते हुये मोहनिया की सीमा के वार्ड क. सी-४ की सीमा के एवं मानगाव की सीमा के सहरे मानेगाव एवं मोहनिया के तिमेडे को पार करते हुये मोहनिया की सीमा के साथ-साथ ग्राम बिलपुर की उत्तरी सीमा के तिमेडे तक ।

वार्ष ७१ नया वार्ष

**उत्तर :-** ग्राम छीतापार की उत्तर पश्चिम सीमा से प्रांतम होकर छीतापार की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम तेवर की ओर ग्राम तेवर के उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्राम पिन्डरई की ग्राम तेवर के तिमेडे से उत्तर पूर्व की ओर ग्राम तेवर की सीमा के साथ-साथ ग्राम अंधुआ और ग्राम अंधुआ और बहदन की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर ग्राम अंधुआ की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ ग्राम मोहनिया की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्राम बहदन की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्राम सिमरिया की सीमा के तिमेडे से ग्राम बहदन की उत्तरी सीमा के साथ-साथ ग्राम मोहनिया एवं बसहा की सीमा स्थित तिमेडे से होकर ग्राम बसहा एवं ग्राम रखशा के साथ-साथ ग्राम लमती की सीमा के तिमेडे से होकर आगे की ओर ग्राम लमती एवं करमेता की सीमा के तिमेडे तक।

**दक्षिण** — दक्षिण सीमा :— नर्मदा तट से लगी ग्राम रमनगरा की सीमा के पश्चिमी तिमेडा एवं ग्राम दलपतपुर के तिमेडे से प्रारम्भ होकर नर्मदा नदी एवं ग्राम दलपतपुर की सीमा के सहारे दलपतपुर की सीमा के तिमेडे तक।

**पश्चिम** :- नमदा तट से लगी ग्राम दलापतपुर की दक्षिणी सीमा के तिमेडे से दलपतपुर की पश्चिमी सीमा के सहारे उत्तर की ओर ग्राम चौकीताल के तिमेडे से होते हुये चौकीताल पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम तेवर की सीमा स्थित तिमेडे से होते हुये ग्राम तेवर एवं चौकीताल के तिमेडे से ग्राम तेवर की ओर ग्राम छीतापार की सीमा के तिमेडे से होकर ग्राम छीतापार के तिमेडे से ग्राम छीतापार की सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर ग्राम छीतापार की सीमा तक।

### वार्ड क्र. 72 नया वार्ड

**उत्तर** :- ग्राम खमरिया की पश्चिमी सीमा के तिमेडे से प्रारंभ होकर खमरिया की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम खमरिया और औरिया के तिमेडे तक।

**पूर्व** :- ग्राम खमरिया एवं औरिया के तिमेडे से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम औरिया एवं खमरिया की सीमा के सहारे ग्राम करमेता के तिमेडे से होकर ग्राम करमेता की पश्चिमी सीमा के सहारे नंदनी रोसरा एवं ग्राम नंदना एवं ग्राम करमेता की सीमा के सहारे ग्राम रेगवा एवं रकवा के तिमेडे की सीमा होते हुये ग्राम रकवा एवं करवनारी की सीमा के सहारे ग्राम बसहा के तिमेडे तक।

**दक्षिण**:- ग्राम रकवा के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम करवनारी एवं बसहा की सीमा के सहारे ग्राम मोहनिया के तिमेडे से होते हुये करवनारी एवं मोहनिया की सीमा के सहारे ग्राम सिमरिया के तिमेडे होकर ग्राम सिमरिया की सीमा के सहारे सिमरिया की दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम** :- ग्राम बहदन एवं सिमरिया की सीमा स्थित तिमेडे से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम सिमरिया की सीमा के सहारे ग्राम रेगवा की सीमा स्थित तिमेडे से होते हुये ग्राम रेगवा की पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम नंदना की सीमा के सहारे नंदनी रोसरा सीमा के तिमेडे होकर ग्राम रेसरा की सीमा के सहारे ग्राम खमरिया की सीमा स्थित तिमेडे से होकर ग्राम खमरिया की सीमा के सहारे ग्राम खमरिया की पश्चिमी सीमा के तिमेडे तक।

### वार्ड क्र. 73 नया वार्ड

**उत्तर** :- ग्राम औरिया एवं ग्राम खमरिया के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम औरिया की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम औरिया की पूर्वी सीमा ग्राम कठौदा के तिमेडे तक।

**पूर्व** :- ग्राम औरिया की उत्तरी सीमा व ग्राम कठौदा के तिमेडे से औरिया ग्राम की सीमा के साथ-साथ ग्राम कठौदा के तिमेडे से होते हुये ग्राम कठौदा एवं औरिया की सीमा के साथ-साथ ग्राम रिवडा एवं ग्राम रिवडा के तिमेडे होते हुये करमेता की सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे हुये ग्राम करमेता ग्राम के तिमेडे होते हुये रिवडा की सीमा एवं वार्ड की सीमा एवं वार्ड एवं वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिणः—** ग्राम करमेता एवं लमती के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम करमेता की सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम लमती एवं रक्षा के तिमेडे से होते हुये ग्राम करमेता की सीमा के सहारे ग्राम रक्षा, ग्राम रैगवा एवं ग्राम करमेता के तिमेडे तक।

**पश्चिम :-** ग्राम बसहा, ग्राम रक्षा एवं ग्राम करमेता के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम करमेता एवं ग्राम रैगवा की सीमा के सहारे नंदनी ग्राम के तिमेडे होते हुये ग्राम नंदनी के बदला एवं करमेता की सीमा के सहारे नंदनी रैगवा के तिमेडे होकर ग्राम नंदनी रैगवा एवं ग्राम करमेता की सीमा के सहारे ग्राम खमरिया, नंदनी रौसरा तिमेडे से होते हुये ग्राम औरिया एवं ग्राम खमरिया के तिमेडे तक।

#### वार्ड क्रं. 74 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम औरिया एवं कठौदा के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम कठौदा की उत्तरी सीमा के सहारे पूर्व की ओर ग्राम गुर्दा के तिमेडे होते हुये ग्राम गुर्दा की सीमा के साथ—साथ ग्राम गुर्दा एवं ग्राम महाराजपुर की सीमा स्थित तिमेडे तक।

**पूर्व :-** ग्राम गुर्दा एवं महाराजपुर के तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम गुर्दा महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम गुर्दा कुदवारी के तिमेडे होते हुये ग्राम कुदवारी की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम सुहागी एवं ग्राम महाराजपुर की सीमा स्थित तिमेडे होते हुये ग्राम सुहागी की उत्तरी मोड से सुहागी ग्राम होते हुये वार्ड की सीमा के सहारे अमखेड़ा ग्राम के तिमेडे से होते हुये वार्ड की सीमा एवं ग्राम अमखेड़ा की सीमा के सहारे वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिणः—** वार्ड की सीमा एवं ग्राम अमखेड़ा की सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर वार्ड की सीमा एवं अमखेड़ा ग्राम की सीमा के साथ—साथ वार्ड की सीमा एवं अमखेड़ा एवं कठौदा ग्राम की सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम रिवझा कठौदा के तिमेडे से ग्राम रिवझा एवं ग्राम करमेता की सीमा स्थित तिमेडे तक।

**पश्चिम :-** ग्राम रिवझा एवं ग्राम करमेता की सीमा स्थित तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम करमेता एवं औरिया की सीमा के सहारे उत्तर की ओर ग्राम रिवझा ग्राम करमेता ग्राम औरिया एवं कठौदा की सीमा स्थित तिमेडे से होते हुये ग्राम रिवझा एवं कठौदा की सीमा के सहारे ग्राम औरिया एवं कठौदा के तिमेडे तक।

#### वार्ड क्रं. 75 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम बघेली की पश्चिमी सीमा स्थित तिमेडे से प्रारंभ होकर ग्राम बघेली की सीमा के साथ—साथ ग्राम उर्दुआ खुर्द के तिमेडे को पार करते हुए ग्राम उर्दुआ खुर्द की सीमा के साथ—साथ ग्राम पिपरिया (1) के तिमेडे तक।

**पूर्व :-** ग्राम रिछाई खुर्द पिपरिया (1) के तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम उर्दुआ खुर्द, ग्राम पिपरिया, इमलिया एवं खेरी के तिमेडे से होकर ग्राम खेरी की सीमा एवं इमलिया की सीमा के सहारे ग्राम रिछाई की सीमा के तिमेडे से होते हुये ग्राम खेरी की पूर्वी सीमा एवं रिछाई की पश्चिमी सीमा के सहारे ग्राम महाराजपुर व ग्राम रिछाई एवं सुहागी के तिमेडे की सीमा एवं सुहागी की पूर्वी सीमा एवं ग्राम गुर्दा की सीमा के पूर्वी तिमेडे तक।

**ददिण:-** ग्राम रिछाई महाराजपुर एवं सुहागी के तिमेडे की सीमा से प्रांग होकर पश्चिम की ओर ग्राम महाराजपुर एवं सुहागी की सीमा के सहारे ग्राम कुदवारी एवं ग्राम गुर्दा की सीमा के पूर्वी तिमेडे तक।

**पश्चिम :-** ग्राम सुहागी कुदवारी एवं महाराजपुर के तिमेडे से प्रांग होकर ग्राम महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम कुदवारी के तिमेडे के पार करते हुए ग्राम कुदवारी, गुर्दा के तिमेडे से होते हुए ग्राम महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम महाराजपुर व ग्राम चाटी के तिमेडे को पार करते हुए ग्राम चाटी की सीमा के सहारे ग्राम बघेली की पश्चिमी सीमा स्थित तिमेडे तक।

#### वार्ड क्र. 76 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम पिपरिया (1) व ग्राम उर्दुआ खुर्द की सीमा स्थित तिमेडे से प्रांग होकर पूर्व की ओर ग्राम पिपरिया (1) की सीमा के सहारे ग्राम इमलिया के तिमेडे से होकर ग्राम इमलिया, पिपरिया (2) के तिमेडे होते हुये ग्राम पिपरिया (2) की सीमा के सहारे पिपरिया एवं ग्राम बिलपुर की सीमा स्थित तिराहे तक।

**पूर्व :-** ग्राम पिपरिया (2) एवं ग्राम बिलपुर की तिमेडे की सीमा से प्रांग होकर पिपरिया (2) एवं बिलपुर की सीमा के सहारे ग्राम मडई की सीमा के तिमेडा होते हुये ग्राम मडई एवं बिलपुर की सीमा तक।

**दक्षिण पश्चिम :-** ग्राम बिलपुर एवं वार्ड की सीमा से प्रांग होकर पश्चिम की ओर ग्राम मडई एवं रिछाई सीमा के सहारे ग्राम मडई रिछाई पिपरिया (2) तिमेडे होकर ग्राम रिछाई एवं पिपरिया (2) की सीमा के साथ—साथ ग्राम इमलिया की दक्षिणी सीमा के सहारे एवं ग्राम खेरी की उत्तरी सीमा के सहारे ग्राम पिपरिया (1), ग्राम खेरी के तिमेडे से होते हुये ग्राम पिपरिया (1), खेरी एवं ग्राम उर्दुआ खुर्द की सीमा स्थित तिमेडे से होकर ग्राम पिपरिया (1) व उर्दुआ खुर्द के तिमेडे तक।

#### वार्ड क्र. 77 नया वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम सुहागी महाराजपुर की सीमा स्थित तिमेडा से प्रांग होकर ग्राम सुहागी महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम सुहागी, ग्राम रिछाई, ग्राम महाराजपुर की सीमा स्थित तिमेडे से होते हुये ग्राम रिछाई महाराजपुर की सीमा के सहारे ग्राम खेरी महाराजपुर के तिमेडे के पार कर ग्राम खेरी, ग्राम इमलिया के तिमेडे से होते हुये ग्राम पिपरिया (2) के तिमेडे की सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम रिछाई एवं ग्राम मडई की सीमा के साथ—साथ ग्राम रिछाई एवं ग्राम मडई के तिमेडे की सीमा एवं वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिण:**— ग्राम रिछाई एवं मडई के तिमेडे की सीमा से प्रांत होकर ग्राम की सीमा एवं वार्ड की उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम की ओर सुखा संस्थान ढी.एफ.जे. की सीमा के सहारे सुहाई ग्राम की सीमा एवं वार्ड की सीमा के सहारे रिछाई ग्राम के मोड़ की सीमा तक।

**पश्चिम:**— ग्राम सुहाई की सीमा एवं वार्ड की सीमा से प्रांत होकर ग्राम सुहाई के मोड़ से होते हुये सुहाई ग्राम के मोड़ के बाद अंदर के मार्ग से होकर महाराजपुर ग्राम की सीमा तक।

### वार्ड क्रं. 78 नया वार्ड

**उत्तर:**— ग्राम पिपरिया (2) व ग्राम मडई एवं ग्राम बिलपुर के तिमेडे की सीमा से प्रांत होकर ग्राम पिपरिया (2) की सीमा के सहारे ग्राम बिलपुर, ग्राम नोहनिया के तिमेडे की सीमा तक।

**पूर्व:**— ग्राम बिलपुर ग्राम मोहनिया के तिमेडे की सीमा से प्रांत होकर ग्राम बिलपुर एवं मोहनिया की सीमा के सहारे दक्षिण की ओर वार्ड की सीमा तक।

**दक्षिण:**— ग्राम मोहनिया, बिलपुर के तिमेडे की सीमा से प्रांत होकर ग्राम बिलपुर एवं वार्ड की सीमा के सहारे ग्राम मडई बिलपुर के तिमेडे की सीमा तक।

**पश्चिम:**— ग्राम मडई एवं ग्राम बिलपुर की सीमा स्थित तिमेडे से प्रांत होकर ग्राम बिलपुर मडई की सीमा के सहारे ग्राम मडई एवं पिपरिया (2) के तिमेडे की सीमा तक।

### वार्ड क्रं. 79 नया वार्ड

**उत्तर:**— ग्राम पिपरिया के उत्तर पश्चिम की सीमा के कोने से प्रांत होकर पूर्व की ओर ग्राम पिपरिया की सीमा के सहारे ग्राम सोनपुर के तिमेडे से होते हुये ग्राम पिपरिया की सीमा ग्राम सोनपुर की सीमा के कोने तक।

**पूर्व:**— ग्राम सोनपुर के उत्तर — पूर्व की सीमा के कोने से प्रांत होकर सोनपुर की सीमा के सहारे ग्राम पिपरिया के तिमेडे से होते हुये ग्राम उमरिया एवं ग्राम डुमना के तिमेडे से होते हुये ग्राम उमरिया की सीमा के सहारे नीचे पिपरिया की ओर ग्राम उमरिया एवं ग्राम डुमना के तिमेडे से होते हुये ग्राम उमरिया की सीमा में स्थित दक्षिण पूर्वी कोने तक।

**दक्षिण:**— ग्राम गधेरी के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम गधेरी की सीमा के सहारे नीचे दक्षिण की ओर ग्राम गधेरी सुखलालपुर कोटा के तिमेडे को पार करते हुये ग्राम कोटा की दक्षिणी सीमा के सहारे ग्राम सुखलालपुर एवं ग्राम कोटा के तिमेडे तक।

**पश्चिम:**— ग्राम सुखलालपुर एवं ग्राम कोटा के तिमेडे से होकर ग्राम कोटा की ओर ग्राम चकदेही के तिमेडे से होकर ग्राम कोटा एवं चकदेही की सीमा के सहारे ग्राम कोटा एवं गधेरी की सीमा के साथ साथ ग्राम गधेरी की सीमा के सहारे ग्राम पिपरिया के उत्तर ग्राम महगावा की सीमा के साथ साथ केट सीमा होते हुये यूनिवर्सिटी रोड के दोनों तरफ की सीमा होते हुये खाला नं. 17 रिज रोड तक। यूनिवर्सिटी तिरहा से साइर्स कालेज महाकौशल कालेज से सांसद निवास तिरहा होते हुये जस्टिस श्री अर्जीत सिंह जी के शासकीय निवास तक।

## Office of Commissioner, Jabalpur

### Division, Jabalpur

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act. 1956 (No. 23 of 1956), Deepak Khandekar, Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur, hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Jabalpur as per Schedule given below :-

(Population Calculation based on the published statistics of Census 2011)

S.No. of Proposed ward	Ward Name	Total Population	Population (scheduled cast)	Population (scheduled Tribe)
1	2	3	4	5
1	Garha	17700	1727	674
2	Swami Virendra Puri	17693	3419	879
3	Tripuri	16124	3600	943
4	Shankar Shah Nagar	17655	3090	708
5	Sardar Vallabh Bhai Patel	17180	1831	992
6	Indira Gandhi	17195	1699	416
7	Veer Savarkar	17220	1664	590
8	Gwarighat	17659	2875	1440
9	Dada Baburao Paranjpe	17664	4442	1087
10	Gupteshwar	17520	935	627
11	Giriraj Kishore Kapoor	16349	1940	727
12	George Da'silva	14177	1941	599
13	Pt. Banarsi Das Bhanot	15063	1871	805
14	Narsingh	15940	1669	1496
15	Madan Mahal	17687	2328	1319
16	Maharana Pratap	15075	1700	636
17	Rani Durgawati	17707	3437	589
18	Saheed Gulab Singh	17444	1678	809
19	Kamla Nehru Nagar	17448	765	865
20	Kasturba Gandhi	16792	2143	922
21	Swami Vivekanand	15418	569	657
22	Jawahar Ganj	13739	746	115
23	Lokmanya Bal Gangadhar Tilak	17416	1557	46

24	Hanumantal	14087	214	30
25	Mahatma Gandhi	13117	785	105
26	Govind Vallabh Pant	13930	690	104
27	Cherital	13763	1186	229
28	Jai Prakash Narayan	13964	3658	246
29	Dr. Ram Manohar Lohia	14085	2052	281
30	Pt. Deendayal Upadhyay	13974	1385	1002
31	Rajiv Gandhi	14219	1585	186
32	Subhadra Kumari Chauhan	14139	424	327
33	Swami Dayanand Saraswati	13401	595	240
34	Pt. Bhawani Prasad Tiwari	13201	412	130
35	Maharaja Agrasen	14585	1337	669
36	Moulana Abul Kalam Azad	13567	491	8
37	Dr. Rajendra Prasad	13469	723	73
38	Pt. Motilal Nehru	13539	791	277
39	Chitranjan Das	13632	496	100
40	Dr. Zakir Hussain	16503	6	—
41	Sanjay Gandhi	15821	50	5
42	Netaji Subhash Chandra Bose	14665	2300	648
43	Dr. Shyama Prasad Mukherjee	15466	3873	2290
44	Acharya Vinoba Bhave	13866	3967	402
45	Sheetalamai	16290	3455	400
46	Pt. Dwarka Prasad Mishra	13630	2405	344
47	Seth Govind Das	13575	3173	575
48	Siddha Baba	13672	3953	470
49	Lal Bahadur Shastri	16544	783	1
50	Thakkar Gram	15387	1350	—
51	Ravindra Nath Tagore	16871	4148	14
52	Pt. Madan Mohan Malviya	13307	3730	157
53	Maharshi Arvind	17222	9332	640
54	Pt. Jawahar Lal Nehru	15010	3725	935

55	Khermai	15572	3938	243
56	Saheed Abdul Hameed	14486	1008	260
57	Maharshi Mahesh Yogi	13501	481	300
58	Dr. Sarvapalli Radhakrishnan	16436	8807	255
59	Saheed Asfaque Ulla Khan	14532	18	—
60	Nirmal Chandra Jain	14211	733	1153
61	Diwan Adhar Singh	13466	1175	783
62	Dr. Bhim Rao Ambedkar	14981	4045	1469
63	Shaheed Bhagat Singh	14297	3838	1745
64	Maharshi Sudharsan	14641	3580	2362
65	Subhash Chandra Banerjee	16230	1347	702
66	Rani Lakshmi Bai	16163	4947	1699
67	Virangna Rani Avanti Bai	17693	2704	1194
68	Gokalpur	14851	2160	1422
69	Chandra Shekhar Azad	15034	2214	490
70	Lala Lajpat Rai	13101	1077	2472
71	New Ward	17696	2543	1943
72	New Ward	14594	2522	1701
73	New Ward	16202	2873	1140
74	New Ward	16903	3372	1394
75	New Ward	17695	2299	3364
76	New Ward	17195	1669	1540
77	New Ward	17110	1685	2571
78	New Ward	14349	3960	1779
79	New Ward	13140	1583	1645
		1216445	175278	62455

DEEPAK KHANDEKAR, Commissioner.

## Office of Commissioner, Jabalpur Division Jabalpur

No. 1503.../2014

Jabalpur Date..... 15/9/2014:

In exercise of the power conferred sub-section (1) of section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956)  
Deepak Khandekar, Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Jabalpur as per  
Schedule given below:-

### Over all detail

#### Ward No.1 Garha

North - From the road near Timede of Central railway line Garha Kachhpura Basha road, to western border of municipal corporation towards east along central railway line near Bhulan Post (Chowki) upto Junction of 60 Feet road of J.D.A. Plan No. 6.  
East Along the railway line and 60 feet road of Jabalpur Development Authority (J.D.A.) via Shahi Talaiya upto Junction of Durga Colony road and along shahinaka main road towards south along shahinaka road along east road of Girdonia upto junction of old police station road Garha.  
South From the old police station road along Garha Road towards Garha main road along west upto Panda Madhiya. From Panda Madhiya upto road to Ganga Nagar. Then along the Central road of Nav Nivesh Colony Towards north upto junction of Ganga Nagar Colony road. Then along the road towards Baksera lake in west upto house of Savitri built before new constructed buildings under JNNURM in north.  
West From the house of Savitri upto railway line ahead of open land towards north.

#### Ward No.2 Swami Virendra Puri

North- From in front house of Engg. namdeo at Ganga Nagar to Rani Durgawati School along with ganga nagar Road to Imarti Talab to West portion in front of panda ki madhiya and South direction part of Garha bazar along with infront of nagar nigan Office to house No. 1 of kashyap ji.

East - From house of Shri Kashyap opposite to old police station upto Hitkarini School. Then from National Highway along road towards east along the boundary of graveyard in front of Soopatal along road towards south along road goin to Madan Mahal Dargah upto border of Maiya Badanpur and Maharaipur.

South - Along the border of village Badanpur and Maharaipur along Kachchha Sangram Sagar road towards west and border of northern boundary of Pisanhari Madhya towards Gaivinath temple in west and northern boundary of Pisanhari Madhiya upto NH-7 junction.

West - From In front of Pisanhari Madhiya up to Rain Basera, Doctor Coloney Servent Quater to along Purwa kanji house to East Direction of Garha Dhanwantri Road to Rishi Hotel to North direction to Ganga Nagar House in front Engg. namdeo ji.

**Ward No.3 Tripuri**

North - From the western border of municipal corporation at Bhedaghat road and along towards east from junction of Dhanwantri Nagar Crossing along New Bhedaghat road upto junction of NH-7, statue point of Netaji Shubhash Chandra Bose on Medical College boundary wall centre road.

East - From the road centre of statue point of Netaji Shubhash Chandra Bose at NH-7 upto Narmada river via Sagda tricrossing Bargi hills road centre.

South - Towards centre west of old bridge road of Tilwaraghat built on river Narmada along the river upto corner on South - Western Border of village Rannagra.

West - From corner at South - Western border of village Rannagra near western border of municipal Corporation near river Narmada towards north along the same border upto Bhedaghat road Junction situated on north western corner of Balsagar lake.

**Ward No.4 Shankar Shah Nagar**

North - Starts from gully goes to MPSEB water tank on western boundary of W5, towards back portion of shivaji nagar which join the road of aadiwasi chhatrawas, brijmohan nagar , chapar right part then till goyal furniture. From right part of adjoining road from goyal furniture to MPSE Jalpari , then back portion of sahkar nagar , to kesarwani hotel azad chowk covered all right portion.

East - Starts from narrow gauge railway crossing of Rampur azad chowk towards west along with aadarsh nagar perfect pottery near railway line, along railway line upto junction of khandari nala and sah nala in south direction.

South - Starts from junction of railway line and khandari nala along with khandari nala towards eastern boundary of W5(sardar vallabh bhai Patel ward).

West - starts from junction of khandari nala and eastern boundary of W5( sardar ballabh bhai Patel ward) towards gully goes to water tank of MPSEB.

**Ward No.5 Sardar Vallabh Bhai Patel**

North - Eastern hilly part of Pisanhari ki madhiya towards boundary junction of Madan Mahal ward which turns to south direction and connects outer boundary of power house of MPSEB along with outer boundary of Nayagaon housing society, infront of Jalpari basti Vijaynagar which connects the chapar main road goyal furniture Shop.

East- start right part of residential area from goyal furniture (Azad chowk to chapar main road Rampur) towards chapar main road which connect the area of rewa colony area, siddhnath, Aadiwasi chhatrawas, shivajinagar to bank of river Narmada at southern direction.

West - from old bridge of Tilwara right part of the main road from Tilwara basti along with Shahnala via Bargi hills colony to Bajna math JDA colony , Nehru nagar to Pisanhari ki madhiya trijunction.

South - from eastern boundary of right part of bank of Narmada , towards Tilwara old bridge.

**Ward No.6 Indira Gandhi**

North - From Gulwa Chowk to Gotam Mariha & the tower in front of Dr. Mukerge and moving towards west to Gulmoher Park & along Railway line from plot no. 1082 to 1122, Sanjeevani Nagar main road to Shahi Naka road and junction of Sanjeevani Nagar towards Shahi Naka upto Maheba Nala junction.

East - From Gulwa Chowk to Ekata Chowk via Shukla Nagar road in front of house of Col. Shukla.

South - From Ekta Chowk to B. T. Banglow to Anand Kunj Trijunction via house of Dr, Ramgopal Gupta & Old police Chowki of Garha and upto the road junction.

West - From tricrossing of old Garha police post (chowki) towards east via back of Garha School upto Mahera nala and shahnala road Junction.

#### Ward No.7 Veer Savarkar

North - From In front of plot No 976 Shri Lakshmi kant deshpanday at JDA Scheme no 6 Sanjavani Nagar to along with Road and Railway line via garha railway crossing guluwa to wards east along central railway line at the back of kalimath temple to wards up to railway line and amanpur nala junction.

East - From Amanpur nala and railway line junction towards south along nala in front of Kalinath temple via bordeer of Narsingh wards along cement road in front of house of Jaiswal along house No. 6/6 along naveen Traders towards west via Keshav Saw Mill Pole No. A.S. 18/4 along road upto junction of Krishna tember mart in front of Ganga Sagar lake road.

South -From krishna traders Road to road junction along gangasagar road and along Shukla Nagar at Guluva Chowik and to Patel Sweets via Gautam ji ki madhia till the tower near house of Hem Singh Thakur till Shivam Udyanki Bhavan.

West - From the tower near Shivam Udyanki Bhawan on Shahi Naka main road to Vasundhara parisar to bhu vaigyanik sarvekshan to gulmohar park to sanskar nikatan barat ghar to plot no 897 chandrakant choube to plot no 925 Bilthare's house and to naiyar on north to plot no 976 laxmikant despande till Railway line.

#### Ward No.8 Gwarighat

North - From the boundary wall of perfect pottery near Railway line along boundary from south Avenue mall upto boundary of site forest research via Khermai temple situated in Basti of Bagda Dafai in front of Gwaright Main road.

East - From Bagda Dafai towards Sukhsagar valley in South from east along boundary of state forest ressearch from junction of western boundary of Billhari gram across Knahdari Nala, then from oundary of Bhatoli gram towards banks of river Narmada situated on boundary of Bhatoli gram.

South - From Railway filter plant in gram Lalpur, Kharighat, Dorogeghat, Gwaright Mainghat, Jilharighat, Shamshanghat upto boundary of Bhatoli gram.

West - From boundary of Lalpur gram at banks of Narmada towards Khandari Nala North, from junction of Shahnala boundary of perfect Pottery at P.P. Colony Narmala Nagar on the right side of the railway line in North.

#### Ward No.9 Dada Baburao Paranjpe

North - From the Railway gate situated on the main road of Shakti Bhawan upto Boundary wall of G.R.C. situated on Rampur crossing.

East - From Rampur crossing towards South via Panchashheel Nagar, Tagore Nagar, Modi Colony near boundary of G.R.C. on the border of State Forest Research towards Eastern Bagda Dafai in South upto border of ward No. W-8.

South - From the area of Bagda Dafai along boundary of State Forest Research towards water body (Jalkund) situated on beside South Avenue Mall in western side towards boundary of Perfect Pottery on western side.

West - From Boundary of Baje in South Avenue Mall situated on southern side upto Eastern of Railway line at the back side of Perfect Pottery via Ben Mohalla and Sahore Shahnala Adarsh Nagar upto main road of Shakti Bhawan through Sudha Vihar.

**Ward No.10 Gupteshwar**

North - From Prem Nagar Post Office at National Highway No. 7 starting from junction of road going Amaanpur along National Highway No. 7 towards North East across Madan Mahal crossing (Eastern Side) upto junction of National Highway No. 7

East - From junction on the eastern road at National Highway No. 7 and Mahanadda along Hathital Railway crossing across Nala in south along office of Housing ward on Hathital road towards house of Smt. Bhagwati Bai Yadav in South (House No. 1021 Narmada Bhawan).

South - Starting from Choti line Narrow gadge In between junction H.no. 1021 Smt. Bhagwati Bai Yadav (Narmada Bhawan) to west road passing through Samshan Ghat beside Sahu Kirana passing through Bhudi Khermai Temple (East part of raod) till main road Gupteshwar Temple. To Sarita Traders (east side of road) Dr. Bhadouria passing through M.G.M. School railway line crossing Cantt till pole no. 131. After crossing Gupteshwar Chowk Kripal Chowk ahead from Dr. Kamla Gupta which turns towards the Prem Nagar Post Office. Till N.H.7.

West - From the junction of Dr. Kamla Gupta road and Prem Nagar Post Office road towards N.H. 7 Nagpur main road and Prem Nagar Post Office junction opposite to Prem Nagar Post Office road.

**Ward No. 11 Giriraj Kishore Kapoor**

North - Starting from eastern boundary of Madanmahal ward connecting point towards east ahead H.no. 1837 Kamla Gupta passing through Kripal Chowk till Sahu Kirana passing through Samshan Ghat road.

East - Starting from at Samshan Ghat beside Sahu Kirana west part of the road passing through Bhudi Khermai towards east of main road and across north-east railway line. Towards the south along with south-east railway till connecting point of M.P.E.B.

South - From Road going towards Shakti Bhawan Rampur Narow guage crossing along F.C.I. Godown upto Municipal Corporation Zonal Office No. 3 Rampur via road going from front of National Colony.

West - From Municipal Corporation Zonal Office No. 3 Rampur towards road coming for Sainik Colony on North upto junction on Eastern border of Shaheed Gulab Singh Ward and from Bhole Baba Kuti on North East upto Shakti Nagar crossing coal mines P.F. office passing through H.no. 1920 in front of Mr. Mohanlal Prajapati's house. The front of the main road south-west boundary of Gupteshwar Road.

**Ward No.12 George Da'silva**

North - Starting from central railway line Shastri Bridge along same line towards central railway line bridge on Kachcha Nala on east of Gorakhpur which is on west of Bunglow of Khandelwal.

East - Starting from Kachcha Nala, Central railway line bridge towards south across south eastern railway line along western upto Pole No. 115-A of border of Cantonment on south which is on western corner of south eastern railway rest house situated on Narmad Road.

South - From Pole No. 115-A situated on Cantonment border on Narmada road towards Kapoor crossing in south along rod going towards bunglow of Pandit Chironji Lal Sharma opposite to Pole No. 111 along road in between Pandit Chironji Lal Sharma and R. Gopal towards East road of Nathulal Dhamshala and Christian mohalla (Isai) and Kumar Mohalla on western side, from house of Shri Tomar Singh upto house of Shri Arun Singh Gaur via Trimurti Kala Mandir tri crossing towards junction of Sharda Talkies Gorakhpur main road. From there upto junction on western road of Mittal Gas Agency via Gwarighat road.

West - Starting from South East railway line crossing on Gwarighat road upto Shastry Bridge situated on Central railway line along same.

**Ward No.13 Pt. Banarsi Das Bhanot**

**North** - From the junction of National highway No. 7 and eastern road of Mahanadda towards National highway No. 7 on eastern road upto narrow guage crossing. From Municipal Corporation Zonal Office near Sharda Talkies along Shambhu Beetal Shop towards junction of Narmada road and Trimurti Kala Mandir on south side.

**East** - In front of Trimurti Kala Mandir from Jairaj Atta Mill upto house of Madrasi House No. 1918 situated on the back of Satgura Apartment via Christian Mohalla through houn No. 1904 Mahavar Shop along Sarkari Kuan. From Bunglow of Chironjila Sharma towards western border of Mittal Gas Agency situated on Narmad road which is ahead of Pole No. 111 on Cantonment border.

**South** - From Pole No. 111 on Cantonment Narmada road along the same direction towards Pole No. 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96 on southern side. From there upto Pole No. 95 on Gwariahhat road western side then. From North of Cantonment along same border via pole No. 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 upto Pole No. 87 which is situated on South eastern railway line on western side.

**West** - From Pole No. 87 towards North along South eastern railway upto Hathital railway crossing. From here road going towards Hathital colony along Laxmi colony towards Kakarhai Talaiya in North across Nala. From east of Mahanadda towards junction of N.H. 7.

**Ward No.14 Narsingh**

**North** - From junction of Amanpu Nala near outer signal on Central railway line Madan Mahal upto Shastri bridge along Madan Mahal station on Central railway line.

**East** - From Shastri Bridge built near Central railway line upto junction of N.H. 7 and south eastern railway line crossing on Gwariahhat road.

**South** - From junction of N.H. 7 and south eastern railway line crossing on Gwariahhat road upto Shiv Temple junction on Ganga Sagar road which is across Madan Mahal crossing ahead of Prem Nagar Post Office in front of Singh Dharmkanta opposite to Kaushalya Plaza via L.I.C. Colony.

**West** - From N.H. 7 junction in front of Prem Nagar Post Office towards Aman Nagar Basti road along house of Ghanshyam Tiwari situated at North upto house of Pannalal Chauhan on west towards Ganga Sagar road junction. From here towards Krishna Timber Pole No. GS/18/1 across Nala. From here towards front of Keshava Saw Mill in North via Naveen Traders through cement road ahead of house No. 875 and house No. 616 towards Kalimath Temple Veer Sawarkar Ward upto Nala.

**Ward No.15 Madan Mahal**

**North** - From Groveryard situated at N.H. 7 junction in front of Soopatal upto Sharda crossing them from junction of Sharda Devi road in North upto junction of Ganga Sagar old Toll Tax road (chungi Chowki). Then Ganga Sagar road and Amanpur road junction along Ganga Sagar road on east which is in front of Mallu Mali.

**East** - From Ganga Sagar Tri crossing towards Harsh Traders in front of L.I.C. Colony in South via bank of lake upto jabalpur Battery house opposite to Kaushalya homes on Nagpur Main road, Across H.H. 7 towards western road of Prem Nagar Post Office via Christian Mohalla in south across Hathital road, From western border of Hriday Nagar Gram towards Gupteshwar te4mple in south upto road going towards junction of Ratan Nagar Colony.

**South** - From junction of Hridaya Nagar road situated on Gupteshwar Ratan Nagar colony road towards west on the same road including Ratan Nagar colony upto Badanpur and Maharajpur border.

**West** - From Shri Kamal Singh Plot N.H.-7 road infront of Soopatal lake towards Pole No. NN/01/52/2846 on Dargah road on South via house No. 1977/B Plot 83 opposite to Madan Mahal Dargah upto Sangram Sagar Kachcha road border on Maharaipur and Badanpur.

**Ward No.16 Maharana Pratap**

North— Starting from the Western boundary of Municipal Corporation near the Timeda of Purva Garha Kachhpura Road on Central Railway line towards the east along the Central Railway line upto Bhulan Chowki near scheme No.6 JDA scheme No.3 upto 60 feet Road junction.  
East— On Central Railway line before Bhoolan Chowki towards south along open space to the east of Baksera Pond to the junction of central road near the houses of Savitri Lodhi and form there to the east of Ganga Nagar colony along the central road of Nav Nivesh Colony up to the junction of the road towards the clinic of Dr. Dinesh Jain then towards the west along the old Garha Purva Road towards west via old Purva Chungi chowki passing along the central road of servant quarters towards south along the road up to the junction of NH-12 at Rain Basera in front of Pisanhari ki Madhiya.

South— From in front of Pisanhari ki Madhiya from Rain Basera along NH-12 towards the west along Bhedaghat Road across Dhanvantri Nagar Chouraha along Bhedaghat Road via Bal Sagar Chungi Chowki Road up to the Municipal Corporation boundary up to the Purva village.

West— From the boundary of NH-12 and the boundary of Purva village to the north along the boundary of Purva village up to the junction of Central Railway line.

**Ward No.17 Rani Durgawati**

North— Starting from old Garha Thana towards east via Garha main junction up to Anand Kunj Tiraha then BT Tiraha and along with Hitkarni Girls School upto Ganga Sagar Tiraha.

East— From Ganga Sagar Tiraha towards south along with Sharda Devi Road up to Sharda Chowk.

South— From Sharda Chowk along with NH-7 towards west upto in front of Hitkarni School.

West— From in front of Garha Hitkarni School from the house of Pyarelal Patel, No.2735 along with Chikui Kua Road up to house No.1 of Satish Kumar Kashyap near old Police Thana.

**Ward No.18 Saheed Gulab Singh**

North— Beginning from Ratan Nagar to Prem Nagar Kripal Chowk Road along with Shahji Residence East of Prem Nagar Road boundary House No. 148 Anita Majeda Residence towards south of Nala along with corner of Gupta Shri Hotel & Tiwariji Cement Shop to Bajna Math Hills Road situated Danav Baba towards corner of Sakar hills Sainik colony to sarda Mandir situated water tank area road behind takshila Cnrgg. College along with post office & right side of Gupta Hotel to main road of Gupteshwar Temple including PWD Quarter to Rampur Railway Gate.

East— From Rampur Railway Gate to south on right hand of Azad chowk Parshad Niwas.

South— From Azad Chowk towards south of Jalpari Naya Gaon Housing Society through South Boundary of Power house MPSEB to Power house.

West— From the border of Power house MPSEB (Bargi Hills) to south of North phase situated area border and Bazna Math hills situated right hand Side area of Danav Baba.

**Ward No.19 Kamla Nehru Nagar**

North - Along with omati nala Situated near timeda of basha laxmipur and kachhpura villages along nala to Road Crossing infront of house of the P.K. Jain towards east direction to warthman traders to B.S. Diwan to Kuswaha Health Center to Mateswari mandir to Pankaj Telecom, Infrot of Pukharj bhawan to wards north raj kirana to gulab buiteek to East to house of A.k. Dixit to sachin kirana to Sai parisar to ranital talab boundari to bacchu mangoda wale to wards ranital road crassing to telegraph gate no 1 alongwith garha road , east side of ranital chowk.

East - From Ranital crossing along Madan Mahal station road upto Gate No. 2 towards west. The upto boundary wall of Telegraph along Junction on Telegraph gate No. 4 towards south. Then along Gate no. 4 towards west upto nala along boundary of Telegraph.

South - Central railway line stone No. K 986/3 towards west along central railway line across Garha railway municipal corporation which is near tricross of Kachhpura Basaha and Garha village.

West - From central railway line near Timeda of Kachhpura Basaha and Garha village along eastern border towards north upto Omti nala Junction near Basaha Laxmipur and Kachhpura village crossing.

**Ward No.20 Kasturba Gandhi**

North - Started from culvert on ukhri road (in front of the guilzar building) along with right portion of Ukhri road to Baldeoagh chowk.

East - started from Agrwal petrol pump baldeoagh chowk to southern part of maida mill via aaga chowk .from maida mill southern portion to garaha phatak main road junction via garha phatak road.from near sankar ghee bhendar tri junction to junction of nala in front of kesarwani college via jagdeesh mandir garha phatak road, then along with nala southern boundary of id gan to NH 7 Main road.

South - in front of Iddgah on NH7 to ranital chowk to bacchu magoda on garha road. Then from bacchu magoda to via chidamila khaleefa akhada karbala marg to western boundary of Ranital Pond.

West -from side of pond on karbala road along with slum area on pond boundary to sanjay ghandhi college then via back side of sahib parisar to kewat mohalla then western boundary of muslim kabristan to samsan ghat gate.

**Ward No.21 Swami Vivekanand**

North - From omati nala tri crossing of village kachhpura, basha and lakshmpur vilages towards east diroton hous of bhoori bai house no. 342 to wards east direction to boundry of village lantti to 28 Quarter towards south boundry of vijay nagar alongwith mithlapuri along with vinay dairy, south boundry of JDA scheme no 5, North boundry of Elta nagar to agrwal mandapam to infront of dheengra house to wards ahimsa squire to jankingnagar turning toward south lakshmpur road to ranital samsan gate.

East - From sahib parishar towards west boundrys of harshit nagar and kabristan to samsan gate.

South -From west side road corner of shaib parishar to sachin kirana to house of A.K. dixit towards south direction to vaidhnath chaturvadi house to raj kirana to shards gupta house no 1305 towards south direction infront of kalashdham to skushwha helth center to alza classes to alza parlar, prabhat colony to P.K.Jain house to corre the M.R 4 road to along with omoti nala .

West - From Omti nala in front of P.K. Jain house towards west direction omoti nala to near the tri crossing of laxmipur,basha and kachpura villages

**Ward No.22 Jawahar Ganj**

**North** :- from the side of kotwali thane to darhai chowk to the right side of phootatal chowk road.

**West** :- from trijunction of kesarwani college to sankar hee bhandar to charhai to ghamandi chowk to bada phuhara to kamaniya gate the right part upto kotwali via sarafa chowk.

**South** :- from bridge on nala of iddgah ranital towards east narghaiya nala to garha phatak joint along narghaiya nala on gadha phatak road starting from lohiya bridge and along narghaiya nala on kacchiyana and along nala from lordganj chowk bridge

**East** :- from the junction of om stationary mart and from Bandar chap shop towards east to tilak bhoomi talaiya to old lordganj post office to narghaiya road junction near north -eastern corner of house of Panna lala shriwastawa and towards north along narghaiya roadin front of house of kodulal deochand to house of K.R. Bhura and on the junction of sonarhai road to eastern side along sonarhai road to khatikpura trijunction and from house to eastern side along ambika charan road to phuta tal chowk to tilak bhoomi ki talaiya to tularam chowk

**Ward No.23 Lokmanya Bal Gangadhar Tilak**

**North** :- Started from sarafa chowk to chhote Mahaveer Mandir kotwali chowk, & Beside from C.S.P. bunglow to Darhai chowk sathiya kunwa, Photatal chowk R.H. Side Portion of Darshan chowk on Balbag road.

**East** :- Started from Lakadgunj Darshan chowk, Gurandi road infront of Deviji Temple, Galgala chowk Mukadangunj road, Digamber hotel line of tularam chowk.

**South** :- Started from R.H. Side portion of tularam chowk to Andherdeo road upto turning of bandar wala nai ki dukhan, to tilkbhoomi talaiya old post office sunee houjri Tripathi market Narghaiya road to Photatal Masjid.

**West** :- Started From Photatal Masjid to ressidence of Gharghoriya ji Khateek Mohalla, Panchayati jain Mandir Sarafa to sunarhai chowk, Kamaniya Gate Vijay Cuppiece Bhalarpura & upto Narghaiya.

**Ward No.24 Hanumantal**

**North** - From bridge on Dhalgar Mohalla old road near house of Gareeb Ulla on Khaiya road towards Nala on east along front of Shaakar Malgijar near Municipal Corporation Sulabh Complex, In front of Mirza Jamal Beg 367 towards road going to Police Chowki near P.M. Tiwari along Ravaiya road, and from Telegraph Shiva Temple Milloniganj road to Ghoda Nakkas road via Milloniganj Chhota Fuhara road upto Ghoda Nakkas.

**East** - From P.M. Tiwari Khaiya junction towards south west police post near Hanuman eastern road through house of Hanuman Prasad Verma on south part upto Shakrawari Bajaria Junction, From there towards road going to east along Kunjarhai Mosque road, bridge (small) on Phootatal road towards Badhai Mohalla on south, junction at Badhai Mohalla east and bridge (small) on koshta mohalla road near Badhai Mohalla Visckarna temple through eastern road of Phootatal on south road junction and through Hanumantal west road and Pandit Devi Shukla road via Ghoda Nakkas towards Raja Sagar road Gokaldas Palace on south upto junction of Darhai crossing via Fakeerchand Akhada beside Bohara Maxque.

**South** - From junction of south Phootatal road and Sathia Kuan road near Phootatal Urdu School towards same road on south along crossing near Mosque, then from north west Sathia Kuan along Malviya Temple upto Devi Prasad Shukla road junction nd Kotwali Police Station on west of Darhai crossing upto main road junction, From South main road through Sunarhai crossing Nunhai, Cherital road via Hirkarini Middle School upto front of Uprenjanj road.

West - From junction of Devi Prasad Sharma road Malviya Temple and sathiya Kuan to west roadside of Devi Prasad Shukla road on north along lane in front of Dr. K.L. Jain dispensary to Bohara Mosque via Fakirchand Akhada and crossing Ghoda Nakkas along Hanumantal west road to bridge near house of Gareebulla Dhalgar Mohalla and from Raja Sagar on Uprenjanji road and Kthikarini Middle School on Tamarhai road towards North of Uprenjanji road junction. Then beside Simria Rani Kothi in front of Mannual trust road going towards Gopalbagh, from house of Dr. Bajpai in front of Gopal Sadan across Gopalbagh road upto Milloniganji road junction near Shiva Temple.

#### Ward No.25 Pt. Mahatma Gandhi

North :- Starting from Hardol Mandir to saraifa chouk via Hirkarini school. right side portion on Dixitpura Road

East :- Starting from Sarafa chouk to ghamandi chouk via kamaniya gate an Bada Fuhara.

South :- Starting from Ghamandi chouk to badi mahaakali mandir via Shankar Ghee bhandar from Maha Kali mandir to NH-07 In Front of R.K-Biskit via Jagdish mandir.

West :- From R.K. biskit to hardoul mandir via Aga chowk and baldev bag chouk .

#### Ward No.26 Govind Vallabh Pant

North :- Starting From Corner of regional bus stand to Amar Jyoti hotel on Adhartal road Motinala pul & upto corner of Eidgah.

East :- Starting from Gohalpur Tiraha Eidgah to Left side of Motinala pul Buniyad shah Baba to old post office gali to infront Bhoore Pahalwan to Ghoda Nakkash Tiraha, Naresh Saraf house, Right side portion upto corner of Batuk Bhairav Mandir.

South :- Starting from gali beside Batuk Bhairav from H/o Narayan Namdeo to Dhanushdhari Temple on Milonigunj kotwali road, Gudhai chowk to ressidence of Dr. Pahadiya to H/o Mourya.

West :- Starting from house of Mourya Chota fuhara Soozipura School to Jamuniya kunwa to infront of Koshti Mandir to H/o Atari Lal Tiwari to Regional bus stand.

#### Ward No.27 Cherital

North - In front of kothari medical from house of sahu damoh naka square upto sahu flour mill.

East - Damoh naka square- Parijaat building-Heer ji- Baldeobagh tricrossing upto SBI ATM.

South - From Baldeobagh SBI (ATM) - Sheetalpuri colony- Young blood main road to infront of Gulzar building upto Uttamchand Jain Merchant shop.

West - From Uttamchand Jain Merchant shop tricrossing before Sangam colony Jain Tample via infront of Rajesh Agrawal Transformer via Mayour Merchant shop infront of Stemfield school via Kshatriya flour mill narrow road onwards Tulsi nagar Cristal paouch factory onwards inside of culvert via side road near old councellar Shri Ghangoriya home via Purushottam Kuti via saraswati garden and right side infront of Verma home SB Vohra After Ravindra Gupta road crossing beside of Deepak sahu via inside infront of kothari madical upto home of Sahu.

**Ward No.28 Jai Prakash Narayan****North** - Anil sahu to Kothari Medical corner

**East** - Starting from Kothari medical via after crossing of Punjab bank colony road upto Naveen Nema home via Agrawal Engineer via side road of Saraswati Garden towards road crossing infront of Purushottam Kuti via inside right turn onward cristal pauch onward right side Shree Chhaya via Durga Temple Mayur merchant infront of BK Dhagad via infront of Transformer via PC Sharma via Dada-Dadi Garden via Jaiswal home onwards turning upto Gulzar building.

**South** - From Ukhri tricrossing welding shop towards Baldeobagh upto Gulzar building.

**West** - Ukhri tricrossing welding shop to Narmda Nursary school to Manish kirana to Praveen dave to Namdev brothers to Outer boundary in the ward to infront of Prasann raddi to Mandi boundary upto its south corner turning infront of Airtel upto Anil sahu home.

**Ward No.29 Dr. Ram Manohar Lohiya**

**North** - From Rani Durgawati square via trimurti nagar upto Kathonda Municipal boundary of Kathonda.

**East** - From Soni market Rani Durgawati chouk Trimurti nagar via infront of home of conceller Renu kori East side Vajipayee welding double road throw home of Jai datt panday via turning Kesharwani farm via Sulabh complex via Community Hall via Chandal Bhata gali no. 1 upto Bhootda home.

**South** - From Roopchand Matani home situated at Deendayal chouk to Pachori petrol pump onwards Sai mandir transport nagar via Shanti nagar upto Bhootda home.

**West** - From Municipal boundary via Green city via Madhotal Kol basti tricrossing via infront of Yadav Deri via Sanchar nagar after crossing Sai colony ITI main road via Deendayal square upto Roopchand Matani home.

**Ward No.30 Pt. Deendayal Upadhyay**

**North** - From North side of Municipal boundary of Kathonda plant through outer side of Municipal boundary via corner of Madar Teresa colony upto Katangi main road.

**East** - From home of Roopchand Matani other side of road via alongwith Interstate Bus stand boundary from corner of Tank via Kol basti tricrossing Green city main road via Kathonda plant upto Municipal boundary.

**South** - From Madhotal Toll crossing Deendayal crossing main road upto home of Roopchand Matani.

**West** - From Mother Teresa via Royal estate upto ITI toll crossing.

**Ward No.31 Rajiv Gandhi**

**North** - From sides of Motinala Bridge towards Shanti Nagar beside Rajat Tiwari ahead of Ryan School via Nandan Vihar ahead of Krishna Colony upto corner of Bhulan Devi Temple land.

**East** - From Damohnaka crossing Katni road along house of Mehrunisha ahead of J.D.A. Market upto Motinala bridge.

**South** - From Trimurti Nagar Tricrossing East side home of Vajipayee welding Jai datt panday via Transport nagar via Sulabh complex along lane no. 1 choudhary mohalla ahead of house of Bhutda on Damoh main road towards house of Madona Shri Anil Pachauri ahead Kuchaini market upto Damoh naka square.

West - From Corner of Bhulan Devi Temple land towards sides of Annol Garden Duplex via Krishna Colony along house of Shri Ram Kumar Patel along double road of Lala Pan Bhandar upto Trimurti Nagar Tricrossing ahead of Ishwar Prem Ashraya.

#### Ward No.32 Subhadra Kumari Chauhan

North— From Teenpatti Chowk via Infront of traffic police station and BSNL Office upto Gate No.2 form Gate No.2 to Gate No.3 via Chirayu Hospital.

East— Starting from Nagar nigam chouk to shashtri bridge Central Railway line.

South— Starting from Shastry Bridge on Central Railway line towards west along with Central Railway line via Madan Mahal Station under bridge up to Pole No. 986/3 located on Central Railway line.

West— Starting from Pole No. 986/3 on Central Railway line towards north to across Omri Nala along with Telegraph Nala up to Telegraph Compound wall which is situated on Sai Baba Road via in front of Telegraph Gate No. 4 to across Telegraph Gate No.3 along PNT Compound wall.

#### Ward No.33 Swami Dayanand Saraswati

North— from omri nala at Navbharat press to jyoti talkies along omri nala to naudra bridge to deshbhandu press to zone office no 12 to muslim musafirkhana all along the omri nala till Ghantaghari bridge.

East— Ghantaghari chouk omri thana from Dr. Rajendra Prasad Chouraha (High Court Chouraha) towards south via Dutt Residency along with State Bank Road near Central Railway line Bridge No.2 up to Pole No. 121 in front of Cantonment boundary.

South— Starting near Bridge No.2 of Cantonment boundary towards south via Bridge No.3 up to Pole No. 121 of Cantonment boundary from Pole No. 117-B, 117-A, 1/116, 115, and via 115-A, then No. 118 of Cantonment boundary then towards south along Central Railway line from Pole No. 117-B, 117-A, 1/116, 115, and via 115-A, then towards north along with Katanga Road, Howdagh Station Road, along with the nala flowing towards the west of Khandelwal Bungalow to across South-East Railway line up to Central Railway then along with Central Railway line towards west upto Shastri Bridge.

West— From Shastry Bridge on Central Railway line towards north along with the road before the junction of the road before the petrol pump near Nav Bharat Press.

#### Ward No.34 P.Bhawani Prasad Tiwari

North— Starting from Tularam Chowk to Lardganj chouk via vaisnav stores to along with left portion of kachhiyana nala towards kesharwani collage and from Dr. Abhinandan jain house to Ranital Chouk left portion.

East— Starting from tularam chouk to in front of omri masjid to right portion of mohammedi gate via janta cycle then mohammedi gate to rajive gandhi statue on nodra bridge via Bangali Masjid, paras stone, house of vijay rani singhai.

South— From rajive gandhi satete on nodra bridge to navbiharat press along with omri nala. Navbihar to Teen patti to gate no.2 hanuman mandir via in front of yatayat thana and arya hindu lodge.

West— Startet from ranital chouk, towards chirayu hospital gate no 03 along with PNT boundry.

**Ward No.35 Maharaja Agrasen**

**North** – Starting from the Municipal Corporation boundary on the Patan Road which is situated along the eastern boundary of the Karmeta Village the towards east along Damoh – Jabalpur road across Deen Dayal Chouraha upto the western boundary of Krish Upaj Mandi which is situated upto the boundary of Deen Dayal Ward.

**East** – From the boundary of Deen Dayal Ward to the west of Vatsala Paradise, passing along the road in front of Mateshwari Garden upto Dinesh Kirana, further upto the house of Diwan, turning from there along the road in front of A.K. Triwari towards west upto R.K. Provisions near Janki Nagar Udyani.

**South** – Starting from R.K. Provisions passing along Janki Nagar, across Ahinsa Chowk, towards the west Y adav traders via infront of Agrasen Mandpan via south side plot no. 1106 home of Sen via South side scheme no. 41 main road via West side North boundary of house no. 1145 C-1 Shri Dubey home via Deerghayu Physiotherapy via East side Bake Bihari home via infront of HB collage via back portion of Abhishek provision store corner of Mithila puri via JDA scheme no. 05 houses via 28 quaters via Survey of India Recedencial quarters via Junction of Lamti village South boundary.

**West** – From Rajeev Nagar Madhotal, via JDA Scheme 14, Saraswati Gyan Mandir, via Nabbe Quarter, Kanchan Vihar, Municipal Corporation Boundary upto Kachnar City Road and from the south of Nachiketa Chouraha to the Temple of Shankarji in front of Vinay Dairy.

**Ward No.36 Moulana Abul Kalam Azad**

**North** – Nalbandh mohalla road starting from the junction of Dhalgarpora road and chhote sonkar lane towards north-east in front of house no. 521 of Haji Abdul Jabber via a Barial road on the shyam singh ke Dhade upto the new bridge of Motinala then along Motinala New Mirzapur Road upto the Motinala nala Bridge near Mohammedan Burial ground.

**East** – New Mirzapur Road starting from the Bridge of Motinala near Mohammedan Burial ground towards South upto the junction of Khhaiya Road near Water Works Boosting Pump House.

**South** – Khhaiya Road starting from the junction of Mirzapur road near Water Works Boosting Pump House towards West along the same road upto the house of Mirza Jamal Beg No. 376 towards south-west in front of Municipal Corporation Septic Latrine through Nala passing infront of the house of Shankar Malgujar upto the junction of the Nala Bridge of Dhalgarpora Road near the house of Garib –Ullah

**West** – Dhalgarpora Road starting from the bridge on the Nala on the road near the house of Garib –Ullah along the same road towards north upto the junction of Nalbandh Mohalla road near the house Chhote Sonkar.

**Ward No.37 Dr. Rajendra Prasad**

**North** : - From Damoh naka chowk to goharpur road india mutton shop stand upto infront of house of Atari lal Tiwari, to koshti Mandir to Jamuniya Kunwa & upto corner of scozipura school - Ride sight portion.

**East** : - Starting From corner of Sujipura school, to right side portion of chhota fuvara upto tamrhai chowk to Jhadoo Mohalla Raja tent Simriya Ranik kothi & upto Babu Manmohan das hitkarini School.

**South** : - from Babu Manmohan das Hitkarni, Guru Tiraha infion of Mishra Bandhu Karayalaya to rite sight portion upto cherital police Quarter.

**West** : - from Police Quarter between baldeobagh & Danoh naka to Samdariya Complex Gopal Bihar, Danoh naka chowk upto corners Mutton shop in shayama prasad Mukerji market ride sight portion.

**Ward No.38 P.Motilal Nehru**

North- Anand Nagar, Portion of Jain Temple, Portion of Schedule Tribe Hostel.  
East - Portion of Bahorabagh Choupra Mosque.  
South - Front part of Gohalpur Police Station old water tank (Overhead) part of Gazi Miya Mosque.  
West - Om Nagar, Gazi Nagar, Portion of Ram Nagar in front of land development bank.

**Ward No.39 Chitraranjan Das**

North - Portion of Durga Temple X-club No. 2, Portion of Rajneeti Nagar.  
East - Through the house of Aashiq Ali in front of Bharat Nagar Aara Machine through lane beside of Shekhar Koshta upto house of Shri Lakhera, From Kirana Shop opposite to Lakhera Ji ahead of electrician through land development Bank house construction society upto house of Arabs, from house of Arabs upto Amkhera road north of house of Rasheed Neta (Leader).  
South - From Gohalpur Police Station via sides of Motimala upto New overhead water tank, Portion of Police quarter Ahmed Nagar.  
West - New Narmada Nagar, Narmada Nagar, portion of Subhash Nagar.

**Ward No.40 Dr. Zakir Hussain**

North - From Bahorabagh crossing via Harafia Mosque through lane of Naimuddin Ice Makers which goes towards Pani Talaiya.  
East - West - From the house of Dr. Khan through main road Gohalpur Raddi Chowki (crossing) upto Geeta Plywood.  
South - From front of Kaliwali Chai (Tea) through lane of Saleem Rashan wala (PDS) upto factory of Kata Beedi, then to Ammenuddin Dairy and Doctor Choudhary lane and east part of Bahorabagh lane main road.

**Ward No.41 Sanjay Gandhi**

North:- From Khushi Janerel Store to west side towards durga mandir kadimunshi office upto Razachowk.  
East :- From Tantaniya Pahadi Salauddin Madarsa towards sammati Nagar main road left hand area towards north upto khushi Janaral Store.  
South :- From Dr. Aslam to tantaniya Pahadi Area and move East Direction upto salauddin madarsa.  
West:- From Razachowk Taha kirana store towards left hand area south side upto Dr. Aslam .

**Ward No.42 Netaji Subhash Chandra Bose**

North:- From Milkscheme Mahaprabandhak (G.M.) House. to Shobhapur Main Road towards right hand area upto Danik Bhaskar Press Office and Industrial Area last Railway Crossing to Shobhapur Road Kali Mandir.  
East :- From In front of Railway Crossing Shobhapur to kali Mandir to central area to south side belong's to further Sapna Nagar New Pani ki Tanki and nirbhay nagar pahadi towards Tantaniya pahadi before Salauddin Madarsa Santosh Pandey house.  
South :- From To Salauddin Madarsa Santosh Pandey House towards West Ambedkar Bhavan Area Crass the Lalit Nagle House to Ambedkar Bhavan.

**West :-** From Near Ambedakar Bhavan Mukesh Kori House towards north move further Shukla kirana and upto Milk Scheem Mahaprabandhak (G.M) House.

#### Ward No.43 Dr. Shyama Prasad Mukherjee

North - From chungi chouki to house of guru prasad to chanchghar chouk.  
East - From chungi chouki to GCF (Boundary) to hanuman torya to side of railway line to pui no 01.  
South - From Pole No. 1 Gokul das dharanshala to indra market up to central jail gate.  
West - From central jail quarter to housing board culvel to railway station to kanchghar chouk.

#### Ward No.44 Acharya Vinoba Bhave

North – East : Starting from the centre of southern boundary Pahadi of Gohalpur Village from the Jabalpur Panehara and Gohalpur village Pahadi Tiraha located at the north-western corner of the Hindu Shamsan Ghat towards eats up to the north east corner of Hindu Shamsan Ghat the from the center of the Pahadi towards south along the eastern boundary of the Shamsan Ghat crossing the new culvert near Marghatai towards south along the same road along house No. 1882 then along Swami Ramkrishna Paramhans Road upto the convert on Omti Nala then towards south along the nala up to the Bridge on Omti Nala on Kundam Road.

South - Starting from the Bridge on Omti Nala on Kundam road near Tadikhana then along the Kundam road towards north along the house No. 1864 of Verma and house No. 1890 of Hirala passing along the Tiraha nala further back then towards south passing along Sheetalamai Mandir by the road in front of Sarkari Kua towards the wet up to Prem Sagar Police Station on Prem Sagar Road.

West - Starting from Prem Sagar Chowki on Prem Sagar Road towards north along Marghatai road crossing Ganeshganj Road junction of to the junction of Jabalpur, Gohalpur and Panehra Village.

#### Ward No.45 Sheetalamai

North - Starting from the nala near Harijan Quarter which is situated on New Mirzapur Road and Prem Sagar Road towards east along Sheetalamai Mandir Road passing through Sarkari Kua upto the bridge of Omti Nala on Kundam Road near Tadikhana main road through Kandelwal Building Kuchchhbandhiya Mohalla upto main road Maharana Pratap Chowk.

East - Starting from the Bridge on Kundam Road near Tadikhana along the nala towards west further to west from the house of Ram Swarup Sharma along the main road nala passing along the back of Ravikant Rawat building towards west along Omti Nala along Janjira Nala on the New Mirzapur Road upto the Janjira Bridge and Housing board colony junction through Kanch Ghar main road Samdadiya colony upto Kanch Ghar road Kandelwal Building.

South - From Gopal temple through Bai ka Bagicha along Ram Krishna Aasharam through Kuchbandhiya Mohalla up to Junction of Bachau ka Bada housing board colony Tiraha.

West - Starting from Janjira Bridge on New Mirzapur Raod towards east to the junction of Prem Sagar Nala then towards north along Prem Sagar Nala across Kundam Road along the nala up to the Prem Sagar Road Junction near Harijan Quarter.

**Ward No.46 Pt. Dwarka Prasad Mishra**

North – Starting from the junction of Gopal Hotel and Siddha Baba Road towards east along Acharya Kripalani Road passing through Six Khamba Chandmari Road through the Chouraha towards east along the road upto the western boundary of GCF which is between GCF boundary pillar No. 8D and 8C.

East – Starting from the junction of Six Khamba Road Chandmari towards eastern road which meets the western boundary of GCF towards south along GCF pillar No. 8C along the boundary upto Kundam Road near old Chungi Naka.

South – Starting form GCF pillar No.3 which is near the Middle School on Kundam Roa along the Kundam Road towards west upto the junction of Kanchghar Chowk.

West – Starting form Kanchghar Chowk towards north along Acharya Kripalani Road passing along Ghamapur police station and Bharat Sevak Samaj Jhamandas Chowk upto the junction of Acharya Kripalani Road then towards north along Acharya Kripalani Road upto Gopal Hotel Chouraha.

**Ward No.47 Seth Govind Das**

North – Starting from the western boundary of Betala village (Kanchanpur Toria) from Siddha Baba Toria towards east from the middle of Pahadi of Chandmari Toria then from southern part of Sharda Mandir upto pillar No. 8D of GCF boundary which is on the western corner of Chandmari Toria.

East – Starting form pillar No. 8D of GCF boundary towards south along GCF boundary to the southern side of Chandmari Road which meets between GCF pillar No. 8D and 8C then along the same road towards north west upto the junction of the road form Six Khamba to Chandmari.

South – Starting form the junction of road between GDF pillar No. 8D and 8C Six Khamba Chandmari Road towards west along the road passing through Acharya Kripalani Road upto Gopal Hotel Chouraha wchich is the junction of Siddha Baba Road.

West – Starting form the junction of Gopal Hotel and Siddha Baba Road along Siddha Baba road towards west upto pole No. K.R. 511 old house No. 2351 of Narbada Sahu then along the southern portion of Tar Road house No. 2588 and 2488 Pole No. K.R. 151 Babul Gupta's house near the Nala ad the house No. 2561 then along the road passing by the southern portion of Pole No. K.R. 151D then along Tar Road along Pole No. 151/SP house No. 2410 of Rami Bai W/o Mithailal across the milestone then passing by house No. 2008 (New) of Krishna pal Gautam then towards the western side road near house No. 1989 of Shanti Bai passing by house of Kalu along Timber Tall upto the Temple and form there towards Toria upto Kanchanpur where the house of Sundar Bai W/o Ramshankar Kachhi is situated.

**Ward No.48 Siddha Baba**

North – Starting form the southern boundary of Betala village means the southern boundary of Siddha baba Toria which is on the south of Siddha Baba Temple towards east and along the southern boundary of Betala village from the middle of the Pahadi (hillock) to north of House No. 1039 of Dev Pandey near the house of Ram Gopal along the middle of the Pahadi passing through Tihari Mohalla, Patel Mohalla to the junction of Cheep Lane which is in front of the house of Sunder Bai W/o Ramshankar Kachhi.

East – Starting from the southern boundary of Betala village near Siddha Baba Toria towards north-east passing along the middle of the hillock through Cheep Lane towards south upto the junction of New Chandmari Road near the house of Dulari Bai Yadav Pole No. K.R. 145 along the pole No. KRI 145 then towards south along the tar road crossing the nala passing along the nala then beyond that

Pole No. KR 145 ISP 2 then along the house of Ganesh Prasad further by the side of the Temple passing through the house No. 2548 of Panna Lal Kachhi along the WBM road then turning at Pole No. JR 151 CK crossing over the culvert over the Nala then House No. 2612 (Old) then upto House No. 2607 on Siddha Baba Road junction then crossing the road (right side if the road towards Achayrya Kripiani Road along Janta Hotel.

South :- Starting from House No. 1882 near Pat Baba Toria on Ramkrishna Paramhans Road along the souther road of Pat Baba Toria towards west upto the eastern boundary of Nala Marghatai which is near the house of Ram Naresh Pasi and Electric Pole No. 113 GSP 10.

West :- Starting form the eastern boundary of Marghatai near the House of Ram Naresh Pasi and Electric Pole No. 113 GSP 10 along the boundary towards north crossing the new culvert on Marghatai Road then along the southern boundary of Gohalpur village towards north upto Siddha Baba Toria near the well of Siddha Baba Toria.

#### **Ward No.49 Lal Bahadur Shastri**

North - From the house of Ibrahim cement Pole No. N.A. 6 via quarter No. EWS 152 from house No. EWS 71 hameed compounder ahead of house of Akbar Milkman along house of Sadik hotel via old overhead water tank rock area via Jeevanlal Pasi house and house of Mustak Mansoori along whole plotting Tedhi Neem wale Baba along Rahees Bhajan upto nala.

East - From the house of Late Ramkishor Choudhary towards back space of Dr. Pachouri house, whole area and front area along Jhanda crossing on right hand via Abdul Khalik house No. 500 via house of Jameel Haji right hand portion upto old slaughter house.

South - From house of shakeel Ahmed at Panchkuiya tricrossing via portion of right hand side of 16 quarter along Talib milk dairy upto Raza Mosque (Masjid) f40m house of Dr. Jamirul.

West - from the house of Late Sheikh Rasheed taking the side houses of Khooni nala upto house of Raju tent at Panchkuiya Crossing.

#### **Ward No.50 Thakkar Gram**

North :- From new slaughter house graveyard via saiyad hotel sindhi line via shamsiad murad hotel along sindhi line house of Babu salaam upto house of vishwanath line towards front of Dr. Pachauri and Babu Sala.

East :- From Mazhar Hazi to Shabbeer Kuraishi to aloneg of Dr. Sen than Nagpur wale Baba to Sulabh Complex to old Slator House to Anna Farukh to Haddi Godam Electric shop to Kilkari Garden to house of Hazi Mazhar.

South :- From Shankar crossing from Nabbu khaleefा bridge along boundary wall of graveyard upto naya kamela.

West :- From the house of advocate Rajaram choudhary upto thakur mill (Chakki). Along kirana shop of Ramghan along Jai Mata Di Rashan shop along house of ex ward member Pappu sonkar before Hari Narayan sahu General store upto house of Ahirwar along chauth wale Baba lane. Near house of Lalji sahu and its from part upto Ayodhya kirana stores shankar crossing.

#### **Ward No.51 Ravindra Nath Tagore**

North :- (1) From Radhi chouwki star hotel along khandelwal upto kasim sardar welding khoomi nala (2) From kasim sardar welding upto godown of ex ward member Haji Ameen. (3) From Ahsaan atta mill along wajudul kadri via Anjuman school upto house of Bombay tailor sarifabad colony.

East :- From beside the house of Haneef along pole no. A/26 cement pole along king medical stores towards right hand, along Asra connection line upto Ajmal Mulla and yakoob saudagar house.

South :- From house of Malik Bhai, from Raja Manjil pole no. A.P./67 bridge along Agrawal panni Godown upto MEA SS steel traders in c line and along the same side towards Harijan mosque (masjid) to sultana Ghat naala khaleel kirana right line right hand side from house of Murli tent house upto Radhi chowki star hotel.

West :- From the house of Daud master along house of Haji majeed toward right hand side of sona steel, From Republic school upto advocate Aslam Haneef kirana nala. From S.K. Tent to Raja Crossing right hand side and from Raja crossing towards North along Raja mosque along house no. MIG - 94 S.A. Khan along house of Elias milk man towards right side in front of 16 quarter taking right hand side along Baba hotel in front of kilkar garden along house of Abbas Comret upto Noorani gate and taking right hand side in front upto house of Daud tailors master.

#### Ward No.52 Pt. Madan Mohan Malviya

North:- Starting From Shekh Aziz Futatal Chowk towards east (Sabbir Bhai ) Mohammad Wahid to Shekh papa to Abdul Washir House, Laxman Ben (North to South) Rani Begam House Towards West to East,Madanlal Kuwar,Arjun Chakrawarti, Musrath Jaha House to House of Shekh Shajade to Surendra Gupta to Laxminarayan Gupta (Bhagirath Ka Bada) to Anil Keshewani to Punabai Granya to Suresh Arthal to Parasram Thakur to Sunder Lal Kashiyap to ravindra kumar chandel to Mul Chand Mehito to Dasharath Lal to Aanadi Lal to Mahesh Prasad to Shanti Bai to Bhola Prasad Kunde to Ram Krishan hate To Badri Gupta to Shukla ji Bada,Sarwati Kapoor to Rajendra Vishwakarma to Dudhnath Sonker to Bhag Chand hate up to house no 1100 (To Main Road From Belbag Police Station to Ghambapur).

East- From Ambika Charan Banerjee Khalasi Line at junction House No. 646, new 391 Dwardamal Sindhi house to cement road leading to words Omri route at junction of house 586,new 360 dulari Bari garg house crossing the road near the house of Mr. Garg Ashok Gupta Chuttu Halwai apartment No new Electric pole on the east side of 737,493. S.P. 2/147/1 up to Omri nala, up to bridge owner omri nala , along with the nala to the south of Baken Bihari Draftman house. Then from Belbag Police Station to Ghambapur route up to House No. 1100 at main road Belbag Main Road in front of Belbag police station to wards north,Bhagchand Belbag Hate L / 615 P 4 / C, between Sitaram Advocate House & Vishwakarma Repairing car shop to Kuliya Dudhnath Sonker Pali NO B/176/E up to the house.

South:-From Madhu Yadav's House at edge of Omri Nala towards West at Oriya Mohalla Shankar temple, near the bridge no. No. C-96 Towards House No. Old 219 new of 511,512 to Nar singh das Sonkar House Crosing bituminus Road at Peshkari rout in front of Achchhheial Sonkar House to Peslkari school up to Omri Chowk.

West:- Starting from Baripur Route Khuda Baksh Mosque (Deep Chaudh Yadvay) Route Near Badi Omri then Towards Narth In front of Laxmi Takiz then Towards East in front of Duga ji Temple towards Lakhadganj choraha Right Side Bazir Belbag Police Station Towards West From Ghambapur Route to Futatal Chowk, up to house of Mohammad Wahid,Shekh papa.

#### Ward No.53 Maharsi Arvind

North- Kataynni Temple crossed the street in front of the chameli Bai house's to inside tek, to street on the handpumps route from Saraswati school to DR R.c. gupta, Beside Pramod Gupta to Karyayni temple area and east side of the road bakra market. In front of the sloter vishvkarma route from the north side of the house & mithai lal dolak vala in front of the police quarters ,to Shukrawari Bajariya road junction near the east side Bantlaya Tiraha NH Prem Sagar cross drain culvert on the way to the front of the Harijan quarters.

East- Starting From Prem Sagar route near Drain at Harijan quarters to Kundam route along with Nala across Kundam route up to Omri Nala Junction and near the southeast corner of the Hanuman temple.

**South:** - Starting From Arjun Chakrvartri House's, Towards east side of the house, from house to house Prince Sheikh Shahjade house to Bashant Thakur's house to Surinder Kumar Gupta (Bhagirath Ka Bada) Anil Keshewani from the house to Poonam Bari Granya to Suresh Arkel's house to Parasram Singh Thakur to Sunder Lal Kashyap to Rabindra Kumar Chandel from house to house to house to house of Moolchand Mahato's house to Dasharathlal's house to Anandi Lal house to Mahesh prasad house to Shanti Bai house to Bhola Prasad Kunde house to Ramkrishan Hate house to badreeprasad gupta house to Shukla's Bada, from Saraswati Kapoor's house to the house of Rajendra Vishwakarma's house to Doothmath sonker House to Bagchand Hate upto House No.1100 (Main Route of Belbag Police Station to Ghananapur Route).

**West:** Starting from Makhan teli road along with north side Jodi talaiya route junction (Sheikh Papa house,behind Futatal urdu school to house no 34 pole No. 163 & behind school south east rout to junction to North side Futatal east route towards junction to words kostal mohlla to badai Shekh Aziz Futatal chowk Mohamad vahid to Shekh Father to Abdul Washir's house to Laxman Ben (North to South), Rani Begam's House towards west to east ,madan lal kuwar's housee Ajum Chakrawarti's house(North Side Area).

Ward No.54 Pt. Jawahar Lal Nehru

**North** – Jangira Bridge via khandelwal compound to cms church compound via GRP Quarter to Ramharak ka bagicha, mazar tak.  
**East** –Mazhar to kuchbandhiya mohalla bridge to gali and house of fujariya to railway station road and deepak dairy via railway station along with husing board via jail gate Indramarket bridge no 1 along with railway Track 2 rishi regency.

**Sonth** = Bishi regency to main road via High Court to Ghantaghar bridge.

**West**-Ghantaghār nala via from Ramprasad Choudhary house to janjeera pool.

Ward No. 55 Kherwai

**North** – Starting from the lane Khaiya Marg Hanumanatal near old Police Chowki (near the house P.N.Tiwari) towards east along Khaiya Marg upto the junction of New Mirzapur Road near pump house to Katayani Mandir area from Pole No.L/166-S.P. 3 B) Radha Bai to Laxminarayan Soudhiya to Narayan Kashyap to (P No. JBE 2 LT 03827) Gulab Bai Lodhi to Prem Bai Pathak to Chabbi Lal to (P No. L/166 SP 8/2) to Laxmi Soudhiya to Dholak Prasad Kori to Vijay Vishwakarma Aneeta Sen to Water Tank (Belbag Toriya) to Saraswati Shishu Mandir to Bakra Market

**East**— Starting from the junction of New Mirjapur Road and Khaiya marg towards south along the same road upto the junction of Shukrawari (Front of Slaton House).

Dabajia - Starting from the junction of Shukrawari Bajariya Road Asiya Tent House form the west of south Bakra Slaton House & Left hand side South - Starting from the junction of Shukrawari Bajariya Road Asiya Tent House form the west of south Bakra Slaton House & Left hand side House No. 600 Abdul Bakar to Right side along the House No.1785 of Gaffar Babu near Bakra Slaughter House then towards west through the corner of House No.1777 of Kishanlal Vishwakarma then towards north along the corner of western side along the Zahir Mohammad S/o Noor towards north cement road

Mohammad then crossing of Chunnu Khan then through the western of Bhagwandas Sindhi then towards west-Lordi junction road.  
West— Starting from the residence of Hanuman Prasad Verma at Hanumanthal junction through Khukrawari Bajariya junction and Infront of Asia tent house near Azim Kirana residence through Jhadua Kua and residence of Shri Navi Ahmed towards right side along with Abhishek furniture to the aera of junction.

**Ward No.56 Saeed Abdul Hameed**

North— From the junction of National Highway No.7 Mirzapur Main road and Adhartal tri-junction towards Milk Scheme industrial area road via municipal corporation halker zone Sabji Mandi passing along the office of joint Director, Veterinary Services and Milk Scheme up to Government Higher Secondary School.

East— Starting from Government Higher Secondary school located on the main road of Industrial area towards west passing along Neta colony millan flour mill house no. 4009 then passing by Raza clinic, house of Kadir Munshi up to house NO. 2668 of Mumtazuddin Mansoori at Raza Chowk.

South— Starting from house No. 2668 Mumtazuddin Mansoori at Raza Chowk beyond the house of Qureshi Marble through rental quarter housing Board via new janta quarter water tank along Khuni nala to house no. 2041 of Kashim Sardar Welding.

West— Starting from the house No. 2041 of Kashim Sardar Welding on NH-7 one at the office of met department, Anand Nagar bus stop Spring Day School, JVimal Nursery, Kamla Bhandar new corporation market up to the junction of or is made Mirzapur Adhartal Main Road Tiraha.

**Ward No.57 Maharsi Mahesh Yogi**

North— Across the Amkhera Road along the boundary towards the north up to the junction of Jai Prakash nagar main road then towards east along Jai Prakash main road, passing along house No. 1281 and the middle of Subhadra Kunj and a long Electric Pole No. 18 via Adarsh Vidyा Mandir up to the red bungalow of U.S. Rajpoot then along Pushpak Nagar towards south to the junction of Pushpak Nagar road and NH-7

South—East— Starting form the junction Pushpak nagar road and NH-7 towards west along with NH-7 upto R.K. Kirana Store situated Infront of Anand Nagar Bus Stop main Road.

West— Starting from R.K. Kirana Store situated on NH-7 towards north passing along Monalisa Beauty ParLOUR and post office along the house of Dr. Parekh towards west to Pole No. R/10, R/9 from towards north passing along Trimurti middle school via Pole No. R/8/3 via house of Chitra Soni towards west along pole No. ANB/15/4 along MZ Flour mill through Ankhera main road towards north up to boundary of Municipal corporation at Sonu Dubey's house.

**Ward No.58 Dr. Sarvapalli Radhakrishnan**

North— Starting from the culvert on new Mirzapur road along Pahadi nala towards East behind Chouthwala Baba Temple along the house of Bhagwan Das Kori upto the junction of Rajendra nagar road and house no. 1402 then crossing the road towards Rajendra Nagar Road along Kachha Road towards North along new culvert house no. 1440 then crossing the new culvert upto the junction of the nalla near the Charma Godown Old Tanki Teen Kua then along the nalla near the garden of Sukhlal Khatik which meets pahar Toria with the Eastern side of the Nalla upto the junction of Siddha Baba Road near the southern side of Siddha Baba Mandir Well.

East— Starting from the junction Siddha Baba Mandir along the Southern boundary Gohalpur Village means the South Western towards Marghatai then crossing the new culvert along the northern boundary of Shamshan Ghat upto Gohalpur Panhera and Jabalpur Junction along the junction of Marghatai road and Ganesh Gunj road towards South along the Marghatai Road upto Prem Sagar Police Chowki which is situated on Prem Sagar Road

South— Starting from Prem Sagar Police Chowki Road towards west along Prem Sagar Road through the junction of Mirzapur Road and NH7 upto the junction of Shukar Bari Bazariya which is near Police chowki.

West— Starting from junction of new Mirzapur Road near Bhangtaiya Police Chowki and the road from Bhan Taliya and Shukrawari Bajaria towards north upto the Bridge on Motinala on New Mirzapur road which is near Burial Dround

#### **Ward No.59 Saheed Asfaque Ulla Khan**

North— Starting from the junction of Gohalpur Road near Gullaha Bridge towards East via cement road lane in front of house no. 614 of Old Gohalpur Ward belonging to Shri Haji Raza then in front of house of Shri Hamid Ullah Khan and Shri Haji Ibrahim upto the junction of Beni Singh ki Taliya Road which is near the well of Gohalpur Imambada then towards east via Beni Singh ki Taliya Road along with the same road crossing Nalband Mohalla road near the Char Khamba via a Tilwaria road upto the junction of new Mirza pur road which is near the mohammedan Burial Ground.

East— Starting from new Mirzapur route to the junction of Tiliyana Road near Mohammedan Burial Ground towards south along the road upto the Bridge of Motinala near the south west corner of Mohammedan Burial Ground.

South— Motinala strating from the bridge of Motinala on new mirzapur road near Mohammedan Burial Ground along with the same nala towards west upto the new bridge on Shyan Singh Dhada then towards South west along the burial road passing through the house no. 432 of Motinala belonging to Shri Shamsuddin upto the Nalband Mohalla road near old house no. 521 of Abdul Jabbar along nalbandh Mohalla road towards South upto the junction of Dhalgarpur road and the cul what near the house of Chhote Sonkar.

West— Starting from the junction of Nalband Mohalla Road along the culvert near Chhote Sonkar up to the junction of Moti Nala near Gulalha Bridge via across junction of lane of Old South Millonigunj Urdu School near the house of Sheikh Mohammed.

#### **Ward No.60 Nirmal Chandra Jain**

North - From the junction of Urdana Nala and Krishi Nagar colony towards eastern side along Urdana Nala upto Bridge on Central railway line over Urdana Nala.

East - From the bridge on Central raiway line over Urdana Nala towards south along railway line upto Shobhapur railway crossing

South - From Shobhapur railway crossing along with main road towards industrial area on west upto Krishi Engineering Office.

West - From Shobhapur mainroad towards east beside road of Upadhaya restaurent along Govt. H.S. School Kanchanur via Radheshyam towards north of W.S. Rai towards west of Verma Atta Mill via M.P. State seed Depot organisation upto main road Shobhapur road.

#### **Ward No.61 Diwan Adhar Singh**

North - From Timeda of house of Madho Prasad Kachhi along the border of Municipal corporation towards north then towards east along Urdana Nala across new Mirzapur road NH-7 including Krishi Nagar colony upto junction of Urdana Nala and Krishi Nagar colony via Bangladesh colony.

East - From the bridge of Krishi Nagar and Urdana Nala nad junction road towards Krishi College towards south upto Engineering Centre main road.

South - From Agricultural Engineering center main towards the west along the main road across the Adhartal Timeda upto the junction of Pushpak Nagar road and NH 7 then from there along the western road to the bunglow of U.S. Rajput there after along Adharsh Vidhya Mandir upto Electric poll no. J-18 then towards west upto House No. 1281 along the road in front of Subhadra Kunj house upto boundary of Municipal Corporation.

West :- From the road between Sobhapur and Upadhayay restaurant to East of Dulhadev Mandir along with North of Awasthi reliance 4D tower towards west of Rakesh Jaiswal road to Subhapur road along with Krishi Nagar road and Urdna Nala junction.

#### Ward No.62 Dr. Bhim Rao Ambedkar

North :- From vehicle pole no. 99 along vehicle border towards north east of tribal hostel sharda nagar towards border of nature park in south upto border of Raksha colony, From border of Raksha colony towards rock area upto Aman nagar vehicle road again via shri Umesh Pandey via vehicle road towards north east upto Pushpa Pan Bhandar in front of Kishan hotel in north east.

East :- From front of kishan hotel via Dr. Lalwani at Mastana crossing upto Ranjhi kundam road Junction upto Darshan Tricrossing.

South :- From junction of Ranjhi road towards west by kundam road via junction of C.O.D. road in west up to pole no. 31/4/1 on cantonment border. Then along cantonment border upto junction of water filter plant towards west which goes towards south west corner of laxmi narayan yadav school opposite to cantonment border no. 31/36 and 31/33 upto junction of west nala of water filter plant and kundam road.  
West :- From nala on west of municipal corporation water filter plant and kundam road junction upto wall on north-east of water filter plant. Then to Ram nagar towards east, from back of sharda nagar basti towards border of vehicle factory sides upto vehicle factory pole no. 99.

#### Ward No.63 Shahed Bhagat Singh

North :- From southern border of Bilpura village and house of Devi Singh house no. 445 at municipal Corporation border upto junction of road going towards back of Mohania village which goes towards back of Ranjhi shamshan ghat along northern border of Municipal Corporation upto tricross of Mohania and Ranjhi village.

East :- From the Timeda of Mohania, Manegaon, Ranjhi village along east border of Municipal Corporation towards south, from Manegaon Champa Municipal Corporation khasra no. MT/44 towards nala built in west upto bridge at khasra no. MT/45.

South :- From Manegaon Champa nagar bridge upto mohit kirana, from transformer pole no. 44/4/34 via house of Subhadra Rajak along back of saint Gabriel boundary along pole no. 44/4/23, From beside Tiu Sharma shop along Sarvapalli crossing upto road junction built in front of society building ahead of bada pathar.

West :- From Bada Pathar J.D.A. market crossing along Bela welding shop via house of Tarachand sahu via shiva temple via house of Shri Vishwakarma upto front of house of Govind Singh towards east, Again from house of Govind Singh towards north along back and beside of J.D.A. office towards east of L.I.G. quarter via bridge on bilpura road upto west border of Bilpura village.

#### Ward No.64 Maharsi Sudharsan

North :- From the back of Tribal hostel Sharda nagar along border of vehicle estate upto kali temple, from kali temple along boundary of saint Marry school along Dakshin Mukhi Hanuman temple, From house of Sharda Raikwar along Gram Panchayat along rock area at back of Apsa convent upto back of house of Sh. U.S.Bihare.

East :- From the house of Sh. U.S. Bihare along back of kali temple J.D.A. office via J.D.A. quarters upto house of Sh. Govind singh , From house of Sh. Govind Singh along front part of house of Vishkarma towards west along front part of house of Ramdeen kewat along house of shri Goswami towards east along sahu kirana stores along house of Sh. Madan Mohan sahu along Tiwari telecom situated at Bada pather crossing along Major kirana Ganesh ganj upto front of Peetm kirana stores kishan hotel.

South :- From Peetam kirana stores kishan hotel upto house of Shri Mahendra Singh Baghel towards south west, along house of Rathore along rock area upto border of Raksha colony.

West :- From border of Raksha colony along S.A.F. boundary along back of nature park upto Sharda nagar Tribal hostel Vehicle.

#### Ward No.65 Subhash Chandra Banerjee

North :- Central railway plet form no 01 to railway bridge no 01 to GCF pole no 29 via loco talaiya loco quater upper line.

East :- From pole no 29 (GCF) chungi chouki naka to jactic Shishir chand pandey house to MLA house to University Tringle via Mahakoushal collage. scince

South :- From Cantonment pole no. 17 towards western side along with Cantonment Boundary via ridge road lohiya bridge tankha memoriyal school to front of home gard office to Dainik Bhaskar press forway to senthoumas school to forway of mata mariyam to front of empayar talkies to bridge no 2 via carse.

West :- From bridge no 2 to railway station plate form no 1(East side area).

#### Ward No.66 Rani Lakshmi Bai

North :- From the junction of Cantonment tax border crossing in between pole no. 78 and 77 along the border of Cantonment towards east via pole no. 77, 76c, 76d, 76A and 75 along Mandla road upto Cantonment border pole no. 74, 75, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59.

East :- From the Municipal Corporation via the western border of Mehgawan village and north western border of sukhpalpur village along the eastern border of Municipal Corporation upto northern border of village Umariya towards south.

South :- From the northern border of village Umariya along the western border then the north eastern border of Gauriya Ghat Gaur river and border of gauriya ghat village border Junction.

West :- From the junction of eastern border of Gauriya Ghat village and Gaur River along western border of Kajarwara village, Kajarwara Basti area, Bhogadwar basti area and including dhabighat basti along water flowing way across bhongadwar nulla from pole no. 77, 76c and Priyadarshani negi on Cantonment border upto Moolchand Rajak 769 from Puneet singh, Premshankar tiwari house upto house of Ashok Saloman 1320/5 Ojha niwas.

#### Ward No. 67 Virangna Rani Avanti Bai

North :- Starting from cantonment boundary between E.P. No. 74 & 75 from both side the road upto Khandari Nala & from south side on Mandla Road upto Gour river.

East :- Via junction of Bilahri Khandari nala Tilahri village from Chauthameel from Municipal Corporation border upto Jamtara turning of Gaur tricrossing.

South :- From Kudaria village along Gram Panachayat junction place Jamatara Paraswara Basti area.

West :- From Chauthameel via society building of tilahri village on Xerox collage road upto chhwiwa village basti and Bhatoli river of border.

**Ward No.68 Gokalpur**

North East - Starting From Vehicle Factory Pole No. 99 to East of V.F.J. Eastern Area Boundary of Ambedkar Ward West Area Junction towards South of Ram Nagar Sharda Nagar Basti upto North Area of Water Treatment Plant along with Nala Towards West at Kundam Route Pole No. 31 to 33.

South - Starting From Cantonment Area Pole no. 31/33 Near Junction of water Treatment Plant road towards West South along with Cantonment Area Pole No.31/24 near Bridge at Nala to G.C.F. Near Pole No. 18 to north Then East Side of G.C.F. Pole No. 17,16,15,14,13 to Pole No. 12 at upto Central Railway Line.

West - Starting From G.C.F. Area Pole No. 12 Towards North of G.C.F. Pole no. 11 B, 11 A upto V.F.J Pole No. 29 Then Along with then East of Along with V.F.J. Area upto Pole No. 128 Then Towards North of V.F.J. Area Pole No. 148 to 99.

**Ward No.69 Chandra Shekhar Azad**

North:-Starting From Bada Pathar Community Building to Sarapiel Chowk, Via Shree Titi Sharma Shop upto 44/423. Then From House of Smt. Subhdra Rajak No. 3135/2 at Back Side of Boundary Wall of St. Grawial School upto Transformer Poll No. 44/434,Then In Front of Mohit Kirana to Champa Nagar Pulia.

East- Starting From M.T. 45 Managao Pulia to South of JMC boundary Along With Eastern Boundary Nala with East of Chandan Nagar towards East of Khamaria Estate Near irrigation Crossing Kenarg and Kundam route upto Pole No 31/50 (South Side of the Railway Line) at Cantonment Area.

South:- Starting From Cantonment Area Pole No. 31/50 Towards Pole No. 31/41 at C.O.D. Route.

West:- Starting Form Cantonment Area Pole No. 31/41 to North of C.O.D Kundam Route to Junction at Kundam route to East of Kundam route Via Ranjhi route Junction to north of Ranjhi school towards North upto Bada pattiar community hall.

**Ward No.70 Lala Lajpat Rai**

North:- From the tricross of northern border of village Mohania across the tricross of village Moahania and Bilpura along the northern border of village chakdehi across the border of village chakdehi Dumna situated on the border towards east.

East:- From the tricross on the border of village chakdehi Dumna along the eastern border of village chakdehi across the border of village chakdehi, Dumna, Gadheri along the border of village chakdehi upto the tricross of village chakdehi Gadheri and village kota.

South:- From the tricross of village chakdehi, Gadheri and village kota along the border of village chakdehi across the tricross of village chakdehi Mahgawan situated on the border along the border of village Mahgawan along the border of village Mehgawan, kota and along the border of ward and Mahgawan upto the border of cantt. board.

West:- From the border of village Mahgawan and border of cantt. area along the border of village chakdehi Dumna across the tricross of village Mahgawan and village chandeli along the border of village chandeli and cantt. area border across the tricross of village Manegaon and Mahgawan along the border of village Manegaon and Mohania along the border of Mohania upto the tricross on the northern border of village Bilpura.

**Ward No.71 New Ward**

**North:** - Starting From North West Area of Chhitapaar village to northern boundary of the Chhitapaar village through the Border Village of Tevar border village from the North along the East boundary of the Tevar Village Pinderri from Tiraha west Boundary along with of Gram Pinderai towards Andhua along the North side of the Village along the border Village western Andhua and Bhadan western of Bahdan from the border with Tiraha border village of simariya Tiraha northern boundary of the village Bahdan Tiraha Mohania border with the village through village along the northern boundary of the Village Mohania and Basha through the border village Basha Timeda located along the northern boundary of the Village Basha and village Raksha further Garam Timeda Rakghia Lami border village along the border through Timeda forward to Tiraha range of gram Lami and Karmeta.

**East:** - Starting From Village Lami and Krmeta Timeda Boundary towards South of the border Digha along the eastern boundary of the village Raksha and ward Raksha border village situated along the border through Tiraha Garam Raksha Boundary and Ward to gram baska of border villages Tiraha Basha and Boundary of Ward alongwith village Parswara border with Ward Village Andhua border of with from Andhua Timeda border village located along the border village of Kungwa Timeda Boundary of village and ward Kungwa.border located along the border of Garam Kungwa Tiraha and Tevar from the eastern boundary of the village Tevar and ward tiraha located along the border of the Village Chaukital border village and Ward through the border village Dalpatpur Tiraha of the border of Dalpatpur village along the border village of Dalpatpur Timeda village Rammagra and upto Narmada Coast.

**South:** - South Border - Starting From the Banks of Narmada river to Rannagra Boundary of gram and gram Dalpatpur paschimi Timeda Starting from the Narmada river and upto village along the border of Dalpatpur western Boundary Timeda.

**West:** - Starting From Narmada southern border of the village Dalpatpur Tiraha Along Narmada Border to western Boundary of Dalpatpur along the north side of village from Tiraha Chaukital to western Boundary of Chaukital Tiraha village in the border of Tevar village and Chaukital Timeda Tevar from the village along the north side of the border village Chitapaar Tiraha through the border village of Chitapaar Tiraha Chitapaar the village Along the North West Area of Chitapaar Village.

**Ward No.72 New Ward**

**North:** -Starting from western Boundary of Khamaria Village Tiraha towards along the northern boundary of the Khameria and Ouriya Village Timeda.

**East:** - Starting From Village Khamaria and Aurea Village Timeda to the side of Ouriya village Khamaria Village Timeda along the border of Krmeta Timeda through the western border village along the Nandni Rasura and Krmeta Timeda along the border of the Boundary of Raigwan and Raigwan tiraha along the border Raigwan and Kachnari village along the border Village of Basaha Timeda.

**South:** - Starting from Village Raigwan Timeda through the village Kachnari along the border village of Basha to Mohania Timeda through Kachnari and Mohania village along the border of the village of Simmeria Timeda to south west along the border of Simmeria.

**West:** - Starting from Village Badhan and Simmeria Boundary Timeda towards North side of the border village Simmeria located along the border village of Raigwa ,through from the western border village Raigwa Timeda located along the border of the village Nandana village border to Nandni Rasaura Timeda to of along the border village of Khamaria Timeda through the border village located along the border of Khamaria to western Timeda.

**Ward No.73 New Ward**

**North:-** Starting From Village Ouriya and Village Timeda towards along the northern boundary of Village Ouriya upto Timeda of Village Kathonda.

**East:** - Starting From Village Aurea village's northern boundary and the boundary of the Village Kthonda Timeda through of the Aurea village along the border of the village Kathonda Timeda along the border of the village Kthonda and Aurea Village, Village Karneta and Village of Riyha Timeda along the border village of Karneta and , Timeda Karneta border village and ward To through Lami Timeda and upto Ward border.

**South:-** Starting from Village Karneta and Lami Timeda to boundary of the village Kermeta and ward along with Lamati & Raksha to Kermeta Village Boundary upto Village Raksha,Raigwan & Kermeta Timeda.

**West:** - Starting from Timeda of Basha and Kacnari Raigwan through village Karneta and village Raigwan border through Timeda of villages Nandni border along the border of Nandana and Karneta to village of Nandni Rausra Timeda the Nandni Rausra and Karmeta through Khamaria and Nandni Rausra along the border of the village, Ouriya and along the border of Khamaria to the Timeda.village along the northern boundary through the eastern boundary of the Village Kathoanda Timeda.

**Ward No.74 New Ward**

**North:** - Starting from Timeda at Village Ouriya and Kathonda towards northern boundary of the Village Kathonda along with Timeda at East Side of Village Gurda to Timeda at village Gurda and at Boundary of Village Maharajpur.

**East:** -Starting From Timeda at Village gurda and Maharajpur to Timeda along with boundary of village Gurda, Maharajpur to Timeda at northern boundary of Kudwari,Suhagi and Maharajpur to North turn at Village Shuhagi to along with Boundary of Ward to Timeda at Village Amkhera to Ward and upto Boundary of village Amkhera to Boundary of Ward .

**South:-** Starting From Boundary of Ward and Village Amkheda to Western Boundary of ward and Boundary of Village Amkheda along with Boundary of ward and Timeda at Boundary of Village Amkheda and Kathonda to Boundary of Village Kathonda and ward to Riyha Kathonda Timeda upto Boundary of Village Riyha and Kermeta.

**West:** - Starting From Timeda at Boundary of Village Karmeta,Rivja towards along with Boundary of Kermeta and Ouiyra to Timeda at boundary of village Karneta,Rivja and Ouriya upto Timeda at Village Ouriya and Kathonda along with Boundary of Village Rivja and Kathonda.

**Ward No.75 New Ward**

**North:** - From the Timeda situated on the west border of village Bagheli across the Timeda of village Urduua Khurd along the border of village Bagheli across the Timeda of village Urduua Khurd upto Timeda of village Pipriya (1).

**East:** -From the Timeda of village Urduua Khurd Pipriya (1) along the Timeda of village Urduua Khurd, village Pipriya, Imaliya and khairi along border of village Khairi and village Imaliya via tricrossing of village Imaliya and village Richhai along the eastern border of village khairi and western border of village Richhai upto the Timeda of village maharajpur, village Richhai and Suhagi border.

**South:-** From the Timeda of village Richhai maharajpur and Suhagi border along the border of village maharajpur and Suhagi Towards west upto eastern Timeda of village kudwari and village Gurda.

West: - From Timeda of village suhagi, kudwari and maharajpur along the border of village maharajpur across the Timeda of village kudwari upto village kudwari along the Timeda of gurda and border of village maharajpur across the Timeda of village maharajpur and chati along the border of village chati across Timeda of village Bagheli upto Timeda situated on the west border of village Bagheli.

#### Ward No.76 New Ward

North: - From the Timeda of village Pipariya (1) and village Urdua Khurd situated on the border of both, along the border of village Pipariya (1) towards east via Timeda of village Imaliya along the border of village Imaliya via Timeda of village Imaliya, Pipariya (2) along the border of village Pipariya (2) upto Timeda of village Bilpura border.

East: - From the border of Timeda of village Pipariya (2) and village Bilpura along the border of village Pipariya (2) and Bilpura along the Timeda of village Madhai on border upto the border of village Madhai and village Bilpura and word.

South West: - From the border of Timeda of village Pipariya (2) along the border of village Bilpura and ward along the border of village Madhai Richhai Pipariya (2) along the border of village Richhai and Pipariya (2) and Timeda of village Imaliya along the southern border of village Imaliya and the northern border of village Khairi via Timeda of village Pipariya (1), Village Khairi via Timeda of village Pipariya (1), Khairi and village Urdua Khurd situated on the border along border of village Pipariya upto Timeda of village Pipariya (1) and Urdua Khurd.

#### Ward No.77 New Ward

North: - From the Timeda situated on the border of village Suhagi Maharajpur along the border of village suhagi Maharajpur via Timeda of village suhagi, village Richhai, village Maharajpur along the border of village Richhai Maharajpur across Timeda of village Khairi, Maharajpur via Timeda of village khairi, Imaliya along the border of village Richhai upto the border of village Pipariya (2)

East: -From the Timeda of village Richhai and village Pipariya (2) along the border of village Pipariya (2) and village Madhai upto the Timeda of village Richhai, Madhai on the border and upto the border of ward .

South: - From the border of Timeda of village Richhai and Madhai along the border of village Richhai and norther border of ward along the border of V.F.J. (defence factory) towards west, along the border of village Suhagi and border of ward upto the border on turning of village Richhai.

West: - From the border of village suhagi and ward via the turning of village suhagi through the interior road after the turning of village suhagi upto border of village Maharajpur.

#### Ward No.78 New Ward

North: - From the Timeda situated on the border of village Pipariya (2) and village Madhai and village Bilpura along the border of village Pipariya (2) upto the tricrossing of village Bilpura, village Mohania border.

East: - From the Timeda on the border of village Bilpura village Mohania along the border of village Bilpura and Mohania upto the border of ward of the south.

South: - From the Timeda on the border of village mohania, village Bilpura along the border of village Bilpura and ward upto the Timeda on the village Madhai Bilpura border.

West: - From the Timeda on the border of village Madhai and village Bilpura along the border of village Bilpura Madhai upto the Timeda of border of village Madhai and village Pipariya (2)

**Ward No.79 New Ward**

North: - From the corner on the North west border of village Pipariya along the border of village Pipariya towards east via Timeda of village sonpur along the border of village sonpur upto corner on the North-east border of village sonpur.

East: - From the corner on the North-east border of village sonpur along the border of village sonpur via Timeda of village Pipariya along the border of village Pipariya via Timeda of village Umariya via Timeda of village Umariya and Dumna towards west along the border of village Dumna across the Timeda of village Gadheri upto south eastern corner situated in the border of village Gadheri.

South:- From the South eastern corner of village Gadheri along the border of village Gadheri across Timeda of village Gadheri, Sukhlalpur, kota towards south along the southern border of village kota upto Timeda of village Sukhlalpur and village kota.

West: - From the Timeda of village Sukhlalpur and village kota along the border of village kota via Timeda of village chakdehi on north along the border of village kota and Chakdehi via the Timeda of village Gadheri via Timeda of village Gadheri along the border of village Pipariya upto corner on the North west along the border of village Dumna via tricrossing of village Pipariya towards North along border of village Pipariya upto corner on the North west border of village pipariya village boundary of mehganva to along with both side of Univercity road to pall no 17 ridge road univercity road to scince and mahakoushal collage via MLA house tiraha via jastic ajit singh Gov.residence.

DEEPAK KHANDEKAR, Commissioner.

## कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर

दिनांक ..... 16 ..... सितम्बर 2014

कमांक 1534-1/ परिसीमन छिन्दवाड़ा 2014 – मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना कमांक 3-518 अठारह-3-2004 दिनांक 24 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं दीपक खाण्डेकर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर, एतद द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र 23 सन् 1956) की धारा 10 (1) के अधीन नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार अवधारित करता हूँ :–

**नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा की जनसंख्या की जानकारी का पत्रक**

निकाय का नाम	जनगणना 2011 की जनसंख्या	अवधारित वार्डों की संख्या	कुल जनसंख्या के मान से एक वार्ड की औसत जनसंख्या	जनसंख्या			रिमार्क
				कुल जनसंख्या	अनु०जाति संख्या	अनु० जनजाति संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पालिक निगम छिन्दवाड़ा	215843	48	4497	215843	28917	28627	जिला योजना एवं आर्थिक कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार

### अनुसूची

वार्ड क्र०	वार्डों का नाम	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति संख्या	अनुसूचित जनजाति संख्या
1	2	3	4	5
1	डॉ० राधाकृष्णन वार्ड	4487	651	1395
2	गायत्री वार्ड	4386	765	671
3	वीर सावरकर वार्ड	4657	549	1882
4	पृथ्वीराज चौहान वार्ड	4385	318	571
5	बादल भोई वार्ड	4522	564	676
6	लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वार्ड	4081	559	757
7	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड	4684	796	323
8	शहीद भगतसिंह वार्ड	4066	236	188
9	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड	3908	736	1973
10	सिद्धी विनायक वार्ड	3858	696	1582
11	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड	3948	1022	375
12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड	3827	235	825
13	जगन्नाथ वार्ड	4240	814	420
14	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	4773	772	483
15	नेताजी सुभाषचंद्र वार्ड	4545	177	460
16	महात्मा गांधी वार्ड	4774	1045	1812
17	संतोषी माता मंदिर वार्ड	4706	270	176
18	राजेन्द्र नगर वार्ड	4401	1288	511

19	पातालेश्वर वार्ड	4421	638	535
20	पं० दीनदयाल उपाध्याय वार्ड	4609	738	576
21	डॉ० बी०आर०अन्वेषकर वार्ड	4163	654	298
22	रानी दुर्गावती वार्ड	5129	1201	1429
23	संत रविदास वार्ड	4107	1823	107
24	महाराणा प्रताप वार्ड	4852	246	698
25	छत्रपति शिवाजी वार्ड	4510	324	237
26	संत कबीरदास वार्ड	4087	208	188
27	श्रीराम मंदिर बड़ी माता वार्ड	4633	31	46
28	डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड	4370	51	57
29	पं० मदनमोहन मालवीय वार्ड	5135	428	78
30	रफी अहमद किदवई वार्ड	3962	45	114
31	छोटी माता वार्ड	4705	86	39
32	संत तुकड़ोजी महाराज वार्ड	4240	205	116
33	ज्योतिबा फुले वार्ड	4505	267	707
34	दुर्गा माता मंदिर वार्ड	4104	646	447
35	कुलबहरा वार्ड	4832	347	884
36	भरतादेव वार्ड	4341	661	443
37	चंदन नगर वार्ड	4177	657	649
38	समर्थ रामदास वार्ड	4274	694	377
39	स्वामी विवेकानन्द वार्ड	5131	423	574
40	तात्या टोपे वार्ड	4838	755	279
41	शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड	4736	508	275
42	महावीर वार्ड	4622	583	204
43	षष्ठी माता मंदिर वार्ड	4898	541	233
44	पं० जवाहरलाल नेहरू वार्ड	4870	591	319
45	महर्षि वाल्मीकी वार्ड	5076	1136	539
46	संत झूलेलाल वार्ड	4753	870	688
47	पं० माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड	5075	1256	819
48	पंचवटी वार्ड	4440	811	1592
कुल योग		215843	28917	28627

### नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा के अवधारित वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा वार्ड क्र. 01 डॉ.राधाकृष्णन वार्ड

उत्तर:- ग्राम काराबोह की उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर ग्राम खजरी की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित नाला तक।

पूर्व :- ग्राम खजरी की उत्तरी पश्चिमी सीमा स्थित नाला से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर गाड़ीढ़ाना एवं मटरू टोला को सम्मिलित करते हुए ग्राम खजरी एवं लोनिया की उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी सीमा तक।

दक्षिण :- ग्राम खजरी एवं लोनिया की उत्तरी पश्चिम दक्षिणी अंतिम सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे लाईन होते हुए श्री महेश पालीवाल के मकान को सम्मिलित करते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग पुनः पर्याम की ओर मुख्य मार्ग पुनः उत्तर की ओर नाला होते हुए रेल्वे लाईन होत हुए पोआमा काराबोह एवं कुण्डाली की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

करते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग पुनः पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग पुनः उत्तर की ओर नाला होते हुए रेल्वे लाईन होते हुए पोआमा काराबोह एवं कुण्डाली की अन्तिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम :- ग्राम पोआमा काराबोह एवं कुण्डाली की अंतिम दक्षिणी—पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर ग्राम काराबोह की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 02 गायत्री वार्ड

उत्तर :- ग्राम खजरी स्थित फ्रेन्ड्स कालोनी की संपूर्ण-आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पूर्व की ओर फ्रेन्ड्स कॉलोनी और शिक्षक कालोनी का सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित करते हुए शिवपुरी मार्ग तक।

पूर्व :- शिवपुरी मार्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर छिन्दवाड़ा रोड खजरी चौक होते हुए क्रॉसिंग तक।

दक्षिण :- ठी वी सेनेटोरियम रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रेल्वे लाइन होते हुए एस.ए.एफ रेल्वे क्रासिंग तक एवं वहां से उत्तर की ओर सर्किट हाउस पुनः पश्चिम की ओर परासिया रोड पर इरीगेशन विभाग के निरीक्षण बंगले तक

पश्चिम :- परासिया रोड स्थित ईरीगेशन निरीक्षण बंगले से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रेल्वे लाइन होते हुए एस.ए.एफ रेल्वे क्रासिंग तक पुनः पश्चिम की ओर प्रियदर्शिन कालोनी की उत्तरी सीमा तक पुनः उत्तर की ओर खजरी नाला पुनः पश्चिम की ओर खजरी की अंतिम सीमा पुनः उत्तरी की फ्रेन्ड्स कालोनी खजरी की अंतिम सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 03 वीर सावरकर वार्ड

उत्तर:- ग्राम खजरी की पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित नाला से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर ग्राम खजरी की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम खजरी की अन्तिम पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

पूर्व :- ग्राम खजरी की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा स्थित शिवपुरी रोड तक।

दक्षिण :- ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा स्थित शिवपुरी रोड से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर से फ्रेन्ड्स कालोनी एवं शिक्षक कालोनी को छोड़ते हुए ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

पश्चिम :- ग्राम खजरी की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ग्राम खजरी की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित नाला तक।

#### वार्ड क्र. 04 पृथ्वीराज चौहान वार्ड

उत्तर :- ग्राम कुकड़ा की पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर करोड़ी पटेल के मकान से ग्राम मोहरली की संपूर्ण आबादी को छोड़कर पूर्व की ओर राधिका चरण पाण्डे द्वारा स्थापित कॉलोनी के मार्ग तक।

पूर्व :- राधिकाचरण पाण्डे द्वारा स्थापित की गई कालोनी के मार्ग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर स्थित दर्शन डेहरिया के मकान तक पुनः गोविंद के मकान से ग्राम खापाभाट की उत्तरी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** खापाभाट की दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम कुकड़ा की अंतिम सीमा होते हुए शिवपूरी रोड होते हुए ग्राम कुकड़ा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** शिवपूरी रोड पर ग्राम कुकड़ा की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर ओर कुकड़ा की अंतिम सीमा होते हुए पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### **वार्ड क्र. 05 बादल भोई वार्ड**

**उत्तर :-** खजरी चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चक्कर रोड होते हुए कुवंर लाल ताण्डेकर के मकान तक पुनः दक्षिण की ओर खान कॉलोनी कुकड़ा रेल्वे की सीमा होते हुए रेल्वे लाइन से पुनः पूर्व की ओर बैल बाजार स्थित रेल्वे क्रॉसिंग तक।

**पूर्व :-** बैल बाजार रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कब्रस्तान मार्ग होते हुए ऊटखाना पानी टंकी चौक तक।

**दक्षिण :-** ऊटखाना पानी टंकी चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर लो.नि.वि. सब डिवीजन के बाजू की सड़क से उत्तर की ओर ट्रांसफार्मर के पास रफीक टेलर के मकान से पुनः पश्चिम की ओर नाला होते हुए खजरी रोड तक।

**पश्चिम :-** खजरी रोड स्थित नाले से प्रारंभ होकर खजरी रोड होते हुए रेल्वे क्रॉसिंग पार कर खजरी चौक तक।

### **वार्ड क्र. 06 लोकमान्य बालगंगाधर तिलक वार्ड**

**उत्तर :-** खजरी रोड स्थित नाला से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर नाला नाला होते हुए शिवनगर पुलिया से दक्षिण की ओर ट्रांसफार्मर के सामने नसीम खां के मकान से होते हुये पूर्व की ओर पी.डब्ल्यू.डी. सब डिवी. आफिस के सामने तिराहे से पुनः पूर्व की ओर पानी टंकी चौक ऊटखाना तक वहां से सागर पेशा चौक से पुनः पूर्व की ओर रफीक भाई ठेकेदार के मकान को शामिल करते हुए बड़ा तालाब की उत्तरी दीवार होते हुए कंडेरे के मकान को शामिल करते हुए लालबाग रोड स्थित हनुमान मंदिर तक।

**पूर्व :-** लालबाग हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर लालबाग चौक होते हुए यातायात थाना पुराना बैल बाजार चौक तक।

**दक्षिण :-** यातायात थाना पुराना बैल बाजार चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग होते हुए पुलिस लाइन गेट तक।

**पश्चिम :-** पुलिस लाइन गेट से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रोड होते हुए खजरी रोड अम्मा अस्पताल के बाजू पुलिया तक।

**वार्ड क्र. 07 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड**

- उत्तर :— चक्कर रोड स्थित गीता आईस फैक्ट्री से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चक्कर रोड होते हुए धरम टेकड़ी पी.जी.कालेज पहुंच मार्ग वार्ड की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।
- पूर्व :— पी.जी.कालेज के पीछे टेकड़ी के किनारे से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कालेज जाने वाले दूसरे डामर रोड पार करते हुए गया प्र.दुबे के मकान तक।
- दक्षिण :— गया प्रसाद दुबे के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर श्रीवास्तव कालोनी के मध्य मार्ग से होते हुए कॉलेज रोड पर यादव किराना के पास रेल्वे क्रॉसिंग तक एवं वहां से रेल्वे लाइन होते हुए कुकड़ा रेल्वे क्रॉसिंग तक।
- पश्चिम :— कुकड़ा रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रेल्वे बाजांड़ी होते हुए बेदी कालोनी रोड होते हुये गीता आईस फैक्ट्री तक।

**वार्ड क्र. 08 शहीद भगत सिंह वार्ड**

- उत्तर :— नया बैल बाजार रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर कॉलेज रोड रेल्वे क्रॉसिंग तक।
- पूर्व :— कॉलेज रोड रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर कॉलेज रोड लालबाग हनुमान मंदिर के पास नरेश चौहान के मकान तक।
- दक्षिण :— नरेश चौहान के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर रमेश यादव के मकान से होते हुए ऊटखाना सागर पेशा चौक तक।
- पश्चिम :— ऊटखाना सागर पेशा चौक से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर नया बैल बाजार रेल्वे क्रॉसिंग तक।

**वार्ड क्र. 09 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड**

- उत्तर :— ग्राम झण्डा की पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम झण्डा ग्राम खंडी भोपाल ग्राम लहगडुआ की सीमा होते हुय ग्राम लहगडुआ की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।
- पूर्व :— ग्राम लहगडुआ की अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम कुसमेली की अंतिम पश्चिमी दक्षिणी सीमा तक।
- दक्षिण :— ग्राम कुसमेली अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर खापाभाट की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम कुकड़ाजगत के ग्राम टोला को सामिल करते हुए ग्राम खजरी पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।
- पश्चिम :— ग्राम खजरी की अंतिम पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम खजरी की अंतिम सीमा होते हुए झण्डा की पश्चिम उत्तरी अंतिम सीमा तक।

**वार्ड क्र. 10 सिद्धी विनायक वार्ड**

- उत्तर :— ग्राम कुकडा स्थित राधिकाचरण पाण्डे द्वारा विकसित कालोनी के मार्ग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम खापाभाट की उत्तरी सीमा होते हुए ग्राम लहगढ़ुआ ओर कुसमैली के पास अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।
- पूर्व :— ग्राम खापाभाट की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा से होकर पुनः दक्षिण की ओर ग्राम कुसमैली और खापाभाट की अंतिम सीमा होते हुए दक्षिण में ग्राम खापाभाट की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।
- दक्षिण :— ग्राम खापाभाट की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम खापाभाट की दक्षिणी अंतिम सीमा होते हुए ग्राम कुकड़ा ओर छिन्दवाड़ा नगर की सीमा के छोर तक।
- पश्चिम :— ग्राम कुकड़ा ओर छिन्दवाड़ा की सीमा के छोर से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर गोविंद के मकान से होते हुए दर्शन डेहरिया के मकान से राधिकाचरण पांडे द्वारा विकसित कालोनी के मार्ग तक।

**वार्ड क्र. 11 स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड**

- उत्तर :— इंदिरा नगर स्थित वसीम खान के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर जीजी बाई स्कूल के पास स्थित रोड तक।
- पूर्व :— जीजी बाई स्कूल के पास स्थित रोड से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर मोरेश्वर हजारे के मकान के पास स्थित रोड से पुनः पश्चिम की ओर शंकर मंदिर के सामने रोड तक पुनः दक्षिण की ओर सुरेश मोखलगाय के मकान के सामने रोड से होते हुए सेंगर बाड़े को शामिल करते हुए रामबाग स्थित गुरुद्वारा तिराहे तक।
- दक्षिण :— रामबाग स्थित गुरुद्वारा तिराहे से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर रामबाग मार्ग होते हुए रामकिशन पहाड़े के मकान तक।
- पश्चिम :— रामबाग रामकिशन पहाड़े के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर शशिकांत परतेती के मकान तक पुनः पूर्व की ओर स्कन्द माता मंदिर के पास स्थित रोड पुनः उत्तर की ओर इंदिरानगर मार्ग होते हुए वर्णवाल का मकान होकर इंदिरा नगर की अंतिम छोर पर स्थित वसीम खान के मकान तक।

**वार्ड क्र. 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड**

- उत्तर :— वार्ड क्र. 12 एवं खापाभाट ग्राम की अंतिम दक्षिण सीमा से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर धरम टेकड़ी के नीचे खापा भाट की दक्षिणी सीमा होते हुए कन्या परिसर तक।
- पूर्व :— कन्या परिसर से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर गणेश कालोनी को प्रथक करते हुए जे. पी.सारा भाई के मकान से पुनः पूर्व की ओर गणेश कालोनी मार्ग होते हुए नरसिंहपुर

रोड पुलिस चौकी के सामने से पुनः दक्षिण की ओर नरसिंहपुर मुख्य मार्ग होते हुए पुराना नरसिंहपुर नाका चौक तक।

**दक्षिण :—** पुराना नरसिंहपुर नाका चौक से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर कालेज रोड से बैक कालोनी मार्ग होते हुए अरुण चौहान के मकान तक।

**पश्चिम :—** अरुण चौहान के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर मंदिर के सामने मार्ग तक पुनः पूर्व की ओर मोरेश्वर हजारे के मकान के पास रोड तक पुनः उत्तर की ओर जीजा बाई स्कूल मार्ग तक पुनः पश्चिम की ओर वार्ड क्र. 12 की सीमा तक पुनः उत्तर की ओर खापाभाट ग्राम की अंतिम दक्षिणी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 13 जगन्नाथ वार्ड

**उत्तर :—** कालेज रोड पर कृष्ण मंदिर के पास स्थित चौराहे से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर नरसिंहपुर रोड स्थित प्रकाश गुप्ता की होटल तक

**पूर्व :—** नरसिंहपुर रोड स्थित प्रकाश गुप्ता के होटल से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर नरसिंहपुर रोड स्थित मनीष राजपूत के मकान तक

**दक्षिण :—** नरसिंहपुर रोड स्थित मनीष राजपूत के मकान से प्रारम्भ होकर डी नेमा गली से पश्चिम की ओर अनिल गुप्ता के मकान तक सत्संग भवन के सामने तक।

**पश्चिम :—** सत्संग भवन के सामने स्थित अनिल गुप्ता के मकान के कोने से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर क्षत्रिय भवन के सामने से विल्लू आराम्भीन तक पुनः पूर्व की ओर रामबाग मार्ग होते हुए गुरुद्वारा तिराहे से पुनः उत्तर की ओर कालेज रोड कृष्ण मंदिर तक।

#### वार्ड क्र. 14 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर :—** कालेज रोड रेल्वे कासिंग के पास स्थित यादव किराना से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर श्रीवास्तव कालोनी जाने वाले मार्ग से होते हुए राजेश चौरासिया के मकान तक

**पूर्व :—** राजेश चौरासिया के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर लालबाग रोड स्थित कुदन मण्डराह के मकान तक वहाँ से लालबाग मार्ग होते हुए पुनः पश्चिम की ओर लालबाग रेल्वे लाइन होते हुए ओवर ब्रिज रेल्वे कासिंग तक

**दक्षिण :—** ओवर ब्रिज रेल्वे क्रासिंग से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर सिवनी मार्ग होते हुए राजपूत पेट्रोल पम्प चौक तक

**पश्चिम :—** सिवनी रोड स्थित राजपूत पेट्रोल पम्प चौक से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर कालेज रोड होते हुए लालबाग चौक से कालेज रोड रेल्वे कासिंग तक।

#### वार्ड क्र. 15 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर :-** खापा भाट स्थित धरम टेकडी के नीचे पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर सम्पूर्ण गणेश कालोनी को समिलित करते हुए पूर्व की ओर खापाभाट कुसमैली की सीमा के पूर्वी उत्तरी संगम सीमा तक
- पूर्व :-** खापाभाट कुसमैली की सीमा के पूर्वी उत्तर की संगम सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर कुसमैली की पश्चिमी सीमा होते हुए प्राण मोती कुसमैली की सीमा संगम स्थित दक्षिणी पश्चिमी मिलन स्थल तक
- दक्षिण:-** नगर छिन्दवाडा की अंतिम सीमा सिवनी प्राण मोती की पुलिया से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर सुरेन्द्र जैन के घर के पास स्थित नाका पुलिया से पुनः दक्षिण की ओर नाका होते हुए गांधी गंज के पीछे विशाल कम्पाउण्ड के पास नाली पुलिया से पुनः पश्चिम की ओर गांधी गंज के पीछे के मार्ग से होते हुए नरसिंहपुर रोड स्थित चिटनवीस गंज पोस्ट ऑफिस के पास नीलकंठ साहू के मकान तक
- पश्चिम:-** नरसिंहपुर रोड स्थित चिटनवीस गंज फारेस्ट ऑफिस के पास नीलकंठ साहू के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर नरसिंहपुर मार्ग होते हुए धरमटेकडी पुलिस चौकी से पुनः पश्चिम की ओर गणेश कालोनी रोड होते हुए गणेश कालोनी को समिलित कर पुनः उत्तर की ओर खापाभाट स्थित धरमटेकडी के नीचे पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 16 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर :-** ग्राम अजनिया की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम अजनिया की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा तक।
- पूर्व :-** ग्राम अजनिया की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम अजनिया एवं कबाडिया की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम कबाडिया की दक्षिणी पूर्वी सीमा सिवनी रोड तक।
- दक्षिण :-** ग्राम कबाडिया की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर सिवनी रोड होते हुए शक्कर फैक्ट्री पुनः उत्तर की ओर पहाड़ी पर स्थित संपूर्ण आबादी को पृथक करते हुए पुनः दक्षिण की ओर फटाका गोदाम सिवनी रोड तक पुनः उत्तर की ओर नाला एवं नाला होते हुए समस्त आबादी क्षेत्र को पृथक रखते हुए चौहारी नाला सिवनी रोड तक।
- पश्चिम :-** सिवनी रोड स्थित चौहारी नाला से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम सिवनी प्राणमोती ग्राम खापाभाट ग्राम कुसमैली की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम अजनिया की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

#### वार्ड क्र. 17 संतोषी माता मंदिर वार्ड

**उत्तर :-** लालबाग क्रासिंग के पास स्थित बिल्लू आरामशीन के सामने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सीमेन्ट रोड होते हुए डी.नेमा की गली से नरसिंहपुर मार्ग तक पुनः दक्षिण की ओर चिटनवीस गंज पोस्ट आफिस की गली से पुनः पूर्व की ओर गांधीगंज के पीछे से नाला—नाला होते हुए समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए सिवनी रोड स्थित पाटनी धर्मशाला तक।

**पूर्व :-** सिवनी रोड स्थित पाटनी धरम कांटा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर सिवनी मार्ग तक।

**दक्षिण :-** सिवनी मार्ग से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर दि.वनी मार्ग होते हुए चारफाटक रेल्वे क्रॉसिंग तक।

**पश्चिम :-** सिवनी रोड चार फाटक रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रेल्वे लाइन होते हुए लालबाग रेल्वे क्रॉसिंग से पुनः पूर्व की ओर सोमेश किराना स्टोर तक।

#### वार्ड नं. 18 राजेन्द्र नगर वार्ड

**उत्तर :-** हिन्दुस्तान टेन्ट हाउस के सामने स्थित रेल्वे लाइन से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर रेल्वे लाइन होते हुए पिपरमेंट फैक्ट्री के समीप रेल्वे फाटक से पुनः उत्तर की ओर वेयर हाउस के पीछे पुनः पूर्व की ओर वेयर हाउस के पीछे की झोपड़ पट्टी को सम्मिलित करते हुए पुनः NIIT टेकड़ी के समीप स्थित न.पा. की बोरिंग के समीप स्थित नगरपालिका की अतिंम उत्तरी पूर्वी सिमांत तक।

**पूर्व :-** NIIT टेकड़ी के समीप स्थित न.पा. बोरिंग के समीप स्थित नगर की अतिंम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नगर की अतिंम सीमा होते हुए समस्त आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए चॉद रोड स्थित पुलिया तक।

**दक्षिण :-** चॉद स्थित पुलिया से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर शक्कर मील के पीछे की सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पापड़ फैक्ट्री के सामने कृषक कोल्ड स्टोर तक।

**पश्चिम :-** कृषक कोल्ड स्टोर के सामने जूस फैक्ट्री से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर सुकलूढाना के भीतरी मार्ग होते हुए महेश यादव के मकान से पुनः पूर्व की ओर अम्बेडकर पार्क के सामने होते हुए मदन यादव के मकान तक वहा से पुनः उत्तर की ओर बसोड़ी मोहल्ला क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नए माल धक्का मार्ग से छगन के सामने से हिन्दुस्तान टेन्ट हाउस तक।

#### वार्ड क्र. 19 पातालेश्वर वार्ड

**उत्तर :-** सिवनी रोड पर रेल्वे चार फाटक के पास रेल्वे को जाने वाले मार्ग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर छिंदवाड़ा सिवनी रोड होते हुए पुराने लोकोशेड वाली रोड तक।

**पूर्व :-** पुराने माल धक्का वाली रोड से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन होते हुए लक्ष्मी बाई आठनेकर के मकान तक।

**दक्षिण :-** लक्ष्मी बाई आठनेकर के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर पातालेश्वर मार्ग शमशान घाट पुलिया नाले तक तथा दिलीप : दव के मकान से पुनः पूर्व की ओर दुर्गा मंदिर के पीछे विट्ठलराव चरपे के मकान से पुनः पश्चिम की ओर सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए शमशान घाट पुलिया तक।

**पश्चिम :-** शमशान घाट पुलिया नाला से प्रारम्भ होकर उत्तार की ओर मोक्ष धाम मार्ग से गुप्ता स्टील फर्नीचर से होते हुए पाण्डे के मकान के सामने से पुनः पूर्व की ओर त्रिलाकी नगर भीतरी मार्ग से होते हुए सातपुते सर के मकान से पुनः उत्तर की ओर रेल्वे स्टेशन मार्ग से चार फाटक रेल्वे क्रांसिंग तक।

#### वार्ड क्र. 20 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

**उत्तर :-** शंकर गढ़ेवाल के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर माल धक्का तक।

**पूर्व :-** माल धक्का से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर रेल्वे लाइन होते हुए सोनपुर रोड पर कायस्थ समाज की भूमि के मिलन स्थल पर।

**दक्षिण :-** सोनपुर रोड पर कायस्थ भूमि के मिलन स्थल से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर गोदाम होते हुए दुर्गा मंदिर के पास विट्ठलराव चरपे के मकान तक।

**पश्चिम :-** दुर्गा मंदिर के पास विट्ठलराव चरपे के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर शंकर गढ़ेवाल के मकान तक।

#### वार्ड क्र. 21 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर :-** हनुमान मंदिर के सामने किराना दुकान से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पापड़ फैकट्री को शामिल करते हुए शक्कर मिल के पीछे की टेकड़ी और समस्त आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए नगर की अंतिम सीमा तक।

**पूर्व :-** नगर की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर बोहता मार्ग पर नगर की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण :-** बोहता मार्ग स्थित नगर की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए सोनपुर रोड पर नया माल धक्का क्रासिंग तक।

**पश्चिम :-** सोनपुर रोड नया माल धक्का क्रासिंग से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर नया माल धक्का रोड होते हुए पुनः पूर्व की ओर मदन यादव के मकान से पुनः उत्तर की ओर अम्बेडकर पार्क के समीप से होते हुए हनुमान मंदिर के सामने किराना दुकान तक।

#### वार्ड क्र. 22 रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर :-** सिवनी रोड स्थित आदिवासी आरामशीन के सामने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए शक्कर फैकट्री तक पुनः उत्तर की ओर कबाड़िया की पहाड़ी के संपूर्ण

आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए सिवनी रोड तक एवं पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए ग्राम सोनाखार की उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा तक।

**पूर्व :—** ग्राम सोनाखार की अंतिम उत्तरी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम सोनाखार की दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा तक।

**दक्षिण :—** ग्राम सोनाखार की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम सोनाखार और ग्राम इमलियाबोहता की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम इमलियाबोहता की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :—** ग्राम इमलिया बोहता की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर इमलियाबोहता की अंतिम सीमा होते हुए रेल्वे लाईन तक पुनः पश्चिमक की ओर रेल्वे लाईन होते हुए वेयर हाउस के पीछे की झोपड़ पट्टी को पृथक करते हुए पुनः रेल्वे लाईन होते हुए उत्तर की ओर सिवनी रोड स्थित आदिवासी आरामशीन तक।

#### वार्ड क्र. 23 संत रविदास वार्ड

**उत्तर :—** हाथी थान सत्ती चौक के पास हजारी लाल चौरसिया के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर मरघट रोड होते हुए मरघट के पास पुलिया तक।

**पूर्व :—** मरघट के पास नाले की पुलिया से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नाले के पास नया बैल बाजार होते हुए कम्पोस्ट भूमि से छिन्दवाड़ा सोनपुर रोड से विवेकानन्द स्कूल को शामिल करते हुए काली पाठा के पास आरामशीन तक।

**दक्षिण :—** कालीपाठा के पास स्थित आरामशीन से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर भीतरी मार्ग से होते हुए ईट भट्टों के बाजू से अयोध्या विश्वकर्मा के मकान एवं आगे जैन मंगल भवन को शामिल करते हुए बिहारी साहू के पीछे से होते हुए ढीमरी मोहल्ला रोड पर बिहारी साहू के मकान के सामने तक।

**पश्चिम :—** बिहारी साहू के मकान से प्रारंभ होकर मालवी पार्क एवं माझी समाज मंदिर को पृथक करते हुए उत्तर की ओर सेन समाज मंदिर के बाजू से होते हुए हाथी थान सत्ती चौक के समीप हजारी लाल चौरसिया के मकान तक।

#### वार्ड क्र. 24 महाराणा प्रताप वार्ड

**उत्तर :—** ग्राम बोरिया की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम बोरिया की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

**पूर्व :—** ग्राम बोरिया की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर ग्राम बोरिया ग्राम सारसवाड़ा ग्राम सोनपुर की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण :—** ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम सोनपुर की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम सोनुपर की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम सोनपुर की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम सोनपुर ग्राम सारसवाड़ा ग्राम बोरिया की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम बोरिया के अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 25 छत्रपति शिवाजी वार्ड

**उत्तर :-** बरारीपुरा कुक्कन चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर राजपाल चौक होते हुए ढीमरी मोहल्ला मालवीय पार्क के पीछे स्थित हनुमान मंदिर तक।

**पूर्व :-** ढीमरी मोहल्ला मालवीय पार्क के पीछे स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर बिहारी साहू के मकान के बाजू एवं पीछे से होते हुए जैन भवन एवं आयोध्या विश्वकर्मा के मकान को पृथक रखते हुए भीतरी मार्ग से ईट भट्टो के सामने से काली पाठा से सोनपुर रोड से सावले वाडी मार्ग होते हुए सावले वाडी का समस्त आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए नगर की पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** वार्ड क्र. 25 की पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम मटकुली की उत्तरी सीमा होते हुए वार्ड क्र. 25 अंतिम दक्षिण पश्चिम सीमा तक।

**पश्चिम :-** वार्ड क्र. 25 की अंतिम दक्षिण पश्चिम सीमा (ग्राम मटकुली की उत्तर सीमा) से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर सरकारी कच्चे रास्ते से होते हुए जयदेव दास के मकान को पृथक करते हुए भुसान वाडी से मातेश्वरी कालोनी के मार्ग से होते हुए बरारीपुरा मार्ग स्थित लालसिंह पटेल के घर के सामने कृष्णा किराना तक।

### वार्ड क्र. 26 संत कबीरदास वार्ड

**उत्तर :-** करबला चौक बाजू स्थित मार्ग में राजेश कुशवाहा के मकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सीमेंट रोड से छोटा तालाब के शांतिनाथ लॉन के कोने स्थित तालाब तक पुनः दक्षिण की ओर दुर्गा चौक तक पुनः उत्तर पूर्व की ओर तिलक मार्केट के समीप सिवनी रोड पुनः पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए चार फाटक स्थित रेल्वे स्टेशन रोड तक।

**पूर्व :-** चारफाटक स्थित रेल्वे स्टेशन मार्ग से प्रांती हुए मार्ग होते हुए त्रिलोकी नगर स्थित सातपुते के मकान के सामने मार्ग तक पुनः दक्षिण की ओर मोक्षधाम मार्ग पर काढ़ी की भूमि तक।

**दक्षिण :-** मोक्षधाम मार्ग पर स्थित काढ़ी की भूमि से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर खिरकापुरा चौक होते हुए गौतम परटवारी के मकान से सुरेन्द्र विश्वकर्मा के मकान तक।

**पश्चिम :-** शक्ति चौक स्थित सुरेन्द्र विश्वकर्मा के मकान के सामने से उत्तर की प्रारंभ होकर नवाब साहक के बाड़े को शामिल करते हुए दुर्गा चौक पुनः पूर्व की ओर राकेश विडियो रॉयल चौक से पुनः उत्तर की ओर करबला चौक रोड पर राजेश कुशवाह के मकान तक।

**वार्ड क्र. 27 श्रीराम मंदिर, बड़ीमाता वार्ड**

- उत्तर :- पहाड़े मेडिकल के सामने स्थित खादी ग्राम उद्योग की दुकान से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर छोटी बाजार मेन रोड पर स्थित विमल पाटनी के मकान के पूर्वी छोर तक।
- पूर्व :- छोटी बाजार मेन रोड पर स्थित विमल पाटनी के मकान से पूर्वी छोर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मेन रोड होते हुए श्रेयांस जैन के मकान से पुनः पूर्व की ओर अयोध्या सोनी के मकान से होकर चौरसिया गली होते हुए रायल चौक गढ़वाल कॉचिंग से होते हुए पुनः दक्षिण की ओर गणेश चौक से दुर्गा चौक तक।
- दक्षिण :- दुर्गा चौक से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पावर हाउस के सामने प्रकाश साहू के मकान होते हुए दत्तात्रय मंदिर से पुनः दक्षिण की ओर विश्वकर्मा के घर से पुनः पश्चिम की ओर सेन समाज के मंदिर तक।
- पश्चिम :- सेन समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर कांति श्रीवास के मकान से संतोष गोखले के मकान से पुनः पूर्व की ओर प्रकाश बागरे के मकान तक पुनः पश्चिम की ओर छापाखाना चौक से पुनः उत्तर की ओर पहाड़े मेडिकल के सामने स्थित खादी ग्रामाद्योग की दुकान तक।

**वार्ड क्र. 28 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड**

- उत्तर :- पुराने बैल बाजार चौक पर स्थित ताहिर के पान ठेले से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर लालबाग चौक पर शिवचरण यादव की होटल तक।
- पूर्व :- लालबाग चौक पर शिवचरण यादव की होटल से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर राजपूत पेट्रोल पंप के बाजू स्थित सिवनी रोड, पुनः सिवनी रोड होते हुये तिलक मार्केट काम्पलेक्स के पूर्वी कोने तक।
- दक्षिण :- तिलक मार्केट काम्पलेक्स के पूर्वी कोने से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर छोटे तालाब रोड होते हुये दुर्गा चौक पुनः उत्तर की ओर अग्रवाल काम्पलेक्स के सामने पुलिया तक पुनः पश्चिम की ओर करबला चौक रोड स्थित राजेश कुशवाहा के घर के सामने तक पुनः दक्षिण की ओर रायल चौक रोड तक स्थित बंशी साहू के घर तक।
- पश्चिम :- उत्तर की ओर रायल चौक स्थित बंशी साहू के मकान से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर हनी मेडिकल होते हुए पुराना बैल बाजार चौक स्थित ताहिर के पान ठेले तक।

**वार्ड क्र. 29 पं. मदन मोहन मालवीय वार्ड**

- उत्तर :- राजपाल चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर पाट्टी कन्या शाला को शामिल करते हुए बुधवारी बाजार चौक तक पुनः दक्षिण की ओर टाटू गुप्ता के मकान से पुनः पूर्व की ओर पहाड़े मेडिकल तक।
- पूर्व :- पहाड़े मेडिकल से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर पुराना छापाखाना चौक तक।

**दक्षिण :-** पुराना छापाखाना चौक से प्रारंभ होकर मनोज चौरसिया से मकान बल्लु कोष्टी के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की ओर श्याम विश्वकर्मा के मकान पुनः पश्चिम की ओर माझी समाज के मंदिर तक।

**पश्चिम :-** माझी समाज के मंदिर से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर कुम्हारी मोहल्ला से होते हुए राजपाल चौक तक।

### वार्ड क्र. 30 रफी अहमद किदवई वार्ड

**उत्तर :-** जिला जेल के सामने से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सिवनी रोड होते हुए पुराना बैल बाजार चौक पर आबकारी वेयर हाउस तक।

**पूर्व :-** पुराना बैल बाजार आबकारी वेयर हाउस से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर अकबरी मस्जिद रोड होते हुए पुराना ताराचंद अखाड़ा से नाइस चौक स्थित शब्दीर बकशी टीचर के मकान तक।

**दक्षिण :-** नाइस चौक स्थित शब्दीर बकशी टीचर के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर राज टॉकीज के सामने से समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए भैयाजी की दरगाह से सी.एस.काम्पलेक्स के पास मुख्य मार्ग तक।

**पश्चिम :-** सी.एस. काम्पलेक्स के पास मुख्य मार्ग से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर सिवनी रोड होते हुए जिला जेल के सामने तक।

### वार्ड क्र. 31 छोटी माता वार्ड

**उत्तर :-** गर्ल्स कालेज के पास स्थित रिसाला मस्जिद से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर राज टॉकीज के सामने से इकरा कॉनवेन्ट तक पुनः उत्तर की ओर बंशीलाल साहू के मकान से पुनः पूर्व की ओर बड़ी मस्जिद से रॉयल चौक तक।

**पूर्व :-** रॉयल चौक से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर चौरसिया गली से मुल्लू पटेल के घर जाने वाली रोड से पुनः उत्तर को बड़ा इमाम बाड़ा रोड संगम तक पुनः दक्षिण की ओर चूना गली स्थित लखन मास्टर के मकान तक।

**दक्षिण :-** चूना गली स्थित लखन मास्टर के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर मेन रोड स्थित शानू मोबाइल से पुनः उत्तर की ओर मेन रोड होते हुए राजकुमार शुक्ला की दुकान से पुनः पश्चिम की ओर मिशन टानीगंज स्कूल को शामिल करते हुए बुधवारी मार्ग पर सुरेश मेडिकल के सामने अमरु यादव की दुकान तक।

**पश्चिम :-** बुधवारी मार्ग पर सुरेश मेडिकल के सामने अमरु यादव की दुकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर मोहबे मार्केट मार्ग से होते हुए गुंजीकर का मकान होकर समस्त आबादी क्षेत्र को शामिल करते हुए पुनः पश्चिम की ओर पशु चिकित्सालय के बाजू से नागपुर मार्ग तक पुनः उत्तर की ओर बस स्टेंड सिवनी मार्ग होते हुए फब्बारा चौक से गर्ल्स कॉलेज के पास स्थित रिसाला मस्जिद तक।

### वार्ड क्र. 32 संत तुकड़ोजी वार्ड

- उत्तर :— पूर्व की ओर पुलिस कोतवाली से प्रारम्भ होकर पश्चि चिकित्सालय के पीछे के मार्ग से होते हुए शरण बंगला को शामिल करते हुए सुरेश मेडिकल मोहबे मार्केट से होते हुए बुधवारी बाजार चौक तक।
- पूर्व :— बुधवारी बाजार चौक से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर पाटनी टॉकीज होते हुए शुक्ला वकील के मकान राजपाल चौक से बरारीपुरा मार्ग से होते हुए समस्त पटेल कालोनी को सम्मिलित करते हुए बरारीपुरा मार्ग पर चर्च कम्पाउड और पटेल कॉलोनी के मध्य के पास नाला पुलिया तक।
- दक्षिण :— चर्च कम्पाउड और पटेल कॉलोनी के मध्य के पास नाला पुलिया से प्रारम्भ होकर नाला होते हुए पोला ग्राउंड के समीप स्थित पेट्रोल पंप के पास नाला तक।
- पश्चिम :— पेट्रोल पंप के पास नाला से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर पोला ग्राउंड मुख्य मार्ग होते हुए पुलिस कोतवाली तक।

### वार्ड क्र. 33 ज्योतिबा फुले वार्ड

- उत्तर :— ई.एल.सी. चौक से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित नाला होते हुए बरारीपुरा रोड तक पुनः उत्तर की आरे बरारीपुरा रोड लालसिंह पटेल के मकान के सामने स्थित कृष्णा किराना तक।
- पूर्व :— बरारीपुरा मार्ग पर लालसिंग पटेल के मकान के सामने स्थित कृष्णा किराना से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मातेश्वरी कालोनी के भीतरी मार्ग से होते हुए भुसान वाडी से जयदेव दास के मकान को शामिल करते हुए सरकारी कच्चे रास्ते से ग्राम मटकुली की उत्तरी सीमा तक।
- दक्षिण :— नगर की अंतिम दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर नाला नाला होते हुए नगर की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।
- पश्चिम :— नगर की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर कोलाढाना माता मंदिर का समस्त आबादी क्षेत्र शामिल करते हुए कोलाढाना मार्ग से चर्च कंपाउण्ड की बाउन्ड्री के साथ-साथ चर्च के सामने नागपूर रोड मुख्य मार्ग से होते हुए ई.एल.सी. चौक तक।

### वार्ड क्र. 34 दुर्गा माता मंदिर वार्ड

- उत्तर :— चंदनगांव स्थित बोदरी नदी पुल से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर, बोदरी नदी होते हुए ग्राम मटकुली की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।
- पूर्व :— ग्राम मटकुली की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर सर्व की ग्राम चन्दनगांव की अंतिम दक्षिणी पूर्व सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्रामचंदन गांव की अंतिम व दक्षिणी पूर्वी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर कुलबहरा नदी होते हुए मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** कुलबहरा नदी स्थित मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर पचमढ़ी ढाना रोड होते हुए यादव के मकान तक पुनः पूर्व की ओर नागपूर रोड तक पुनः उत्तर की ओर नागपूर गेड होते हुए बोदरी नदी पुल तक।

### वार्ड क्र. 35 कुलबेहरा वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम थुनिया भांड की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ग्राम थुनिया भांड तक सर्र एवं ग्राम मटकुली की उत्तरी पश्चिमी सीमा होते हुये ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

**पूर्व :-** ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी उत्तरी सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्राम मटकुली की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर ग्राम मटकुली इमलीखेड़ा एवं ग्राम थुनिया भांड की अंतिम सीमा होते हुए ग्राम थुनिया भांड की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिमी :-** ग्राम थुनियाभाण्ड की अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम थुनियाभांड की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 36 मरतादेव वार्ड

**उत्तर :-** गुरैया देव स्थित ग्राम चंदनगांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर ठाकरेढाना रोड होते हुए पुनः दक्षिण की ओर पचमढ़ी ढाना मार्ग पुनः पूर्व की ओर यादव के भवन तक।

**पूर्व :-** पचमढ़ी ढाना मार्ग स्थित यादव के मकान से आरंभ होकर दक्षिण की ओर पंचायत भवन के सामने के मार्ग से होते हुए चंदनगांव की दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा तक।

**दक्षिण :-** चंदनगांव ग्राम की दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर कुलबहरा नदी होते हुए मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :-** मुन्ना पवार के खेत स्थित अंतिम दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर फिल्टर प्लांट चंदनगांव ढाना रोड होतु हुए गुरैया देव स्थित चंदनगांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्र.37 – चंदन नगर वार्ड

**उत्तर :-** चंदनगांव स्थित अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर भरता देव मार्ग होते हुए नागपूर रोड तक।

**पूर्व :-** नागपूर रोड से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नागपूर रोड स्थित चंद्रकांत पाटनकर की दुकान तक।

**दक्षिण :—** चंद्रकांत पाटनकर की दुकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर बालक प्राथ शाला होते हुए गजानन चौबितकर के खेत के पास भरतादेव रोड होते हुए चंदनगांव की अंतिम पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :—** चंदनगांव की अंतिम दखिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर चंदनगांव की पश्चिमी सीमा होते हुए चंदन गांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 38 समर्थ रामदास वार्ड

**उत्तर :—** ग्राम लोनिया करबल एवं चंदनगांव की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर छिन्दवाड़ा एवं चंदनगांव की पूर्वी सीमा स्थित बोदरी नदी (जज कालोनी के सामने से) नागपुर रोड स्थित पुलिया तक।

**पूर्व :—** नागपुर रोड स्थित पुलिया से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नागपुर रोड होते हुए भरतादेव से फिल्टर प्लांट रोड होते हुए के.के.मिश्रा के मकान के सामने मार्ग स्थित के.मिश्रा के मकान तक।

**दक्षिण :—** भरतादेव फिल्टर प्लांट रोड स्थित के.के.मिश्रा के मकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर बारस्करी मोहल्ला रोड होते हुए गुरैयाढाना एवं चंदनगांव की अंतिम व दक्षिणी पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :—** चंदनगांव की अंतिम दखिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर अंतिम पश्चिमी सीमा होते हुए लोनिया करबल ओर चंदनगांव की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 39 स्वामी विवेकानंद वार्ड

**उत्तर :—** नगर की अंतिम पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर बारस्कर के मकान से पश्चिम उत्तर की ओर सिविल लाइन को शामिल करते हुए पुनः पूर्व की ओर बंगला ई/2 से होते हुए प्रियदर्शिनी पार्क, शुक्ला ग्राउंड जनपद ऑफिस तथा सब्जी मंडी को सम्मिलित करते हुए नागपुर रोड पोस्ट आफिस के सामने स्थित हनुमान मंदिर तक।

**पूर्व :—** नागपुर रोड पोस्ट आफिस के सामने स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नागपुर मार्ग होते हुए पुनः पूर्व की ओर चर्च कंपाउण्ड की बाउन्ड्री के साथ-साथ होते हुए बरारी पुरा मार्ग तक पुनः दक्षिण की ओर बरारीपुरा कोलाढाना मार्गसे डी.डी.सी कॉलेज की बाउन्ड्री तक।

**दक्षिण :—** डी.डी.सी कॉलेज की बाउन्ड्री के पास नगर की अंतिम सीमा बोदरी नाला से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर नाला नाला होते हुए बोदरी नाला पाठा तक।

**पश्चिम :—** बोदरी नाला पाठा नगर की अंतिम दक्षिण पश्चिम सीमा से प्रारंभ होकर नाला होते हुए नगर की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्र. 40 तात्या टोपे वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी सीमा से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर सोनी मोहल्ला होते हुए लोनिया करबल ग्राम के कामठी बिहार कालोनी के पीछे स्थित नाले के कोने वाली पुलिया तक।

**पूर्व :-** ग्राम नोनिया के कामठी बिहार कॉलोनी के पीछे स्थित नाले के कोने से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर नाला होते हुए ग्राम नोनिया करबल की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा तक।

**दक्षिण :-** ग्राम लोनिया करबल की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर ग्राम लोनिया की सीमा तक।

**पश्चिम :-** ग्राम लोनिया की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम लोनिया की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

#### **वार्ड क्र. 41 शहीद मेजर अमित ठेंगे वार्ड**

**उत्तर :-** शक्ति नगर मंदिर के समीप स्थित नगर की अंतिम सीमा नाला से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर शक्ति नगर मेन रोड होते हुए बंशीधाम डी.पी. डेहरिया को सम्मिलित करते हुए जैन मंदिर के पास चौरसिया के मकान होते हुए कलेक्ट्रेट रोड स्थित निगम के मकान से जवाहर शाला जाने वाले मार्ग से विध्यासागर चौक को सम्मिलित करते हुए फव्वारा चौक हिंदी प्रचारिणी पार्क स्थित माखनलाल चतुर्वेदी प्रतिमा तक।

**पूर्व :-** फव्वारा चौक हिंदी प्रचारिणी पार्क स्थित माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग होते हुए इरफान केला मंडी तक।

**दक्षिण :-** इरफान केला मंडी से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पानी टंकी के पीछे वाले मार्ग से जनपद के सामने से होते हुए डी.आई.सी.चोराहा<sup>स्थि</sup> पुनः दक्षिण की ओर सिविल लाईन स्थित बंगला ई/१ को सम्मिलित करते हुए पुनः पश्चिम की ओर देवरे कॉलोनी स्थित लांबा सर के मकान से चौकसे कॉलोनी स्थित नाला पुलिया तक।

**पश्चिम :-** नगर की अंतिम सीमा चौकसे कॉलोनी स्थित नाला पुलिया से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर नाला होते हुए शक्ति नगर मंदिर के समीप स्थित नगर की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा तक।

#### **वार्ड क्र. 42 महावीर वार्ड**

**उत्तर :-** छिंदवाड़ा परासिया मार्ग स्थित फौजी साइकल स्टोर्स से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर परासिया छिंदवाड़ा मार्ग स्थित अम्बेडकर तिराहा होते हुए जेल तिराहा इंदिरा प्रतिमा तक।

**पूर्व :-** जेल तिराहा इंदिरा प्रतिमा से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर फव्वारा चौक स्थित निर्भय ज्वेलर्स की दुकान तक।

**दक्षिण :-** फव्वारा चौक स्थित निर्भय ज्वेलर्स की दुकान से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर विध्यासागर चौक से जवाहर शाला मार्ग से कलेक्ट्रेट मार्ग तक पुनः पूर्व की ओर

नेशनल इलेक्ट्रिक रेफीजरेशन केबाजू से पुनः पश्चिम की ओर जैन मंदिर के पीछे कपाले के मकान तक।

**पश्चिम :—** जैन मंदिर के पीछे कपाले के मकान से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर मधुकर ठेंगे जी के मकान के सामने से होते हुए दरियापुरकर के मकान से पुनः पूर्व की ओर लोमेश जैन के मकान तक पुनः उत्तर की ओर संतोष साहू के मकान से होकर पुनः पूर्व की ओर भोयर के मकान से गुलाबरा मेन रोड होते हुए पुनः उत्तर की ओर परासिया मार्ग स्थित फौजी साइकल स्टोर्स तक।

#### वार्ड क्र. 43 षष्ठी माता मंदिर वार्ड

**उत्तरी :—** गुलाबरा मेन रोड स्थित मोती मस्जिद के सामने स्थित नूरी किराना से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पाण्डे किराना से पुनः उत्तर की ओर पूजा लॉज के पीछे होकर पुनः पूर्व की ओर परासिया मार्ग स्थित मोया नाला पुलिया से नाला—नाला होते हुए मोहन नगर नई आबादी की पुलिया सोनी के मकान तक।

**पूर्व :—** मोहन नगर नई आबादी पुलिया सोनी के मकान से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर सराठे के मकान से पुनः पश्चिम की ओर रमेश सारवान के मकान से होते हुए पुनः दक्षिण की ओर प्रकाश माधवानी के मकान के सामने मार्ग पर लॉ कालेज के सामने से होते हुए आदिवासी छात्रावास तक से पुनः पूर्व की खजरी मार्ग से पुनः दक्षिण की ओर अमित ठेंगे प्रतिमा तक।

**दक्षिण :—** अमित ठेंगे प्रतिमा से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग होते हुए जेल तिराह इंदिरा प्रतिमा तक

**पश्चिम :—** जेल तिराह इंदिरा प्रतिमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर छिन्दवाडा परासिया मार्ग होते हुए सत्कार लॉज कम्पाउंड एवं पंकज टॉकीज क्षेत्र को शामिल करते हुए बर्मन के खेत के सामने स्थित मनीष वैघमुथा के काम्पलेक्स तक पुनः पश्चिम की ओर डी सी देशमुख के मकान तक पुनः उत्तर की ओर गुलाबरा मेन रोड स्थित मोती मस्जिद के सामने स्थित नूर किराना स्टोर्स तक।

#### वार्ड क्र. 44 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड

**उत्तर :—** परासिया रोड स्थित मोया नाला से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर पूजा लॉज के पीछे वाले मार्ग से गुलाबरा मेन रोड स्थित जान मोहम्मद के मकान से होते हुए राय बिलिंग तक।

**पूर्व :—** गुलाबरा मेन रोड स्थित राय बिलिंग से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर दिनेश मालवी के मकान से पुनः पूर्व की ओर अरुण जैन के मकान से पुनः दक्षिण की ओर जितेन्द्र डहरवाल के मकान तक।

**दक्षिण :-** जितेन्द्र डहरवाल के मकान से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर पार्क जाने वाले मार्ग से होते हुए नाला-नाला होते हुए नगर छिंदवाड़ा और लोनिया की अंतिम सीमा तक।

**पश्चिम :-** छिंदवाड़ा नगर और लोनिया की अंतिम सीमा से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर नाले के किनारे किनारे होते हुए छिंदवाड़ा परासिया रोड स्थित मोया नाला तक।

#### वार्ड क्र 45— महर्षि वाल्मीकी वार्ड

**उत्तर :-** ग्राम लोनिया करबल की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित रेल्वे मार्ग से प्रारंभ होकर पूर्व की ओर चक्कर रोड स्थित लोनिया करबल की अंतिम सीमा रेल्वे क्रॉसिंग तक।

**पूर्व :-** लोनिया करबल की अंतिम उत्तरी सीमा चक्कर रोड रेल्वे क्रॉसिंग से प्रारंभ होकर दक्षिण की ओर परासिया रोड स्थित आई.बी.बगंले तक पुनः पूर्व की ओर पूजा लॉज के समीप स्थित नाले की पुलिया से पुनः दक्षिण की ओर कामठी बिहार कालोनी के पीछे स्थित नाले के कोने पर स्थित पुलिया तक।

**दक्षिण :-** कामठी बिहार कालोनी के पीछे स्थित नाले के कोने की पुलिया से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर सोनी मोहल्ला के सामने से माली मोहल्ला होते हुए लोनिया करबल ग्राम की परतला ग्राम स्थित अंतिम सीमा तक।

**पश्चिम :-** लोनिया करबल की परतला स्थित अंतिम सीमा से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर ग्राम लोनिया की अंतिम सीमा होते हुए लोनिया ग्राम की अंतिम पश्चिमी उत्तरी सीमा स्थित रेल्वे मार्ग तक।

#### वार्ड क्र. 46 संत झुलेलाल वार्ड

**उत्तर :-** परासिया रोड स्थित पोल फैक्ट्री से प्रारम्भ होकर पूर्व की ओर सर्किट हाउस रोड होते हुए टी बी सेनेटोरियम के पास स्थित रेल्वे क्रासिंग तक।

**पूर्व :-** एस.ए.एफ. रेल्वे क्रॉसिंग होते हुए टी बी सेनेटोरियम रेल्वे क्रासिंग से प्रारम्भ होकर दक्षिण की ओर खजरी मार्ग होते हुए मानसरोवर काम्पलेक्स के पीछे स्थित ट्रांसफार्मर के पास तक।

**दक्षिण :-** मानसरोवर कॉम्पलेक्स के पीछे स्थित ट्रांसफार्मर के पास से प्रारम्भ होकर पश्चिम की ओर कर्मचारी संघ काम्पलेक्स स्थित घई की टाल तक।

**पश्चिम :-** कर्मचारी संघ काम्पलेक्स स्थित घई की टाल से प्रारम्भ होकर उत्तर की ओर भूमि विकास बैंक को शामिल करते हुए लॉ कॉलेज मार्ग से अशोक माधवानी के मकान तक पुनः पूर्व की ओर मुकेश सारवान के मकान से सुरेश लोट के मकान तक पुनः उत्तर की ओर सीमेंट रोड होते हुए मोहन नगर नई आबादी पुलिया से पुनः पश्चिम की ओर नाला-नाला होते हुए परासिया मार्ग स्थित मोया नाला पुलिया तक पुनः उत्तर की ओर परासिया मार्ग होते हुए पोल फैक्ट्री तक।

#### वार्ड क्र. 47— पं.माखनलाल चतुर्वेदी वार्ड

करबल ग्राम की सीमा तक पुनः दक्षिण की ओर पोआमा ग्राम की अंतिम पूर्वी सीमा होते हुए पोआमा ग्राम की अंतिम दक्षिण पूर्वी सीमा तक।

**दक्षिण :—** ग्राम पोआमा की अंतिम पूर्वी दक्षिणी सीमा से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर पोआमा ग्राम की अंतिम सीमा होते हुए पोआमा ग्राम की अंतिम दक्षिण पश्चिमी सीमा तक।

**पश्चिम :—** पोआमा ग्राम की अंतिम दक्षिण पश्चिमी से प्रारंभ होकर ग्राम पोआमा की पश्चिमी सीमा होते हुए पोआमा ग्राम की अंतिम उत्तरी पश्चिमी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक खाण्डेकर, आयुक्त।

जबलपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्रमांक 1534-A-परिसीमन-छिन्दवाड़ा-2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक . . . परिसीमन, छिन्दवाड़ा 2014, दिनांक 16 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यज़ाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दीपक खाण्डेकर, आयुक्त।

No. 153-4-A-Sa.- Parisiman, Chhindwara-2014.—In exercise to the powers vested under Notification No. 3-518-XVIII-3-2014 dated 24<sup>th</sup> February 2004 of the Urban Administration and Development Department of Govt. of Madhya Pradesh, I, Deepak Khandekar, Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur hereby determine the extent of wards of Municipal Corporation Chhindwara under the provisions of Section 10 (1) of the M.P. Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) as per Schedule given below:—

#### Statement showing population information of Municipal Corporation Chhindwara

Name of urban local body (1)	Population (As per census 2011) (2)	No. of wards determined (3)	Average Population of a ward (4)	Population			Remark (8)
				Total Population (5)	Scheduled Cast (6)	Scheduled Tribe (7)	
Municipal Corporation Chhindwara	215843	48	4497	215843	28917	28627	As provided by District planning and statistics officer

## Schedule

Ward no.	Ward name	Total Population	Scheduled Cast	Scheduled Tribe
1	DR. RADHAKRISHNAN WARD	4487	651	1395
2	GAYATRI WARD	4386	765	671
3	VEER SAVARKAR WARD	4657	549	1882
4	PRITHVIRAJ CHAUHAN WARD	4385	318	571
5	BADAL BHOI WARD	4522	564	676
6	LOKMANYA BAL GANGADHAR TILAK WARD	4081	559	757
7	LAL BAHADUR SHASTRI WARD	4684	796	323
8	SHAHID BHAGAT SINGH WARD	4066	236	188
9	MAHARANI LAKSHMI BAI WARD	3908	736	1973
10	SIDDHIVINAYAK WARD	3858	696	1582
11	SWAMI DAYANAND SARASWATI WARD	3948	1022	375
12	SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD	3827	235	825
13	JAGANNATH WARD	4240	814	420
14	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD	4773	772	483
15	NETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE WARD	4545	177	460
16	MAHATAMA GANDHI WARD	4774	1045	1812
17	SANTOSHI MATA MANDIR WARD	4706	270	176
18	RAJENDRA NAGAR WARD	4401	1288	511
19	PATALESHWAR WARD	4421	638	535
20	PANDIT DINDAYAL UPADHYAYWARD	4609	738	576
21	DR. B.R. AMBEDKAR WARD	4163	654	298
22	RANI DURGAWATI WARD	5129	1201	1429
23	SANT RAVIDAS WARD	4107	1823	107
24	MAHARANA PRATAP WARD	4852	246	698
25	CHHATRAPATI SHIVAJI WARD	4510	324	237
26	SANT KABIRDAS WARD	4087	208	188
27	SHIRAM MANDIR BADIMATA WARD	4633	31	46
28	DR. SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD	4370	51	57
29	PT. MADAN MOHAN MALVIYA WARD	5135	428	78
30	RAFI AHAMAD KIDWAI WARD	3962	45	114
31	CHHOTI MATA WARD	4705	86	39
32	SANT TUKDOJI WARD	4240	205	116
33	JYOTIBA FULE WARD	4505	267	707
34	DURGA MATA MANDIR WARD	4104	646	447
35	KULBAHARA WARD	4832	347	884
36	BHARTADEV WARD	4341	661	443
37	CHANDANNAGAR WARD	4177	657	649
38	SAMARTH RAMDAS WARD	4274	694	377
39	SWAMI VIVEKANAND WARD	5131	423	574
40	TATYA TOPE WARD	4838	755	279
41	SHAHID MEJOR AMIT THENGE WARD	4736	508	275
42	MAHAVEER WARD	4622	583	204
43	SHASHTI MATA MANDIR WARD	4898	541	233
44	PANDIT JAWAHERLAL NEHRU WARD	4870	591	319
45	MAHARSHI VALMIKI WARD	5076	1136	539
46	Shri JHULELAL WARD	4753	870	688
47	PANDIT MAKHANLAL CHATURVEDI WARD	5075	1256	819
48	PANCHAVATI WARD	4440	811	1592
Total		215843	28917	28627

### BOUNDARIES OF WARDS OF MUNICIPAL CORPORATION CHHINDWARA

#### **WARD NO.1 – DR. RADHAKRISHNAN WARD**

**NORTH**—Starting from North west boundary of Karaboh towards east up to nalah situated on North – West boundary of village Khajri.

**EAST**—Starting from the nalah situated on north – West boundary of village Khajri towards South including Gadri Dhana and Matroo Tola up to North – West boundary of village Khajri and Lonia.

**SOUTH**—Starting from last North – West South boundary of village Khajri and Lonia towards West through the Railway line including the house of Mahesh Paliwal again toward South up to main road, again towards North up to main road again towards North through nalah, Railway line up to last South – West boundary of village Poama, Karaboh & Kundali.

**WEST**—Starting from last South – West boundary of village Poama, Karaboh & Kundali towards North up to last West – North boundary of village Karaboh.

#### **WARD NO.2 – GAYATRI WARD**

**NORTH**—Starting from and Including the whole populated area of friends colony situated at village Khajri towards East up to Shivpuri road covering whole area of friends colony & Shikshak colony.

**EAST**—Starting from Shivpuri road towards South up to T.B. Sanatorium Railway crossing through Chhindwara road Khajri chowk.

**SOUTH**—Starting from T.B. Sanatorium Railway crossing towards West along the railway line up to S.A.F. Railway crossing and towards North up to circuit house again towards West up to inspection bungalow of irrigation department on Parasia road.

**WEST**—Starting from inspection bungalow of irrigation department on Parasia road towards North through the railway line up to S.A.F. Railway crossing again towards West up to the North boundary of Priya Darshani colony again towards North Khajri Nalah again towards West last boundary of village Khajri again towards North the last boundary of friends colony Khajri village.

#### **WARD NO.3 – VEER SAVARKAR WARD**

**NORTH**—Starting from nalah situated on West – North boundary of village Khajri towards east through the last boundary of village Khajri up to last East – North boundary of village Khajri.

**EAST**—Starting from last East boundary of village Khajri towards South up to Shivpuri road situated on last South – East boundary of village Khajri.

**SOUTH**—Starting from Shivpuri road situated on last South – East boundary of village Khajri towards West excluding friends colony & Shikshak colony up to last South – West boundary of Khajri village.

**WEST**—Starting from last South – West boundary of village Khajri towards North up to nalah situated on last West – North boundary of village Khajri.

#### **WARD NO.4 – PRITHVIRAJ CHAUHAN WARD**

**NORTH**—Starting from West – North boundary of village Kukda through the house of Karodi Patel excluding the whole populated area of village Moharli towards East up to the road of the colony developed by Radhika Charan Pandey.

**EAST**—Starting from the road of colony developed by Radhika Charan Pandey towards South up to the house of Darshan Deharia again from house of Govind up to North – South boundary of village Khapabhat.

**SOUTH**—Starting from South – West boundary of village Khapabhat towards West through the last boundary of village Kukda, Shivpuri road up to South – West boundary of Kukda.

**WEST**—Starting from South – West boundary of village Kukda situated on Shivpuri road up to West – North boundary through last boundary of Kukda.

**WARD NO.5 – BADAL BHOI WARD**

**NORTH**—Starting from Khajri chowk towards East through the Chakkar road up to the house of Kunwarlal Tandekar again towards South through the Kukda Railway line the boundary of Khan colony up to Railway line again towards East up to Railway crossing of Bail Bazar.

**EAST**—Starting from Bail Bazar Railway crossing towards South through Kabrastan road up to Untkhana water tank chowk.

**SOUTH**—Starting from Untkhana water tank chowk towards West P.W.D. Sub Division road towards North through the house of Rafiq tailor near transformer again towards West up to the Khajri road through nalah.

**WEST**—Starting from Khajri road nalah through Khajri road up to Khajri chowk after crossing the Railway track.

**WARD NO. 6 – LOKMANYA BAL GANGADHAR TILAK WARD**

**NORTH**—Starting from nalah situated on Khajri road towards East up to nalah through the nalah Shivnagar puliya towards South house of Naseem Khan in front of transformer towards East P.W.D. office tiraha again towards East Untkhana water tank chowk further from Sagarpesha including chowk to again towards East including the house of Rafeeq Bhai contractor through the North – West of Bada talab including the house of Kandere up to Hanuman Mandir situated on Lalbag road.

**EAST**—Starting from Lalbag Hanuman mandir towards South through the Lalbag chowk up to Yatayat thana at Old Bail bazar chowk.

**SOUTH**—Starting from Yatayat thana Old Bail bazar chowk towards West up to Police line gate through main road.

**WEST**—Starting from Police line gate towards North through the road up to Culvert beside Amma hospital on Khajri road.

**WARD NO.7 – LAL BAHADUR SHASTRI WARD**

**NORTH**—Starting from Geeta Ice factory situated on chakkar road towards East through the chakkar road up to North – West boundary of approach road of Dharam Tekadi P.G. college.

**EAST**—Starting from corner the tekadi gehind the P.G. college towards South up to the house of Gaya P. Dube after crossing the second dammar road going towards college.

**SOUTH**—Starting from the house of Gaya P. Dube towards West through the central road of the Shrivastav colony up to the Railway crossing near the house of Yadav on college road and up to the Kukda Railway crossing through Railway line.

**WEST**—Starting from Kukda Railway crossing towards North through the Railway boundary, Bedi colony road up to Geeta Ice factory.

**WARD NO.8 – SHAHID BHAGAT SINGH WARD**

**NORTH**—Starting from the New Bail Bazar crossing towards East up to the college road Railway crossing.

**EAST**—Starting from college road Railway crossing towards South up to the house of Naresh Chauhan near Hanuman mandir college road Lalbag.

**SOUTH**—Starting from the house of Naresh Chauhan through the house of Ramesh Yadav up to Untkhana Sagarpesha chowk.

**WEST**—Starting from Untkhana Sagarpesha chowk towards North up to New Bail Bazar Railway crossing.

**WARD NO. 9 – MAHARANI LAKSHMI BAI WARD**

**NORTH**—Starting from West – North boundary of village Jhanda towards East through the boundary of village Jhanda, Khairy Bhopal, Lahagadua up to last North – East boundary of village Lahagadua.

**EAST**—Starting from last North – East boundary of village Lahagadua towards South up to last West – South boundary of village Kusmaily.

**SOUTH**—Starting from last West – South boundary of village Khajri towards West through the Last boundary of village Khapabhat including Matroo Tola of village Kukda Jagat up to East –South boundary of village Khajri.

**WEST**—Starting from last East –South boundary of village Khajri towards North through Last boundaryof Khajri up to last West – South boundary of village Jhanda.

#### **WARD NO.10 – SIDDHIVINAYAK WARD**

**NORTH**—Starting from road of colony of Radhika Charan Pandey of village Kukda towards East through the boundary of village Khapabhat up to last North – East boundary of village Lahagadua and Kusmaily.

**EAST**—Startinng from last North – East boundary of village Khapabhat towards East again towards South through last boundary of village Kusmaily and Khapabhat up to last East – South boundary of village Khapabhat.

**SOUTH**—Starting from last East – South boundary of village Khapabhat towards West through last South boundary of village Khapabhat up to the end of boundary of village Kukda and city Chhindwara.

**WEST**—Starting from the end of boundary of village Kukda and city Chhindwara towards North through the house of Govind Darshan Deharia up to the road of colony Radhika Charan Pandey.

#### **WARD NO.11 – SWAMI DAYANAND SARASWATI WARD**

**NORTH**—Starting from the house of Vaseem Khan situated at Indira Nagar towards East up to the road near Jeeji Bai School.

**EAST**—Starting from the road situated near Jeeji Bai School towards South up to the road near the hose of Moreshwar Hajare again towards West up to the road in front of Shankar Mandir again towards South through the roadinfront of the house of Suresh Mokhalgay including Sengar Bada up to the Gurudwara tiraha situated at Rambag.

**SOUTH**—Starting from Gurudwara tiraha situated at Rambag towards West through the Rambag road up to the house of Ramkishan Pahade.

**WEST**—Starting from the house of Ramkishan Pahade situated at Rambag towards North up to the house of Shashikant Parteti again towards East road situated near the Skandh Mata Mandir again towards North through the Indira Nagar road house of Varnwal up to the house of Vaseem Khan situated at last point of Indira Nagar.

#### **WARD NO.12 – SARDAR VALLABH BHAI PATEL WARD**

**NORTH**Starting from last South boundary of village Khapabhat and ward 12 towards East through the South boundary of Khapabhat below the Dharam tekadi up to Kanya parisar.

**EAST**—Starting from Kanya Parisar towards South Separating Ganesh colony from the house of J.P. Sarabhai again towards East through the Ganesh colony road from the Narsingpur road Police Chauki again towards South through the Narsingpur main road up to Old Narsingpur naka Chowk.

**SOUTH**—Starting from Old Narsingpur naka chowk towards West through the road college road to bank colony up to the house of Arun Chauhan.

**West**—Starting from the house of Arun Chauhan towards North up to the Road in front of mandir again towards East up to the road near the house of Moreshwar hajare again towards North up to Jeeja Bai school road again towards West the boundary of Ward no. 12 again towards North up to last South boundary of village Khapabhat.

**WARD NO.13 – JAGANNATH WARD**

**NORTH**—Starting from the Krishna Mandir Chauraha on college road towards East up to the hotel of Prakash gupta situated on Narsingpur road.

**EAST**—Starting from the hotel of Prakash gupta situated on Narsingpur road towards South up to the house of Manish Rajput situated on Narsingpur road.

**SOUTH**—Starting from the house of Manish Rajput situated on Narsingpur road through the D Nema gali towards West up to the house of Anil Gupta in front of Satsang Bhawan.

**WEST**—Starting from the corner of house of Anil Gupta situated in front of Satsang bhawan towards North through the Kshatriya Bhawan up to Billu Saw Mill again towards East through the Rambag road up to Gurudwara tiraha again towards North up to college road Krishna Mandir.

**WARD NO.14 – CHANDRASHEKHAR AZAD WARD**

**NORTH**— Starting from the boundary of yadav kirana situated near college road Railway crossing towards east through the shrivastava colony road up to the house of Rajesh chourasia.

**EAST**—Starting from house of rajesh chourasia towards south up to house of kundan mandrah, and through the lalbag road again toward west up to over bridge railway crossing through the lalbag Railway line.

**SOUTH**—Starting from over bridge railway crossing towards west through the seoni road up to Rajput petrol pump chowk.

**WEST**—Starting from Rajput petrol pump chowk towards North through the lalbag chowk college road, up to college road railway crossing.

**WARD NO.15 – ETAJI SUBHASHCHANDRA BOSE WARD**

**NORTH**—Starting from lower west North boundary of Dharam Tekri situated at village khapabhat including whole Ganesh colony towards east up to East north joint boundary of khapabhat and Kusmaily .

**EAST**—Starting from East-North joint boundary of khapabhat &Kusmaily towards south through the weast boundry of kushmaily up to south –west boundary junction of Seoni pran moti and Kusmaily .

**SOUTH**—Strating from the culvert at Seoni pran moti on the last boundry of city chhindwara towards west up to Naka puliya situated near the house of surendra jain agin towards south through the Naka up to Nali puliya near vishal coumpound behind Gandhi ganj agin toward west through the road behind Gandhi ganj up to the house of Neelkanth sahu near Chitnaveesganj post office on Narsingpur road.

**WEST**—Starting from the house of Neelkanth sahu near Chitnaveesh ganj post office on Narsingpur road towards north through the Narsingpur road up to Dharam-Tekdi Police chouki again towards west through the Ganesh Coloney road including the Ganesh Colony again towards North up to the West - Nouth boundary below Dharam -Tekdi Situated at Khapabhat.

**WARD NO.16 –MAHATAMA GANDHI WARD**

**NORTH**—Starting from last west north boundary of village Ajania towrds east up to last north east boundary of village Ajania.

**EAST**—Starting from Last North east boundary of village Ajania towrds south through the last boundary of village Ajania and Kabadia up to seoni road the south east boundary of Kabadia.

**SOUTH**—Starting from last south east boundry of village kabadia towrds west up to shugar factory through seoni road again towrds north excluding the whole populated area over Hill again towrds south up to seoni road Phataka Godown again towrds north up to Nalla and through the Nalla including the whole Populated area up to seoni road chauhari Nalla.

WEST— Starting from the seoni road chauhri Nalla towards north through the last boundry of village Seoni Pranmoti Khapabhat Kushmailly up to last west boundry of village Ajania.

#### **WARD NO.17 – SANTOSHI MATA MANDIR WARD**

NORTH—Starting from the front of Billusawmill situated where Lalbag Railway crossing towards east through c.c. road from the D.nema gali up to Narsingpur road again towards South up to Chitanavees ganj post office again towards east up to nalah behind Gandhi ganj through the nalahincluding the whole Populated area up to the Patni DHaram Kanta situated on Seoni road .

EAST—Starting from Patni Dharam Kanta seoni road towrds south up to seoni road.

SOUTH—Starting from seoni road towrds west through the seoni road up to charphatak railway crossing.

WEST—Starting from the charphatak railway crossing towrds north through railway line from lalbag railway crossing again towrds east up to Somesh Kirana Store.

#### **WARD NO.18 RAJENDRA NAGAR WARD**

NORTH—Starting from the railway line situated in front of Hindustan tent house toward east through the railway line to railway phatak near Piperment factory again towards North through behind the ware house agin toward east including the slum behind ware house again near NIIT Tekri near tube well of Municipal Chhindwara near NIIT Tekadi up to last north east boundry of nagar palika .

EAST—Starting from the last north east boundary ofNagar Palika situated nearNagar Palika tubewell near NIIT Tekadi towards south through the last boundary of town including whole populated area up to culvert on Chand road .

SOUTH—Starng from the culvert on Chand road towards west including the whole populated area behind Sugar Mill up to krishk cold store in front of papad factory.

WEST—Starting of krishak cold store in front of papad factory toward north through inner road of Sukludhana to house of Mahesh yadav again towards east Ambedkar park up to house of Madan yadav again towards north including the area of Basodi mohhalla to new mall dhakka road up to Hindustan tent house.

#### **WARD NO.19 PATALESHWAR WARD**

NORTH—Starting from the road from charfatak on seoni road railway towards esat through the chhindwara seoni road up to the road for old loco- shed.

EAST—Starting from old mal dhakka road toward south along the railway line up to house laxmi bai Athnekar .

SOUTH— Starting from the house of laxmi bai Athnekar towards west up to culvert over nalah an Pataleshwar road and again from the house the dilip yadav towards east the house of Vithhalrao charpe behind the durga temple again towards West including the whole populated area up to Shamshan ghat culvert .

WEST—Starting from the Shamshan ghat culvert towards north through the Mokshdham road Gupta steel factory to house of pande again towrds east through the triloki nagar road house of Satpute sir again towards north through the railway station road up to the char fatak railway crossing .

#### **WARD NO.20 –PANDIT DINDAYAL UPADHYAYWARD**

NORTH—Starting from the house of Shankar Gadewal towards East up to Maal Dhakka.

East—Starting from the Maal Dhakka towards South through the Railway line up to the Junction place of land of Kayasth samaj on Sonpur road.

SOUTH—Starting from the Junction Place of land of kayasth Samaj towards West through the godown up to the house of Vithhalrao Charpe near Durga temple.

WEST—Starting from the house of Vithhalrao Charpe towards North up to house of Shankar Gadewal.

**WARD NO.21 – DR. B.R. AMBEDKAR WARD**

**NORTH**—Starting from the Kirana Shop in front of Hanuman Mandir towards East including Papad Factory and including whole populated area and tekadi behind Sugar Mill up to last boundary of the city.

**EAST**—Starting from the last North boundary of the city towards South on Bohata road up to last South – East boundary of the city.

**SOUTH**—Starting from the last South – East boundary situated on Bohata road towards West including the whole populated area up to New Maal Dhakka Crossing on Sonpur road.

**West**—Starting from New Maal Dhakka crossing on Sonpur road towards North through the New Mall Dhakka road again towards East the house of Madan Yadav again towards North through the near by Ambedkar Park up to the kirana shop in front of Hanuman Mandir.

**WARD NO.22 – RANI DURGAWATI WARD**

**NORTH**—Starting from the Aadiwasi Aara machine situated on Seoni road towards East through Seoni road including the whole populated area of the hill of Kabadia village situated behind Sugar factory up to Seoni road and towards East through the Seoni road up to the last North - East boundary of Sonakhar village .

**EAST**—Starting from the last North – East boundary of village Sonakhar towards South up to the Last South – East boundary of Village Sonakhar.

**SOUTH**—Starting from last South – East boundary of village Sonakhar towards West through the last boundary of Village Sonakhar and Imalia Bohata village up to the last South – West boundary of village Imalia Bohata.

**West**—Starting from the last South – West boundary of village Imalia Bohata towards North through the last boundary of village Imalia Bohata up to Railway line again towards West through the Railway line Separating the slum behind warehouse again through the Railway line towards North up to the Aadiwasi Aara Machine on Seoni Road.

**WARDNO.23 – SANT RAVIDAS WARD**

**NORTH**—Starting from the house of Hajarilal Chaurasia near Hathi ThanSatti Chowk towards East through Marghat road up to culvert near Marghat.

**EAST**—Starting from Culvert over nalah near Marghat towards South near nalah through the New Bail Bazar compost land to Chhindwara Sonpur road including vivekanand school up to Aara machine near Kalipatha.

**SOUTH**—Starting from Aara Machine near KaliPatha towards West through the Inner road beside bricks kilns including the house of Ayodhya vishwakarma and further Jain Mangal Bhavan through the back portion of the house of Bihari Sahu up to the front portion of house of Bihari sahu on Dhimari Mohalla road.

**WEST**—Starting from the house of Bihari sahu separating the Malvi Park and Maajhi Samaj Mandir towards North through the side of Sen Samaj Mandir up to the house of Hajarelal Chaurasia near Hathi Than Satti Chowk.

**WARD NO.24 – MAHARANA PRATAP WARD**

**NORTH**—Starting from the last West – North boundary of village Boria towards East up to the last East – North boundary of Boria.

**EAST**—Starting from the last East – North boundary of village Boria towards South through the last boundary of village Boria, Village Saraswada, Village Sonpur up to the last South – East boundary of Village Sonpur.

**SOUTH**—Starting from the last South – East boundary of Village Sonpur towards West through the last boundary of village Sonpur up to last South –West boundary of village Sonpur.

**West**—Starting from last South –West boundary of village Sonpur towards North through the last boundary of village Sonpur, village Saraswada, village Boria up to last West – North boundary of village Boria.

**WARD NO.25 – CHHATRAPATI SHIVAJI WARD**

**NORTH**—Starting from the Bararipur Kukkan chowk towards East through Rajpal chowk up to Hanuman Mandir behind Dhimari Mohalla Malviya Park.

**EAST**—Starting from Hanuman Mandir behind Dhimari Mohalla Malviya Park towards South through the side and behind the house of Bihar Sahu excluding the Jain bhavan and house of Ayodhya Vishwakarma through the inner road from front portion of bricks kilns to Kalipatha to village Sonpur road to Sawle Wadi road including whole populated area of Sawle Wadi up to East – South boundary of the city.

**SOUTH**—Starting from the East – South boundary of the ward no. 25 towards west via north boundary of village matkuli up to last south west boundary of ward no. 25.

**WEST**—Started from the Last south west boundary (of ward no. 25 north boundary of village matkuli) towards north excluding house of jaidev das vai govt. kachcha rasta via bhusan wadi through matershvari colony road up to krishna kirana store in front of house of Lalsing Patel situated at Bararipura road.

**WARD NO.26 – SANT KABIRDAS WARD**

**NORTH**—Starting from the house of Rajesh Kushwah situated on Karbala Chowk road towards East cement road to the corner of Shantinath Lawn situated near Chhota Talab again towards South up to Durga Chowk again towards North – East Seoni road near Tilak Market again towards East through the Seoni road up to Railway Station road situated at Char Fatak.

**EAST**—Starting from Railway Station road situated at Char Fatak towards South up to the road in front of house of Satpute at Triloki Nagar again towards South up to the land of Kachhi on Mokshadham road.

**SOUTH**—Starting from the land of Kachhi on Mokshadham road towards West through Khirkapura Chowk, the house of Gautam Patwari up to the house of Surendra Vishwakarma.

**WEST**—Starting from the house of Surendra Vishwakarma situated at Satti Chowk towards North including the Nawab Sahab Bada up to the Durga Chowk again towards East Rakesh Video, Royal chowk again towards North up to the house of Rakesh Kushwah situated on Karbala Chowk road.

**WARD NO.27 – SHRIRAM MANDIR BADIMATA WARD**

**NORTH**—Starting from the Shop of Khadigram Udyog in front of Pahade Medical towards East up to the East corner of house of Vimal Patni situated on Chhoti Bazar main road.

**EAST**—Starting from the East corner of house of Vimal Patni situated on Chhoti Bazar main road towards South through the Main road house of Shreyansh Jain again towards East through the house of Ayodhya Soni through Chaurasia Gali Royal Chowk Gadewal Coaching again towards South from Ganesh chowk up to Durga chowk.

**SOUTH**—Starting from Durga chowk towards West through the house of Prakash Sahu in front of Power House Dattatray Mandir again towards South house of Vishwakarma again towards West up to Sen Samaj Mandir.

**WEST**—Starting from Sen Samaj Mandir through the house of Kanti Shrivastava to the house of Santosh Gokhale again towards East up to house of Prakash Bagde again towards West Chhapakhana Chowk again towards North shop of Khadigram Udyog in front of Pahade Medical.

**WARD NO.28 – DR. SHYAMA PRASAD MUKHARJEE WARD**

**NORTH**—Starting from the Panthela of Tahir situated at Old Bail Bazar chowk towards East up to the Hotel of Shivcharan Yadav Situated at Lalbagh chowk.

**EAST**—Starting from Hotel of Shivcharan Yadav situated at Lalbagh chowk towards South Seoni road beside Rajput Petrol Pump again through Seoni road up to East corner of Tilak Market Complex.

**SOUTH**—Starting from East corner of Tilak Market Complex towards South through Chhota Talab road Durga chowk again towards North culvert in front of Agrawal Complex again towards West up to the front portion of house of Rajesh Kushwah situated on Karbala chowk road again towards South up to the House of Banshi Sahu at Royal Chowk.

**WEST**—Starting from the House of Banshi Sahu at Royal Chowk towards North through Honey medical up to the Panthela of Tahir situated at Old Bail Bazar chowk.

#### **WARD NO.29 – PT. MADAN MOHAN MALVIYA WARD**

**NORTH**—Starting from the Rajpal chowk towards East including Patni Kanya Shala up to Budhwari Bazar chowk again towards South house of Tatu Gupta again towards East up to Pahade Medical.

**EAST**—Starting from Pahade Medical towards South up to Purana Chhapakhana chowk.

**SOUTH**—Starting from Purana Chhapakhana chowk the house of Manoj Chaurasia including the house of Bablu Kosthi towards South house of the Shyam Vishwakarma again towards West up to Majhi Samaj Mandir.

**West**—Starting from Majhi Samaj Mandir towards North through Kumhari Mohalla up to Rajpal chowk.

#### **WARD NO.30 – RAFI AHAMAD KIDWAI WARD**

**NORTH**—Starting from the front of District Jail towards East Through the Seoni Road up to Excise warehouse situated on Purana Bail Bazar Chowk.

**EAST**—Starting from Excise warehouse situated on Purana Bail Bazar Chowk towards South through Akabari Masjid road Old Tarachand Akhada up to the House of Shabbir bakshi Teacher situated Nice chowk.

**SOUTH**—Starting from the House of Shabbir bakshi Teacher situated Nice chowk towards West through the front of Raj Talkies including the whole populated area from BhaiyaJi ki Dargah up to Main road near C.S.Complex.

**WEST**—Starting from Main road near C.S. Complex towards North through Seoni road up to District Jail.

#### **WARD NO.31 – CHHOTI MATA WARD**

**NORTH**—Starting from the Risala Masjid near Girls College towards East in front of Raj Talkies to Iqara Convent again towards North the house of Banshilal Sahu again towards East from Badi Masjid up to Royal Chowk.

**EAST**—Starting from Royal Chowk towards South Chaurasia Gali to road for house of Mullu Patel again towards North Imambada road Juncion again towards South Up to the house of Lakhan master Situated at Chuna Gali.

**SOUTH**—Starting from the house of Lakhan master Situated at Chuna Gali towards West Shanu Mobiles Situated on Main road again towards North through the main road the shop of Rajkumar Shukla again towards West including the Mission Taniganj School up to the shop of Amru Yadav in front of Suresh Medical on Budhwari road.

**WEST**—Starting from the shop of Amru Yadav in front of Suresh Medical on Budhwari road towards North through Mohbe Market road the house of Gunjikar including the whole populated area again towards West beside Veterinary Hospital up to Nagpur road again towards North to Bus stand Seoni road Fawvara chowk up to Risala Masjid near Girls College.

#### **WARD NO.32 – SANT TUKDOJI WARD**

**NORTH**—Starting from Police Kotwali towards East through road behind the Veterinary Hospital including the Sharan Bungla through Suresh Medical Mohbe Market up to Budhwari bazar chowk.

**EAST**—Starting from Budhwari bazar chowk towards South through the Patni Talkies the House of Advocate Shukla Rajpal chowk through Bararipura road including Patel colony up to culvert over nalah near middle of Church Compound and Patel Colony.

**SOUTH**—Starting from culvert over nalah near middle of Church Compound and Patel Colony through the nalah up to the nalah near Petrol Pump situated at Pola Ground.

**WEST**—Starting from the nalah near Petrol Pump towards North through Pola ground Main road up to Police Kotwali.

**WARD NO.33 – JYOTIBA FULE WARD**

**NORTH**—Starting from E.L.C. chowk towards East Through the nalah situated behind Petrol Pump up to krishna kirana in front of house of lalsingh patel situated at bararipura road.

**EAST**—Started from krishna kirana store in front of house of lalsingh patel situated at bararipura road towards south via mateshveri colony road via bhusan wadi through to govt. kachcha rasta including house of jaidev das up to last boundary of city.

**SOUTH**—Starting from the last South – East boundary of the city towards West nalah, through nalah up to the last South – West boundary of the city.

**WEST**—Starting from the last South – West boundary of the city towards North including the whole populated area of Koladhana Mata mandir roadto main nagapur road in front of church along the boundary wall of the Church Compound up to E.L.C. chowk.

**WARD NO.34 – DURGA MATA MANDIR WARD**

**NORTH**—Starting from Bodari River Bridge situated at village Chandangaon towards East through the Bodari river up to the last North – West boundary of village Matkuli.

**EAST**—Starting from the last North – West boundary of village Matkuli towards South up to last South – East boundary of village Chandangaon.

**SOUTH**—Starting from last South – East boundary of village Chandangaon towards West through the Kulbahara River up to the last South – West boundary of farm of Munna Pawar.

**WEST**—Starting from the last South – West boundary of farm of Munna Pawar situated at Kulbahara River towards North through the Panchmadi Dhana road house of Yadav again towards East through the Nagpur road again towards North through the Nagpur road up to the Bodari river Bridge.

**WARD NO.35 – KULBAHARA WARD**

**NORTH**—Starting from the last West – North boundary of village Thunia Bhand towards East through the North –West boundary of village Sarra and Village Matkuli up to the last East – North boundary of village Matkuli.

**EAST**—Starting from the last East – North boundary of village Matkuli towards South up to the last East – South boundary of village Matkuli.

**SOUTH**—Starting from the last East – South boundary of village Matkuli towards West through the last boundary of village Matkuli, Imlikheda and village Thunia Bhand up to last South –West boundary of Thunia Bhand.

**WEST**—Starting from the last South –West boundary of Thunia Bhand towards North up to last West – North boundary of village Thunia Bhand.

**WARD NO.36 – BHARTADEV WARD**

**NORTH**—Starting from last North –West boundary of village Chandangaon situated at Guraiya Dev towards East through Thakredhana Road again towards South Panchmadi Dhana road again towards East up to the house of Yadav.

**EAST**—Starting from the house of Yadav situated on Panchmadi dhana road towards South through the road of Panchayat Bhavan up to last South – East boundary of village Chandangaon.

**SOUTH**—Starting from last South – East boundary of village Chandangaon through the Kulbahara riverup to the last South – West boundary situated at the farm of Munna Pawar.

**WEST**—Starting from the last South – West boundary situated at the farm of Munna Pawar towards North through the Filter Plant Chandangaon, dhana road up to the last North – West boundary of Chandangaon situated at Guraiya Dev.

**WARD NO.37 – CHANDANNAGAR WARD**

**NORTH**—Starting from last North – West boundary village Chandangaon towards East through the Bhartadev road up to Nagpur road.

**EAST**—Starting from Nagpur road towards South up to the Shop of Chandrakant Patankar situated on Nagpur road.

**SOUTH**—Starting from the shop of Chandrakant Patankar towards West through Balak Prathamik shalato Bhartadev Road situated near the farm of Gajanand Choubitkar up to last West boundary of village Chandangaon.

**WEST**—Starting from the last West boundary of village Chandangaon towards North through the West boundary of Chandangaon up to last North –West boundary village Chandangaon.

**WARD NO.38 – SAMARTH RAMDAS WARD**

**NORTH**—Starting from the last West – North boundary of Village Lonia Karbal and Chandangaon towards East Bodari River situated at East boundary of Chhindwara and Village Chandangaon (In front of Judge colony) up to Bridge on Nagpur road.

**EAST**—Starting from Bridge on Nagpur road towards South through the Nagpur road Bhartadev up to the house of K.K. Mishra situated at Bhartadev Filter Plant road.

**SOUTH**—Starting from the house of K.K. Mishra situated at Bhartadev Filter Plant road towards West through Baraskari Mohalla road Guraiya Dhana up to Last South – West boundary of village Chandangaon .

**WEST**—Starting from Last South – West boundary of village Chandangaon towards North through the last West boundary of village Lonia karbal up to last North – West boundary of village Chandangaon.

**WARD NO.39 – SWAMI VIVEKANAND WARD**

**NORTH**—Starting from last West boundary of the city towards East the house of Baraskar towards North including the Civil Line again towards East through Bunglow E/2 Priyadarshani Park including Shukla Ground Janpad Office and Sabji Mandi up to the Hanuman Mandir in front of Post Office on Nagpur road.

**EAST**—Starting from the Hanuman Mandir in front of Post Office on Nagpur road towards South through the Nagpur road again towards East along the boundary of Church Compound up to the Bararipura road again towards South from Bararipura, Koladhana road up to the D.D.C. College boundary.

**SOUTH**—Starting from the Bodari nalah the last boundary of the city near the D.D.C. college boundary towards West nalah through the nalah up to Bodari nalah Patha.

**WEST**—Starting from Bodari nalah Patha the last South – West boundary up to last North –West boundary of the city.

**WARD NO.40 – TATYA TOPE WARD**

**NORTH**—Statrting from the last North boundary of village Lonia Karbal towards East through the Soni Mohalla up to the Culvert in the corner of nalah situated behind Kamthi Vihar Colony of village Lonia karbal.

**EAST**—Starting from the Culvert in the corner of nalah situated behind Kamthi Vihar Colony of village Lonia karbal towards South through the nalah up to the last East –South boundary of village Lonia Karbal.

**SOUTH**—Starting from the last East –South boundary of village Lonia Karbal towards West up to the boundary of village Lonia Karbal.

**WEST**—Starting from the South – West boundary of village Lonia karbal towards North up to the Last North – West boundary of village Lonia Karbal.

**WARD NO.41 – SHAHID MEJOR AMIT THENGE WARD**

**NORTH**—Starting from last boundary of the city near Shakti Nagar Mandir towards East through the Shakti Nagar Main road including Banshi Dham D. P. Dehariya house of Chaurasia near Jain Mandir house of Nigam on collectorate road to Vidhay Sagar chowk through Jawaharshala road up to Statue of Makhanlal Chaturvedi situated in the Fawvara chowk Hindi Pracharini

**EAST**— Starting from the Statue of Makhanlal Chaturvedi situated in the Fawvara chowk Hindi Pracharini towards south up to Irfan Kela Mandi.

**SOUTH**—Starting from Irfan kela mandi towards west through road behind pani tanki and through the Janpad to DIC square again towards south including bangla no. E/1 of civil line again toward west the house of Lamba Sir situated at Devere Colony up to culvert over nala at choukse colony.

**WEST**—Starting from the culvert over nalah at choukse colony the last boundary of the city towards north through the nalah up to last west north boundary situated near Shakti Nagar Mandir.

#### **WARD NO.42—MAHAVEER WARD**

**NORTH**—Starting from the fouji cycle store on chhindwara parasia road towards east through the Ambedkar Tiraha on village Parasia chhindwara road up to Jail Tiraha Indira Pratima.

**EAST**—Starting from Jail Tiraha Indira Pratima towards South up to the shop of Nirbhay Jewellers Situated at Fawvara chowk.

**SOUTH**—Starting from the shop of Nirbhay Jewellers Situated at Fawvara chowk towards West Vidhya sagar chowk to Jawahar shala road to collectorate road again towards East beside National Electric refrigeration again towards West up to the house of Kapale Behind Jain Mandir.

**WEST**—Starting from the house of Kapale Behind Jain Mandir towards North through the front of house of Madhukar Thenge Ji the house of Dariyapurkar again towards East up to the house of Lomesh Jain again towards North up to the House of Santosh Sahu again towards East up to the house of Bhoyer through Gulabara Main road again towards North Fouji Cycle Store on Parasia road.

#### **WARD NO.43—SHASHTI MATA MANDIR WARD**

**NORTH**—Starting from the Noori Kirana in front of Moti Masjid on Gulabara Main road towards East padey kirana again towards north through the back of pooja lodge again towards east culvert over Moya nala on parasia road to nala through the nala up to house of Soninear culvert at Mohan Nagar Nai Abadi.

**EAST**—Starting from house of Soni near culvert at Mohan Nagar Nai Abadi towards south house of Sarathe again towards west through the house of Ramesh Sarwan again towards south the road in front of Prakash Madwani through front of Law Collage up to Adiwasi Chhatrawas again towards east Khajri road again towards south up to the statue of Amit Thenge.

**SOUTH**—Starting from the statue of Amit Thenge towards west through the main road up to Jail Tiraha Indira Pratima.

**WEST**—Starting from Jail Tiraha Indira Pratima towards north through chhindwara parasia road including Satkar Lodge Compound and Pankej Talkese area up to Manish Baidhmutha Complex in front of Barman farm again towards west up to the house of D.C.Deshmukh again towards north Noori Kirana in front of Moti Masjid on Gulabara Main road.

#### **WARD NO.44— PANDIT JAWAHERLAL NEHRU WARD**

**NORTH**—Starting from Moya Nala situated on parasia road towards east road behind Pooja Lodge through the house of Jaan Mohammad situated at Gulabara Main Road up to Rai Building.

**EAST**—Starting from Rai building situated at Gulabara main road towards south the house of Dinesh Malvi again towards east house of Arun Jain again towards south up to the house of Jitendra Dehrwal.

**SOUTH**—Starting from the Jitendra Deharwal towards west through the road for Park to nala through the nala up to last boundary of Chhindwara city and Loniya Karabal.

**WEST**—Starting from the last boundary of Chhindwara city and Loniya Karabal towards north through the nala up to Moya nala situated Chhindwara Parasia road.

**WARD NO.45—MAHARSHI VALMIKI WARD**

**NORTH**—Starting from Railway line the last West - North boundary of village Lonia Karabal towards East up to the Railway crossing the last boundary of village Lonia karabal situated on chakkar road.

**EAST**—Starting from the Railway crossing the last boundary of village Lonia karabal situated on chakkar road towards South up to I.B. Bungalow on Parasia road again towards East culvert over nalah near Pooja Lodge again towards South up to the culvert over corner of the nalah behind Kamthi Vihar colony.

**SOUTH**—Starting from the culvert over corner of the nalah behind Kamthi Vihar colony towards West through Soni Mohalla to Mali Mohalla up to the last boundary of village lonia karabal situated at village Partala.

**WEST**—Starting from the last boundary of village lonia karabal situated at village Partala towards North through the last boundary of village lonia karabal up to the Railway line the last West - North boundary of village Lonia Karabal.

**WARD NO.46— Shri JHULELAL WARD**

**NORTH**—Starting from the Pole factory on Parasia road towards East through the Circuit House road up to the S.A.F Railway crossing along the Railway line up to the T.B. SanatoriumRailway crossing.

**EAST**—Starting from the T.B. SanatoriumRailway crossing towards South through Khajri road up to the transformer behind Mansarover Complex.

**SOUTH** Starting from the transformer behind Mansarover Complex towards West up to the Ghai ki Tal situated at Employees Union complex.

**WEST**—Starting from the Ghai ki Tal situated at Employees Union complex towards North including Land Development Bank through law college road the house of Ashok Madhvani again towards East the house of Mukesh Sarvan to house of Suresh Lok again towards North through Cement road up to Mohan nagar Nai aabadi culvert again towards West nalah again through nalah up to Moya Nalah on Parasia road again towards North up to Pole Factory on Parasia road.

**WARD NO.47— PANDIT MAKHANLAL CHATURVEDI WARD**

**NORTH**—Starting from West – North Boundary of village lonia Karabal towards East up to last North – East boundary of village Lonia Karabal.

**EAST**—Starting from the last North – East boundary of village Lonia Karabal towards South up to Railway crossing on chakkar road the last boundary of village lonia Karabal.

**SOUTH**—Starting from the Railway crossing on chakkar road the last boundary of village lonia Karabal towards West through the Railway line up to last West -South boundary of village Lonia Karabal the situated at the house of Anusuya Ukey.

**WEST**—Starting from the last West – South boundary of village Lonia Karabal the situated at the house of Anusuya Ukey towards North up to West – North boundary of village Lonia Karabal.

**WARD NO.48—PANCHAVATI WARD**

**NORTH**—Starting from last North – West boundary of village Poama towards East through the North boundary of Village Poama up to last North –East boundary of village Poama.

**EAST**—Starting from the last North –East boundary of village Poama towards South through the East boundary of village Poama up to Parasia road again towards East through Parasia road again towards North Railway line Again toward East through Railway line up to boundary of village lonia Karabal again towards South through last East boundary of village Poama up to last South – East boundary of village Poama.

**SOUTH**—Starting from the last South – East boundary of village Poama towards West through last boundary of Poama up to last South –West boundary of village Poama.

**WEST**—Starting from the last South –West boundary of village Poama through the West boundary of village Poama up to last North – West boundary of village Poama.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

DEEPAK KHANDEKAR, Commissioner.

## कार्यालय, कलेक्टर, शहरी विकास, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 10 सितम्बर 2014

क्र.—न.पा.वि—घो.—2014—864—69—जिशविअ—न.पा.—प्रकाशन—2014—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4—520—अठारह—3—04—दिनांक 24—02—2014 द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) तथा म.प्र. नगर पालिका (वार्डों का विस्तार) नियम 1994 के नियम 8 के अंतर्गत कलेक्टर विदिशा, नगर पालिका परिषद् विदिशा के वार्डों का परीसीमन नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद् द्वारा अवधारित करता हूँ :—

### अनुसूची

वार्ड क्र. (1)	वार्ड का नाम (2)
01	वेन्नवती वार्ड
02	बीजा मण्डल वार्ड
03	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
04	बालाजी वार्ड
05	महाकवि कालीदास वार्ड
06	महावीर स्वामी वार्ड
07	नाना साहब पेशवा वार्ड
08	रसखान वार्ड
09	छत्रपति शिवाजी वार्ड
10	संत तुलसी वार्ड
11	शृद्धानंद वार्ड
12	मुंशी प्रेमचंद वार्ड
13	चाणक्य वार्ड
14	गांधी वार्ड
15	गुरुनानक वार्ड
16	दुर्गा वार्ड
17	इन्द्रा वार्ड
18	रानी दुर्गावती वार्ड
19	महाराणा प्रताप वार्ड
20	कस्तूरबा वार्ड
21	सरोजनी नायडू वार्ड
22	संत विनोवा वार्ड
23	विवेका नंद वार्ड
24	रामकृष्ण परमहंस वार्ड
25	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
26	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
27	स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड
28	जवाहरलाल नेहरू वार्ड

(1)	(2)
29	चन्द्रगुप्त वार्ड
30	शहीद भगतसिंह वार्ड
31	चंद्रशेखर आजाद वार्ड
32	सम्राट अशोक वार्ड
33	टैगोर वार्ड
34	लालबहादुर शास्त्री वार्ड
35	राजीव नगर वार्ड
36	डॉ. राधा कृष्णन वार्ड
37	टीलाखेड़ी वार्ड
38	बैस वार्ड
39	तमोरिया एवं मिर्जापुर वार्ड

### वार्ड क्रमांक 01 – वैत्रवती वार्ड

- उत्तर** — रायपुरा, नई बस्ती से गुठान होते हुये अशोक नगर मार्ग पर बाटर वर्क्स रोड तक।
- पूर्व** — सुलभ काम्पलेक्स वार्ड नं. 17।
- दक्षिण** — बैस दरवाजा रोड के सामने वाले महलघांट रोड से ईदगाह—शमशाबाद रोड क्रास कर बैस दरबाजा रोड का उत्तरी भाग लेते हुए, बैस दरबाजा लेट्रिंग के सामने गली नंबर 2 में कमलसिंह के मकान से हीरालाल भोई, कन्हैया आटा चक्की, कुशवाह आटा चक्की को सम्मिलित कर प्रेमबाई के मकान शारदा बैण्ड वालों का मकान को भी सम्मिलित करते हुए रायपुरा स्कूल तक व वहां से रोड क्रासकर ईदगाह चौराहा तक।
- पश्चिम** — ईदगाह चौराहा के पास दक्षिणी भाग को लेते हुए मुखर्जी नगर शामिल कर जिला परिवहन कार्यालय, रायपुरा नई बस्ती तक।

### वार्ड क्रमांक 02 – बीजा मण्डल वार्ड

- उत्तर** — बाटर वर्क्स रोड क्रासिंग पर भोई के मकान से बैस दरवाजा शौचालय के सामने मस्जिद तक।
- पूर्व** — बैस दरवाजा शौचालय की सामने की मस्जिद से जनता स्कूल लेते हुए विजय मंदिर को अन्दर करते हुए इमामबाड़ा तक। फिर वहां से रोड क्रासकर हवेली को छोड़कर हवेली की पीछे वाली गली सिंह के मकान को लेते हुए बैनी प्रसाद यादव के मकान के सामने के बद्रीप्रसाद के मकान को सम्मिलित करते हुए अशोक पंडित के मकान तक।
- दक्षिण** — महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर अशोक पंडित के मकान तक से रामचरण लाल के मकान को सम्मिलित कर अशोक बेतूले के मकान को लेते हुए रोड क्रास कर ट्रान्सफार्मर व केशव मोरे के मकान से हेमराज के मकान तक।
- पश्चिम** — राजेन्द्र मार्ग पर हेमराज के मकान से भुगंतीलाल के मकान को सम्मिलितकर गिरधारी व मनीष भवन (आर.एन. सक्सेना) के मकान को सम्मिलित कर फिर रोड क्रास कर उमाशंकर तिवारी के मकान शारदा मंदिर सम्मिलित कर रोड क्रास कर बक्सरिया रोड पर रमेश साहू की आटा चक्की लेते हुए झीलवाला कुआ क्षेत्र सम्मिलित कर बाटर वर्क्स रोड पर भोई के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 03 – महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

- उत्तर** — बालाजी मंदिर के सामने कक्कू महाराज के मकान से दीक्षित के मकान को लेते हुए सत्यनारायण के मंदिर को छोड़कर गली में समाधान भवन को लेकर नारले भवन, गंगाजली भवन को लेते हुए रोड क्रास कर नगरपालिका दुकानों को लेते हुए महाराष्ट्र भवन तक।

- पूर्व** — महाराष्ट्र भवन से होमगार्ड आफिस चौपडा स्कूल को शामिल करते हुए व्यायाम शाला होते हुए मनोज भवन तक।
- दक्षिण** — मनोज भवन से पुष्पराज भवन को लेते हुए कन्या शाला के सामने रोड क्रासकर बी.डी.डोली के मकान तक।
- पश्चिम** — बी.डी.डोली के मकान से चलकर बी.डी.सोनी के मकान को सम्मिलित करते हुए बालाजी के पास मजार के क्षेत्र को सम्मिलित कर रैकवार मास्टर के भवन को लेते हुए छक्कू महाराज के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 04 – बालाजी वार्ड

- उत्तर** — बैस दरबाजा रामनारायण धन्नालाल के मकान से शशि मोहन आचार्य के मकान को सम्मिलित कर माता बाली गली को समाहित कर चन्द्रभान के मकान, ग्यारसीलाल यादव के मकान को सम्मिलित कर याकूब खां के मकान तक।
- पूर्व** — याकूब खां के मकान से छोटेलाला परसराम अलौआ वाले बाबा को सम्मिलित कर विजय मंदिर मार्ग को क्रास कर हरीशंकर के मकान गिरदावर, सम्पूर्ण बालाजी मंदिर का क्षेत्र समाहित कर कार्तिक चौक पर दक्षिण के मकान को बाहर करते हुए नंदकिशोर शास्त्री के मकान तक।
- दक्षिण** — बालाजी मंदिर से चलकर कार्तिक चौक होते हुए सत्यनारायण मंदिर लेते हुए नंदकिशोर शास्त्री के मकान तक।
- पश्चिम** — नंदकिशोर शास्त्री के मकान से ब्यूटी पार्लर भवन को अन्दर करते हुए सत्यनारायण मंदिर वाली गली में कार्तिक चौक होते हुए झांई और साजन सिंधी से बीजा मंदिर मार्ग क्रास करते हुए गोविन्द प्रसाद शास्त्री के मकान को लेते हुए रामनारायण धन्नालाल के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 05 – महाकवि कालीदास वार्ड

- उत्तर** — महलघांट रपटा बैस दरबाजा तिराहे पर स्थित न.पा. सार्वजनिक लेट्रिंग से किले की सपील के नीचे बनी बस्ती को सम्मिलित करते हुए कन्या तोपपुरा शाला के पास बनी नगरपालिका हरीजन क्वाटर तक का दक्षिणी भाग।
- पूर्व** — विजय मंदिर मार्ग खुशीलाल के मकान से किले की सपील को अन्दर करते हुए कालीदास पथ पर भगो पन्ना हरीजन के मकान तक का पश्चिमी भाग।
- दक्षिण** — विजय मंदिर मार्ग के मकान नं. 70 से शुरू होकर ओसबाल मंदिर को अन्दर करते हुए कायरथपुरा गली, मोहन बाबू श्रीवास्तव, शिवदत्त द्विवेदी, पुरानी रेंज आफिस को सम्मिलित करते हुए खुशीलाल के मकान तक।
- पश्चिम** — बैस दरबाजा के पूर्वी भाग, न.पा.सार्वजनिक लेट्रिंग से काजी के ईद मोहम्मद के मकान से शम्भू सिंह की हवेली को अन्दर करते हुए माता मंदिर को सम्मिलित करते हुए हरीनारायण शर्मा के मकान से बैस दरबाजा मार्ग पर हरीशंकर व्यास के मकान को अन्दर करते हुए ठाकुर प्रसाद फून्दी लाल के मकान तक का पूर्वी भाग।

### वार्ड क्रमांक 06 – महाकवि स्वामी वार्ड

- उत्तर** — विजय मंदिर मार्ग अयोध्याप्रसाद जी के मकान से छुटकन लाल पार्वती शंकर के मकान तक।
- पूर्व** — रसखान मार्ग के म.नं. 1 बस्सा खां पठान के मकान से मुगलटोला मरिजद स्वामी महार पथ पर दुर्ग शाला अन्दर करते हुए अयोध्याप्रसाद के मकान तक।
- दक्षिण** — लक्ष्मीबाई मार्ग बट्टूलाल जैन के मकान से पुलम्बीकर के दल्त मंदिर को सम्मिलित कर बस्सा खां पठान के मकान तक।
- पश्चिम** — छुटकन लाल पार्वती शंकर के मकान से नरेन्द्र कुमार छुट्टू जी के मकान को सम्मिलित कर बट्टू लाल जैन के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 07 – नाना साहब पेशवा वार्ड

- उत्तर** – महारानी लक्ष्मी बाई पथ के रायसेन गेट, काला पहाड़, राममंदिर, महादेव मंदिर सम्मिलित करते हुए जगन्नाथ राव मुले के मकान को सम्मिलित करते हुए किले की वाउन्ड्री के सहारे वाली बस्ती को सम्मिलित करते हुए खाई बस्ती के पश्चिमी छोर का दक्षिण भाग।
- पूर्व** – नाना साहब पेशवा पथ संजय गांधी कालोनी से पेढ़ी स्कूल को सामिल करके श्री हनुमान मंदिर से होकर रायसेन गेट का समस्त पश्चिमी भाग।
- दक्षिण** – डाउन रेलवे लाइन के पीरिया झोरे ब्रिज से भगतसिंह कालोनी और नाना के बाग के सम्पूर्ण क्षेत्र को शामिल करते हुए रोड क्रास कर ईदगाह चुग्गीनाके से मनोहर टॉकेज को सम्मिलित करते हुए नाना साहब पेशवा पथ स्थित नगरपालिका शौचालय का उत्तरी भाग।
- पश्चिम** – पीरिया झोरे के पुल से म.प्र. परिवहन डिपो के सामने के खेतों को लेते हुए रुक्को बाई के बगीचे को शामिल करते हुए खाई बस्ती तक।

### वार्ड क्रमांक 08 – रसखान वार्ड

- उत्तर** – रामगोला छुटकन लाल के मकान से बशीर मोहम्मद का मकान बजरिया पार्क सम्मिलित कर शरवती के मकान तक।
- पूर्व** – वेत्रवती मार्ग नं. 1 बड़ा बाजार से झूलनपीर मस्जिद सम्मिलित कर बजरिया वाचनालय के सामने शरवती के मकान तक का पश्चिमी भाग।
- दक्षिण** – पुराना जगजीवन राम मंच के सामने सावरकर रोड से बट्टूलाल जैन की दुकान से संतोष कटपीस भण्डार के कोने तक।
- पश्चिम** – महारानी लक्ष्मी बाई पथ शीलचन्द्र जैन की स्टेशनरी दुकान से वाया रायसेन गेट रसखान मार्ग का पूर्वी हिस्सा रईस अहमद के मकान से सेठ जसरूपमल के मकान को सम्मिलित कर मोहनलाल सोनी के मकान की ओर विजय मंदिर पथ को क्रासकर बैस दरवाजा के रामगोपाल छुटकन लाल के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक 09 – छत्रपति शिवाजी वार्ड

- उत्तर** – बंदा बैरागी मार्ग पर चर्मशोधन केन्द्र नारायण दादा के मकान के सामने से रोड क्रास कर मोहनसिंह के मकान को सम्मिलित करते हुए बोहरवाड़ी का पश्चिमी हिस्सा लेकर वेत्रवती पथ पर ज्ञानचंद्र के मकान से वेत्रवती पथ क्रास कर नानूलाल खवास के मकान तक।
- पूर्व** – सोनकर भवन के कोने से रंगियापुरा चर्मशोधन केन्द्र तक।
- दक्षिण** – वेत्रवती पथ बजरिया वाचनालयन से रोड क्रास कर राजकिशोर सक्सेना के मकान को सम्मिलित कर संत तुलसी पथ बालाजी मंदिर से होकर सोनकर भवन तक।
- पश्चिम** – वेत्रवती पथ नानूलाल व्यास के मकान से कला के पिछले हिस्से जेल बिल्डिंग अमरचंद्र चक्की को सम्मिलित कर बजरिया वाचनालय तक।

### वार्ड क्रमांक – 10 संत तुलसी वार्ड

- उत्तर** – संत तुलसी पथ चौरसिया टी स्टाल से जुम्मन लोहार तक के मकान का दक्षिणी भाग।
- पूर्व** – श्रीजी मंदिर गली के जुम्मन लोहार के मकान से नारायण दास माहेश्वरी के मकान से लगे हुए कुऐ को अन्दर करते हुए बालकिशन दास कोठारी के मकान को अन्दर करते हुए गोविन्द प्रसाद वैद्य की दुकान तक का पश्चिमी भाग।
- दक्षिण** – सावरकर पथ भैयालाल सर्सफ की दुकान से बाबूलाल नाई की दुकान तक का उत्तरी भाग।
- पश्चिम** – वेत्रवती पथ जन्मू मोची के मकान से अमर चंद्र चौरसिया के पान की दुकान तक का पूर्वी भाग।

### वार्ड क्रमांक – 11 श्रृङ्खानंद वार्ड

- उत्तर** – हृदय मोहनजी के मकान से जैन मंदिर का मकान(माया ड्रेसेस) तक।
- पूर्व** – माया ड्रेसेस से गणेश मंदिर गुलाबसिंह के मकान को लेते हुए धर्मप्रकाश मेहरा के मकान तक फिर रोड क्रास कर श्री शांतिलाल नैमा के मकान को लेते हुए सोना बकील (प्रदीप वर्मा) के मकान से महिला कल्याण केन्द्र से होते हुए दुबेजी के मकान से मुजुमदार साहब के मकान को लेते हुए विमलचंद्र के मकान तक।
- दक्षिण** – विमलचंद्र के मकान से हीरालाल पिघल के मकान को लेते हुए रोड क्रास कर बहादुर सिंह के मकान को शामिल करते हुए दुल्ली अहीर के मकान के पीछे से निरन्जन वर्मा के मकान तक।
- पश्चिम** – निरन्जन वर्मा के मकान से रोड क्रास करके श्री सत्यप्रकाश मेहरा से सतीश मिश्रा रामशंकर आनन्दीराम के मकान को लेते हुए आर्य समाज मंदिर तक फिर रोड क्रास कर सिराज अहमद के मकान गोवर्धन उपाध्याय डोंगरसिंह के मकान को लेते हुए हृदय मोहन के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 12 मुंशी प्रेमचंद वार्ड

- उत्तर** – सांची रोड शासकीय कृषि फार्म शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल, देवी का बाग, मडवैया के मकान तथा श्री अजय सिंह के मकान को सम्मिलित करते हुए डाक्टर वीरेन्द्रकुमार के मकान तक।
- पूर्व** – डाउन रेलवे लाईन के सौंठिया फाटक गेट, तिलक मार्ग से दुर्गा पार्क वूमेन होस्टल माधवगंज के मकान से ग्रीष्म वर्मा के मकान को लेते हुए विमलचंद्र जैन के मकान तक।
- दक्षिण** – डाउन रेलवे लाईन से सौंठिया रेलवे गेट से इन्द्रा काम्पलेक्स को शामिल करते हुए शा.कृषि फार्म तक।
- पश्चिम** – विमलचंद्र जैन के मकान से डाक्टर सूर्य प्रकाश के मकान विष्णु शंकर के मकान को लेते हुए वीरेन्द्र के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 13 चाणक्य वार्ड

- उत्तर** – श्री भूपेन्द्र बंसल के मकान से रोड क्रास कर तिलक मूर्ती को अन्दर करते हुए अशोक गोयल की दुकान को लेते हुए चेन सिंह सर्फ की दुकान तक।
- पूर्व** – श्री भूपेन्द्र बंसल के मकान से हनुमान मंदिर सुन्नूलाल के मकान को शामिल करते हुए रामगोपाल मिस्त्री के मकान तक।
- दक्षिण** – रामगोपाल मिस्त्री के मकान से एम.सी. श्रीवास्तव पूर्व डिप्टी कलेक्टर के मकान को लेते हुए ओमकार लाल गिरधावर के मकान तक फिर रोड क्रास कर रूप नारायण वर्मा के मकान से रज्जूलाल मेहरा के मकान तक।
- पश्चिम** – चाणक्य पथ पर श्री रज्जूलाल मेहरा के मकान से माता के मंदिर को अन्दर करते हुए रोड क्रास करते हुए सिरमैया के मकान को लेते हुए चैनसिंह की दुकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 14 गांधी वार्ड

- उत्तर** – रामजी कुम्हार के मकान से बगीचे को शामिल करते हुए गली क्रास कर मुबारिक का मकान रगियापुरा मंदिर को सम्मिलित करते हुए मंगल भवन के सामने कुरे तक।
- पूर्व** – मंगल भवन के सामने के कुए से ए.एच.गोरी के मकान से भरोसी मिट्ठूलाल के मकान को लेते हुए आशिक अली के मकान को सम्मिलित कर इमली के पेड़ को अन्दर करते हुए न.पा.शौचालय को भी सम्मिलित करते हुए सावरकर पथ में मूलचंद साहू के मकान तक।
- दक्षिण** – मूलचंद साहू के मकान से सावरकर पथ क्रास कर ईशाक खां का मकान लेते हुए कंचन ज्वेलर्स के मकान को लेते हुए परमानंद सोनी के मकान को लेते हुए तिलक मार्ग पर वशिष्ठ जी स्टेशन मास्टर के मकान तक।

**पश्चिम** – तिलक मार्ग पर वशिष्ठ जी रेलवे स्टेशन मास्टर के मकान से डाक्टर रघुवंशी जी के मकान को लेते हुए तत्काल की दुकान तक एवं सिंह के मकान से शिलाकारी, प्रयागसिंह के मकान को सम्मिलित करते हुए श्रीजी की गली में श्री जी मंदिर लेते हुए रामजी कुम्हार के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 15 गुरुनानक वार्ड

**उत्तर** – सावरकर पथ पर मथुरा प्रसाद शर्मा के मकान से बंसल ट्रेंडिंग कम्पनी आहुजा मशीनरी राजप्रेस सम्मिलित करते हुए सुरजीत सिंह चावला की होटल तक।

**पूर्व** – सुरजीतसिंह चावला की होटल से सत्तार भाई की दुकान व रोड क्रास कर महाराज की होटल से बालविहार की पूर्वी दुकानों को लेते हुऐ बालविहार के उत्तरी गेट तक व वाचनालय के सामने की दुकान सम्मिलित कर व रोड क्रास कर अजीज भाई की दुकान से दयानंद मार्ग की पंजाब होटल तक।

**दक्षिण** – दयानंद मार्ग पंजाब होटल से पीली कोठी सम्मिलित करते हुए शक्तिसिंह के मकान व अस्पताल होते हुए सुलभ काम्पलेक्स तक।

**पश्चिम** – सुलभ काम्पलेक्स से लालता प्रसाद श्रीवास्तव के मकान व श्यामलाल श्रीवास्तव जी को लेते हुए सुशीलाबाई व रमेश दुबे के मकान से मेघदूत टॉकेज को अन्दर करते हुए मूलचंद सोनी के मकान को अन्दर करते हुए रोड क्रास कर रामकिशन टाल वाले को अन्दर लेते हुए जगदीश अरोड़ा के मकान से मथुरा प्रसाद शर्मा के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 16 दुर्गा वार्ड

**उत्तर** – बालकिशन खूबचंद के मकान से तलैया तथा चर्मशोधन के सामने वाला कुओं लेते हुए महेश जैन बाबू भाई के मकानों को लेते हुए विहारीलाल जैन के मकान तक।

**पूर्व** – दुर्गा चौक तलैया मार्ग पर विहारी लाल जैन के मकान से तुकाराम पाटिल शम्भूदयाल श्रीवास्तव के मकानों को लेते हुए नगरपालिका भवन तक।

**दक्षिण** – सावरकर पथ पर नगरपालिका भवन के रायल मार्केट शक्तिसिंह का मकान जालोरी प्रिन्टर्स को लेते हुए रामसिंह साहू के मकान तक।

**पश्चिम** – कुम्हार गली में रामसिंह साहू के मकान से प्रहलाद मेट, मांगीलाल मिस्त्री, करणसिंह ठाकुर, भरोसी सोनी के मकानों को लेते हुए बालकिशन खूबचंद्र के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 17 इन्दिरागांधी वार्ड

**उत्तर** – रामलीला तिराहा पर चौरसिया की होटल के सामने का क्षेत्र लेते हुए अयोध्या भवन मेलाग्राउण्ड को अन्दर करते हुए एफ.सी.आई.गोदाम तक।

**पूर्व** – भैरों सिंह कुशवाह के बगीचे से देव शास्त्री का बगीचा लेते हुए एफ.सी.आई.गोदाम तक।

**दक्षिण** – ईदगाह रोड गुठान की मस्जिद से कालीदास मार्ग पर स्लाटर हाउस काशीराम कुशवाह के मकान को लेते हुए रामप्रसाद कुशवाह के मकान तक फिर वेत्रवती मार्ग क्रास कर ज्ञानचंद जैन के मकान से चंदन नाई मुनीम बोहरा के मकान लेते हुए फिर बंदा वैरागी मार्ग में ओमप्रकाश गुप्ता पूर्नसिंह का मकान लेते हुए भैरोंसिंह कुशवाह तक।

**पश्चिम** – रामलीला तिराहे पर मोहनलाल चौरसिया के मकान से डिपो की ओर से रोड पर गुठान की मस्जिद तक।

### वार्ड क्रमांक – 18 रानी दुर्गावती वार्ड

**उत्तर** – नौलखी मंदिर से शिवशक्ति पेपरमील केपको मिल को अन्दर करते हुए नगर की उत्तरी सीमा से होते हुए नकतला के पास नगर की अन्तिम सीमा तक।

- पूर्व** — नकतला के पास नगर की अन्तिम सीमा से सुलभ काम्पलेक्स के सामने वाली लाईन में मोहनसिंह राय के मकान से किशनसिंह पवॉर के मकान तक।
- दक्षिण** — किशन सिंह पवॉर के मकान से आर.के.निगम, चतुर्भुज शर्मा, कृष्ण कुमार अहिरवार, अमनसिंह अहिरवार, राजकिशोर कुलश्रेष्ठ, प्रकाश, प्यारेलाल अहिरवार, चंद्रमोहन पाटनी को लेते हुए कुओं हनुमान मंदिर को लेकर दुर्गा मंदिर के सामने बाबूलाल रैकवार के मकान से बंसत शर्मा से रामदुलारे शर्मा के मकान तक फिर पेस्टीसाइड रोड क्रास कर माँ हास्पिटल, पेस्टीसाइड को अन्दर करते हुए अर्जुनसिंह के भूसा टाल कोने तक।
- पश्चिम** — अर्जुनसिंह भूसे टाल से जतरापुरा रोड पर पूर्वी हिस्से को लेते हुए रोड क्रास करते हुए चेनसिंह का बगीचा, हरीसिंह झायवर, डेनेज कालोनी लेते हुए व संपूर्ण जतरापुरा अन्दर करते हुए मरघट रोड पर रामबाग मरघट अन्दर करते हुए नौलखी तक।

### वार्ड क्रमांक – 19 महाराणा प्रताव वार्ड

- उत्तर** — जतरापुरा रोड पर चेनसिंह का बगीचा बाहर कर नर्वदा कोल डिपो को सम्मिलित कर मुरलीधर शंकर लाल की दालमील तक।
- पूर्व** — मुरलीधर शंकरलाल की दालमील लेते हुए बाबूलाल कपास्या शंकरजी का मंदिर तक की रोड क्रास कर पश्चु चिकित्सालय से वीर हकीकत राय मार्ग पर श्री गोविन्द देवलिया के मकान तक।
- दक्षिण** — वीर हकीकत राय मार्ग पर गोविन्द देवलिया के मकान से गली में अन्दर महावीर जैन डाक्टर माहेश्वरी के मकान सम्मिलित कर लख्मीचंद जैन(रसिक) के मकान तक फिर रोड क्रास कर सरस्वती शिशु मंदिर को बाहर करते हुए रामचरण सेन के मकान से कामता प्रसाद श्रीलाल शर्मा देवेन्द्र श्रीवास्तव के मकानों को लेते हुए आस्कर टी.वी. बाबूलाल शंकरलाल के मकान तक।
- पश्चिम** — बाबूलाल शंकरलाल के मकान से डॉ. ताम्रकार ओमप्रकाश सक्सेना के भवनों को लेते हुए मांगीलाल शर्मा तक फिर रागियापुरा चौराहा पर गैस ऐजेन्सी रोड क्रास कर नगरपालिका लेट्रिंग से भैरों सिंह का बगीचा लेते हुए रामगोपाल का बगीचा अन्दर करते हुए जतरापुरा रोड पर चेनसिंह के बगीचा (छोड़कर) के सामने दक्षिणी कोने तक।

### वार्ड क्रमांक – 20 कस्तूरबा वार्ड

- उत्तर** — पेस्टीसाइड रोड से दुर्गा मंदिर रोड पर महेन्द्रसिंह राजपूत के मकान से श्री दुर्गा मंदिर, इमली के पेड़ को अन्दर करते हुए भारतसिंह के मकान से कन्छेदीलाल साहू देवी सिंह अहिरवार के मकान लेते हुए संतोषी माता मंदिर तक।
- पूर्व** — संतोषी माता मंदिर से त्रिकोण अन्दर करते हुए छोटे लाल अहिरवार, बाबूलाल जैन, छोटेलाल कोरी, नन्देसिंह यादव, प्यारेलाल सूर्यवंशी, चिमनलाल धोबी, गोरीशंकर अग्रवाल, बसतसिंह सेगं, लक्ष्मी आटा चक्की से नगरपालिका दुकानों को लेते हुए व नगरपालिका क्वार्टर्स को अन्दर करते हुए श्रीराम नगर चौराहे पर कन्छेदीलाल प्रजापति के मकान तक।
- दक्षिण** — श्रीराम नगर चौराहा पर कन्छेदी लाल प्रजापति के मकान से चौराहे पर ही मदनलाल शालिगराम (टीचर) शर्मा के मकान तक।
- पश्चिम** — श्रीराम नगर चौराहा पर शंकर मंदिर के सामने मदनलाल शालिगराम शर्मा (टीचर) के मकान से केरोसिन डिपो नगरपालिका क्वार्टर्स अन्दर कर अमानसिंह रघुवंशी का टाल व मोहन हरीजन, उधमसिंह, भट्ट साहब के मकानों को लेते हुए पेस्टी साइड रोड पर श्री महेन्द्र सिंह के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 21 सरोजनी नायदू वार्ड

- उत्तर** — श्री हनुमान मंदिर कुए के सामने बब्लू राठोर के मकान से नाथूराम कारपेन्टर व नन्दकिशोर, रोहित दीपक कुंज को लेते हुए करोड़ी अहिरवार के मकान तक फिर रोड क्रास कर मूलचंद काढी के मकान से आर.के.शर्मा इन्जीनियर का मकान लेते हुए फिर रोड क्रास कर मिश्रीलाल सुरेश कुमार जैन के भवन से सुलभ काम्पलेक्स होते हुए नगतला के तरफ नगर की अन्तिम सीमा तक।

- पूर्व** — नगतला की तरफ नगर की अंतिम सीमा से सुलभ काम्पलेक्स अन्दर करते हुए नगर की पूर्वी अंतिम सीमा से सम्पूर्ण शिक्षक कालौनी को अन्दर करते हुए ब्राइट केरियर स्कूल तक।
- दक्षिण** — ब्राइट केरियर स्कूल से मण्डी बाउन्ड्री को अन्दर करते हुए व शंकर टीला क्षेत्र को बाहर करते हुए बरईपुरा स्कूल को लेते हुए काम्यूनिटी हॉल तक।
- पश्चिम** — कम्यूनिटी हॉल से गोकुल प्रसाद का मकान लेते हुए रामसिंह सिकरवार के मकान तक फिर रोड क्रास कर छोटेलाल अहिरवार के मकान से पोखन लाल साहू का साहू सदन उधमसिंह राजपूत का भवन, मनोहर लाल अहिरवार का मकान लेते हुए संतोषी माता मंदिर बाहर करते हुए रोड क्रास कर करोड़ी लाल अहिरवार, प्रेमकुटी, किशन लाल रैकवार, तुलसीराम रैकवार, रामप्रसाद भोई, खुशशीलाल प्रजापति, बद्री प्रसाद राठोर का मकान लेते हुए श्री हनुमान मंदिर कुए के सामने बब्लू राठोर के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 22 संत विनोवा वार्ड

- उत्तर** — रामनगर गाड़ी अड्डा मार्ग अविनाश सा मिल से गाड़ी अड्डा गेट के हुसैन नजीर मोहम्मद के मकान तक।
- पूर्व** — गणेश गंज मार्ग के शोभाराम काढ़ी और पुरुषोत्तम की दुकान को सम्मिलित करते हुए गणेशगंज मार्ग गली नं. 2 तथा राजेन्द्रगिरी मार्ग के प्रेमजी भाई नागजी भाई के मकान तक एवं पश्चिमी भाग सम्मिलित करते हुए गाड़ी अड्डा हुसैन नजीर मोहम्मद के मकान तक।
- दक्षिण** — गणेश गंज मार्ग गली नं. 1 श्री चिमनलाल लोहार के मकान से शंकर लाल चंदेरी वाले के मकान तक उत्तरी भाग।
- पश्चिम** — वीर हकीकत रायमार्ग के फूलसिंह दांगी बकील के मकान से रामनगर गाड़ी अड्डा मार्ग के भंवर लाल जैन शिव के मकान तक का पूर्वी भाग।

### वार्ड क्रमांक – 23 विवेकानंद वार्ड

- उत्तर** — खीमजी शाह के मकान से सरस्वती शिशु मंदिर के पीछे की साइड तलैया सम्मिलित करते हुए दुर्गा मार्ग तक।
- पूर्व** — वीर हकीकत रायमार्ग का पश्चिम हिस्सा भोपाल वाले मुल्लाजी के मकान से लेकर खीमजी शाह के मकान तक।
- दक्षिण** — सावरकर पथ का उत्तरी हिस्सा पुलिस कोतवाली से भोपाल वाले मुल्लाजी के मकान तक।
- पश्चिम** — दुर्गा मार्ग पुलिस कोतवाली से दुर्गा मंदिर विनोवर फेकट्री एवं जगदीश शर्मा का मकान शामिल करते हुए सरस्वती शिशु मंदिर तक।

### वार्ड क्रमांक – 24 रामकृष्ण परमहंस वार्ड

- उत्तर** — नभ भारत प्रेस से रतनचंद भण्डारी का मकान सम्मिलित करते हुए मजार को लेकर कोठारी के मकान तक चौराहा (परमानंद चौक) क्रास कर मालवीय पार्क को अन्दर करते हुए मूलचंद मिस्त्री तक।
- पूर्व** — मूलचंद मिस्त्री से हरीसिंह मोहता अन्दर लेते हुए सिरेमल जैन का मकान व रेलवे क्वाटर अन्दर करते हुए रेलवे डाउन लाईन तक।
- दक्षिण** — श्रीमल जैन रेलवे क्वाटर्स को अन्दर करते हुए रेलवे डाउन लाईन के किनारे—किनारे सौंठिया रेलवे फाटक तक।
- पश्चिम** — सौंठिया रेलवे फाटक से बड़जात्या शिशु मंदिर, संघमित्रा लॉज को लेते हुए पलोड पेट्रोल पंप तक व फिर दयानंद मार्ग क्रास कर सूवासिंह की होटल के सामने पुराने बस स्टेप्प की सीमा से पुरानी सब्जी मण्डी लाहोटी भवन को अन्दर लेते हुए एफ.सी.आई.गोदाम तक व फिर रोड क्रास कर व अग्रवाल धर्मशाला की पश्चिमी दुकानों को लेते हुए रोड क्रास कर बड़कुल भवन डोसी बिल्डिंग तक व फिर सावरकर पथ क्रास कर पन्नालाल भगत के मकान से डॉ. सतीश का दबाखाना, जैन मंदिर अन्दर करते हुए नव भारत प्रेस तक।

### वार्ड क्रमांक – 25 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

- उत्तर** – राजेन्द्रगिरी मार्ग काशीराम साहू के मकान से अयोध्याप्रसाद के मकान तक लुहांगी पहाड़ी के जड़ से दक्षिणी हिस्सा अन्दर करते हुए।
- पूर्व** – गणेशगंज मार्ग के लक्ष्मण प्रसाद के मकान से कृपाराम रैदास के मकान तक और राजेन्द्रगिरी मार्ग को लच्छूदास के मकान से पश्चिमी हिस्सा लुहांगी को अन्दर करते हुए पहाड़ी की जड़ से होते हुए।
- दक्षिण** – गणेशगंज मार्ग गली नं. 2 चन्दनलाल, सुखलाल के मकान से चिंता रैदास तक के मकान का उत्तरी भाग।
- पश्चिम** – गणेशगंज मार्ग गली नं. 2 नगरपालिका सार्वजनिक शौचालय बुद्देलाल रैदास के मकान से नारायण बसन्ती लाल के मकान तक का पूर्वी भाग।

### वार्ड क्रमांक – 26 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर** – गणेशगंज मार्ग पर जहीरउद्दीन के मकान से निरपतसिंह काढ़ी पारो रमेश राठोर के मकानों को सम्मिलित कर नंद किशोर पटवारी के मकान तक व फिर रोड क्रास कर नारायणसिंह रघुवंशी, अजुददीलाल रैकवार व भवंरलाल का मकान लेते हुए नवल रैकवार का मकान काढ़ी कुआ, काढ़ी मंदिर सम्मिलित कर पुरानी कलारी रोड पर तथातसिंह के मकान तक।
- पूर्व** – पुरानी कलारी रोड पर तथातसिंह के मकान से वीरसिंह रघुवंशी के मकान, लड्डा ऐजेन्सी लेते हुए अर्जुन आईस फेकट्री तक फिर खरी फाटक रोड क्रास कर श्री हनुमान मंदिर को अन्दर करते हुए उसके पास की गली से रेलवे डाउन लाईन तक।
- दक्षिण** – डाउन रेलवे लाईन पर पूर्वी-दक्षिणी सीमा से रेलवे क्वार्टर अन्दर करते हुए शंकर वाले का मकान व काली मस्जिद को लेते हुए जी.सी.जैन के मकान को लेते हुए सर्साफ एन्टर प्रायजेस तक।
- पश्चिम** – सर्साफ एन्टर प्रायजेस से खरीफाटक रोड क्रास कर सोनल फोटो स्टूडियों से दण्डोतिया का मकान लेते हुए घनश्याम अग्रवाल के मकान तक। घनश्याम अग्रवाल के मकान से हरप्रसाद तिवारी नारायणप्रसाद का मकान डॉ. प्रकाश जैन, काशीराम रैकवार, बंशीलाल का मकान सम्मिलित करते हुए गणेशगंज मार्ग पर जहीरउद्दीन के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 27 स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड

- उत्तर** – मण्डी कमेटी प्रागंण का भीतरी सम्पूर्ण क्षेत्र।
- पूर्व** – गाड़ी अड्डा रोड पर रणधीरसिंह अण्डिया वाले के मकान से रमेश मानोरा वाले के मकान को लेते हुए मण्डी पूर्वी गेट को लेते हुए मण्डी कमेटी प्रागंण की आखरी सीमा तक।
- दक्षिण** – सुभाष मार्ग गली नं. 2 लल्ली टायर वाले के मकान से रोड क्रास कर दुर्गा भोई के मकान से होते हुए निर्भयसिंह, के.एन.साहू पटवारी का मकान पीताम्बर नामदेव के मकान सम्मिलित करते हुए रोड क्रास कर भार्गव सदन लेते हुए बृन्दावन का मकान व रघुवीर सिंह का मकान लेते हुए गाड़ी अड्डा रोड पर रणधीरसिंह अण्डिया वाले के मकान तक।
- पश्चिम** – मण्डी कमेटी पश्चिमी गेट की वाउण्ड्रीवाल से पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुए सुभाष मार्ग गली नं. 2 में लल्ली टायर वाले के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 28 जवाहरलाल नेहरू वार्ड

- उत्तर** – अर्जुन नगर नाले से के गोदाम को अन्दर करते हुए नरहर पंथ कद्रे के बगीचे को सम्मिलित करते हुए रामसिंह तेली के खेत से सागर पुलिया तक।
- पूर्व** – सागर पुलिया से बालमुकुन्द श्रीवास्तव विनायक राय वैद्य, मिठू सोमत के बगीचे को सम्मिलित करते हुए खरी फाटक रेलवे गेट तक।
- दक्षिण** – सुभाष मार्ग के थानसिंह, इमरतसिंह के मकान से खरीफाटक चुंगीनाके तक।

**पश्चिम** – नये रविदास मार्ग क्रासिंग से गाडी अडडा मार्ग क्रमांक पूरनचंद,ज्ञानचंद के मकान तक जगन्नाथ सिंह, चैनसिंह के मकान को सम्मिलीत करते हुए गाडी अडडा पश्चिमी गेट बाउण्ड्रीवाल से लगी सम्पूर्ण बस्ती को सम्मिलित करते हुए ट्रेक्टर बर्क्सशॉप के पीछे अर्जुन नगर टीले तक।

### वार्ड क्रमांक – 29 चन्द्रगुप्त वार्ड

**उत्तर** – निरपतसिंह के मकान से रेलवे अप लाइन तक व फिर अप लाइन के किनारे–किनारे सागर पुलिया लेते हुए नगर की उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा तक।

**पूर्व** – करैयाखेड़ा मार्ग की उत्तरी भाग की तरफ से दक्षिणी पूर्वी अंतिम सीमा से औद्योगिक क्षेत्र कान्वेन्ट स्कूल सागर रोड को अन्दर लेते हुए नगर की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे नगर की अंतिम पूर्वी सीमा अप रेलवे लाईन तक।

**दक्षिण** – चन्द्रशेखर आजाद मार्ग से करैयाखेड़ा मार्ग का उत्तरी भाग औद्योगिक क्षेत्र अन्दर लेते हुए नगर की दक्षिण पूर्वी अंतिम सीमा तक।

**पश्चिम** – रेलवे अप लाइन से निरपतसिंह के मकान को लेते हुए दंगलसिंह के मकात तक फिर पीतलमील चौराहा क्रास कर चंद्रशेखर मार्ग पर न.पा.की दुकाने एवं औद्योगिक क्षेत्र को अन्दर करते हुए करैयाखेड़ा मार्ग तक।

### वार्ड क्रमांक – 30 शहीद भगतसिंह वार्ड

**उत्तर** – किशनसिंह के मकान से न.पा.शौचालय को अन्दर लेते हुए अप रेलवे लाइन तक। व अप रेलवे लाइन तक किनारे–किनारे खरीफाटक रोड क्रास कर अप लाइन के किनारे–किनारे से श्रीवास्तव के मकान तक।

**पूर्व** – चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर संजीव आटा चक्की से कुम्हार के डाक्टर सा. सरदारसिंह का मकान लेते हुए भावसार की होटल तक व फिर रोड क्रास कर निहालसिंह के मकान से किशनसिंह का मकान नगरपालिका शौचालय लेते हुए अप रेलवे लाइन तक।

**दक्षिण** – चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर ज्ञानचंद जैन के मकान से पासी मथुरा प्रसाद शर्मा को लेते हुए संजू आटा चक्की करैयाखेड़ा मार्ग चौराहे तक।

**पश्चिम** – अप रेलवे लाइन से श्रीवास्तव का मकान से हरिजन बस्ती को अन्दर लेते हुए पी.डब्ल्यू.आई.बंगले तक व पी.डब्ल्यू.आई.के बंगले से हल्कई रैकवार तक व वहाँ से यादव शिखर चंद जैन के मकान लेते हुए चंद्रशेखर आजाद मार्ग पर ज्ञानचंद जैन के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 31 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर** – पी.डब्ल्यू.आई.बंगले के केम्पस की बाउण्ड्री से भोईपुरा के अन्दर करते हुए एवं हरिजन बस्ती को बाहर करते हुए रेलवे अप लाइन तक एवं वहाँ से अप लाइन के किनारे–किनारे लेते हुए हनुमंत राव कन्डेक्टर के मकान तक।

**पूर्व** – ओमप्रकाश अरोरा के मकान से देबी के मकान को लेते हुए हरपाल के मकान तक फिर रोड क्रास कर पी.डब्ल्यू.आई.बंगला (छोड़कर) केम्पस की उत्तीर पूर्वी बाउण्ड्री तक।

**दक्षिण** – चन्द्रशेखर आजाद मार्ग व जिला संग्रहालय, एस.पी.बंगला, वी.टी.आई.गैस ऐजेन्सी को लेते हुए ओमप्रकाश अरोरा के मकान तक।

**पश्चिम** – वी.टी.आई.रोड पर हनुमंत राव के मकान से पाण्डे जी के मकान को लेते हुए के.सी.प्रधान के मकान तक व बी.टी.आई.रोड क्रास कर ए.बी.एल.माथुर के मकान को लेते हुए धरीराम चायवाले के मकान को लेते हुए जिला संग्रहालय तक।

### वार्ड क्रमांक – 32 सप्राट अशोक वार्ड

- उत्तर** – चन्द्रशेखर आजाद मार्ग पर सर्किट हाउस से कलेक्टर बंगला एस.ए.टी.आई.हलाली कालोनी को अन्दर कर करैयाखेड़ा मार्ग के नगरपालिका शौचालय तक व वहाँ से करैयाखेड़ा रोड की दक्षिणी लाइन के मकानों को लेते हुए नगर की उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा तक।
- पूर्व** – करैयाखेड़ा मार्ग के उत्तरी पूर्वी अंतिम सीमा से नगर की पूर्वी अंतिम सीमा लेते हुए हलाली कालोनी एस.ए.टी.आई.कालेज को अन्दर करते हुए पूर्वी दक्षिणी अंतिम सीमा तक।
- दक्षिण** – पूर्वी दक्षिणी अंतिम सीमा से हलाली कालोनी अहमदपुर रोड की पूर्वी क्षेत्र एस.ए.टी.आई.को अन्दर लेते हुए श्री कृष्ण कालोनी के डॉ. माया सक्सेना (के मकान को छोड़कर)।
- पश्चिम** – दुर्गा नगर मार्ग पर माया सक्सेना के मकान को छोड़कर कर विदिशा टायपिंग इनस्टीट्यूट को लेते हुए सर्किट हाउस तक।

### वार्ड क्रमांक – 33 टैगोर वार्ड

- उत्तर** – सौंठिया फाटक रेलवे गेट से अप रेलवे लाइन के किनारे–किनारे प्लेट फार्म क्रमांक 3 के पूर्वी छोर तक।
- पूर्व** – प्लेटफार्म क्रं. 3 के पूर्वी छोर अप लाइन मातृ छापा प्रशांत बोस के मकानों को लेते हुए हरीनारायण विश्वकर्मा के मकान तक व हरीनारायण विश्वकर्मा के मकान से कन्या हाई स्कूल चर्च डॉ.कोतू अंबिका प्रसाद शुक्ला के मकानों को लेते हुए मनोज निकेतन तक व फिर युवराज क्लव क्रास कर सामने वाले तख्तमल कालोनी को अन्दर लेते हुए आयकर विभाग (पीतलिया के मकान) तक चन्द्रशेखर आजाद मार्ग क्रास कर दुर्गा मार्ग पर पी.डब्ल्यू.डी.क्वार्टर लेते हुए पंकज गायकवाड के मकान तक।
- दक्षिण** – पंकज गायकवाड के मकान से पी.सी.जैन डाक्टर स्वर्णकार के मकानों को सम्मिलित कर नारायण प्रसाद शर्मा के मकान तक।
- पश्चिम** – राजीव नगर रोड में नारायण प्रसाद शर्मा के मकान से भटनागर के मकान को लेते हुए चन्द्रशेखर आजाद मार्ग तक रोड क्रास कर गायत्री भवन टैगोर शाला अन्दर लेते हुए सौंठिया रेलवे फाटक तक।

### वार्ड क्रमांक – 34 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर** – राजीव नगर रोड एस.सी.जैन के मकान से श्रीवास्तव पटवारी का मकान लेते हुए श्री पाण्डेय दुर्गा मंदिर मार्ग के मकान तक व दुर्गा मार्ग क्रास कर माया सक्सेना का मकान से श्री कृष्ण कालोनी को अन्दर लेते हुए श्री कृष्ण कालोनी के पूर्वी उत्तरी छोर तक।
- पूर्व** – श्री कृष्ण कालोनी के पूर्वी उत्तरी छोर से श्री कृष्ण कालोनी को अन्दर लेते हुए कालोनी से लगे पूरनपुरा को सम्मिलित करते हुए नगर पूर्वी–दक्षिणी अंतिम सीमा तक।
- दक्षिण** – नगर की पूर्वी–दक्षिणी सीमा से कन्हैयालाल ड्रायवर को सम्मिलित कर तिराहे से बन विभाग डिपो गीता आटा चक्की को सम्मिलित करते हुए प्रकाश जोशी के मकान तक।
- पश्चिम** – राजीव नगर रोड प्रकाश जोशी के मकान से एस.सी.जैन के मकान तक।

### वार्ड क्रमांक – 35 राजीव नगर वार्ड

- उत्तर** – सौंठिया फाटक के सामने जैन हायर सेकेण्ड्री स्कूल के मैन गेट से बच्चलाल तिवारी पी.डब्ल्यू.आफिस बी.एल.यादव के मकान को लेते हुए गोपाल नेमा के प्लाट तक।
- पूर्व** – राजीव नगर रोड गोपाल नेमा के प्लाट से शंकरलाल शर्मा डाक्टर पीतलिया के मकान को लेते हुए गानू सा के मकान तक फिर रोड क्रास करके होमगार्ड आफिस तक।
- दक्षिण** – होमगार्ड आफिस से कमला नेमा के मकान को लेते हुए हनुमान मंदिर को लेते हुए पी.डब्ल्यू.डी.क्वाटर तक फिर रोड क्रास करके श्री नायर सा. के मकान तक।
- पश्चिम** – श्री नायर सा. के मकान से जैन हायर सेकेण्ड्री स्कूल की सीमा को अन्दर लेते हुए जैन हायर सेकेण्ड्री स्कूल के मैन गेट तक।

### वार्ड क्रमांक – 36 डॉ. राधाकृष्णन वार्ड

- उत्तर** – सौंठिया रेलवे फाटक से जैन हायर सैकेण्ड्री स्कूल के पीछे से डी.एफ.ओ. के बंगले को लेते हुए पुलिस लाइन, डाक बंगला सवार लाइन लेते हुए पी.डब्ल्यू.डी.की वर्कशाप तक।
- पूर्व** – जेल को शामिल करते हुए सवार लाइन से सक्सेना एल.आई.सी.के मकान को शामिल करते हुए रोड से होते हुए पूरनपुरा का दक्षिणी हिस्से को शामिल करते हुए नगरपालिका की अंतिम सीमा तक।
- दक्षिण** – सत्यनेशन ठेकेदार व चतुर्वेदी थानेदार के मकानों को शामिल करते हुए नगरपालिका की दक्षिण अंतिम सीमा तक।
- पश्चिम** – सौंठिया फाटक अप रेलवे लाइन के किनारे—किनारे नगरपालिका की अंतिम पश्चिमी सीमा तक।

### वार्ड क्रमांक – 37 टीलाखेड़ी वार्ड

- उत्तर** – वार्ड क्र. 36।
- पूर्व** – वार्ड 36 से वार्ड क्र. 34।
- दक्षिण** – वार्ड क्र. 34 से राजस्व ग्राम गुरारिया व राजस्व ग्राम सौंठिया।
- पश्चिम** – राजस्व ग्राम सौंठिया से वार्ड क्र. 36।

### वार्ड क्रमांक – 38 बैस वार्ड

- उत्तर** – राजस्व ग्राम ढोलखेड़ी।
- पूर्व** – राजस्व ग्राम चक्क जीवाजीपुर, दाउदपुरा, त्रिवेणी शामिल कर अशोक नगर मार्ग से रामलीला चौराहा तक।
- दक्षिण** – रामलीला चौराहा से महल घाट रोड तक तद पश्चात् वार्ड नं. 01।
- पश्चिम** – वाटर वर्क्स रोड, राजस्व ग्राम ढोलखेड़ी, बेतवा नदी उदयगिरी।

### वार्ड क्रमांक – 39 तमोरिया एवं मिर्जापुर वार्ड

- उत्तर** – वार्ड क्र. 29 से लगकर सागर पुलिया रेलवे लाइन से लगकर उदयनगर कालोनी को लेते हुए चौकसे नगर की वाउण्डी से लगकर नवीन कृषि उपज मण्डी को लेते हुए बराखेड़ा के मेडे से लगकर धतूरिया के नाले तक।
- पूर्व** – कस्वा विदिशा के मेडे पर स्थित नाले को लेते हुए हसनाबाद के पश्चिम दिशा को शामिल कर सागर मैन रोड पर पेट्रोलपंप की आगे की पुलिया धतूरिया गाँव के पहले भगवानसिंह दांगी के मकान को बाहर करते हुए पुलिया के भीतरी भाग तक।
- दक्षिण** – करैयाखेड़ा रोड होते हुए शेरपुर मुजफ्ता के मेडे से लगकर वार्ड क्र. 32 के उत्तर में शक्ति वेयर हाउस के सामने से होते हुए ग्राम चिंडोरिया के मेडे को टच करते हुए नाले से पठान की बाबड़ी लेते हुए अंतिम छोड तक डाबर के मेडे तक।
- पश्चिम** – सांई एनक्लेव के पूर्वी भाग से नाले से लगकर वैशाली विहार कालोनी को लेते हुए वार्ड क्र. 29 से लगकर शहर विदिशा श्री नन्नू बन्नू की भूमि सागर मैन रोड पर श्री रघुवीर यादव की भूमि को लेते हुए डावर के मेडे तक।

Vidisha, the 10<sup>th</sup> September 2014

S.No.-MCV-Pro-2014-864-69- in exercise of the powers confirmed by the notifications of No..... of Urban Development and Environment Department Government of Madhya Pradesh. Collector District Vidisha, Madhya Pradesh Under Section 29 of Madhya Pradesh. Municipal Corporation Act 1961 No. 29 of (1) & Madhya Pradesh. Municipal Under Rules 1994 (8) hereby determine the extent of words of Municipal council Vidisha, District Vidisha as per Schedule below:-

### SCHEDULE

<b>Ward No.</b>	<b>Name of the Ward</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
01	VEETER VATI WARD
02	BIJA MANDAL WARD
03	MAHARANI LAXMI BAI WARD
04	BALAJI WARD
05	MAHA KAVI KALIDAS WARD
06	MAHAVIR SWAMI MARG
07	NANA SAHIB PESHWA WARD
08	RASKHAN WARD
09	CHHATRA PATI SHIVAJI WARD
10	SANT TULSI WARD
11	SHARDHANAND WARD
12	MUNSHI PREM CHAND WARD
13	CHANKYA WARD
14	GANDHI WARD
15	GURU NANAK WARD
16	DURGA WARD
17	INDIRA GANDI WARD
18	RANI DURGAVATI WARD
19	MAHARANA PRATAP WARD
20	KASTURBA WARD
21	SAROJINI NAIDU WARD
22	SANT VINOBA WARD
23	VIVEKANAND WARD
24	RAM KISHAN PARAMHANS WARD
25	DR. RAJINDERA PRASAD WARD
26	DR. AMBEDEKAR WARD
27	SWAMI DAYANAND SARASVATI WARD
28	JAWAHAR LAL NEHRU WARD
29	CHANDERA GUPTA WARD
30	SAHEED BHAGAT SINGH WARD
31	CHANDER SHEKAR AZAD WARD

(1)	(2)
32	SAMARAT ASHOK WARD
33	TAGORE WARD
34	LAL BAHDUR SHASTRI WARD
35	RAJEEV NAGAR WARD
36	DR. RADHA KRISHAN WARD
37	TEELA KHEDI WARD
38	BAISH WARD
39	TAMORIYA, MIRJAPUR WARD

**WARD NO. – 01 VATRAWATI WARD**

- North** – From Raipura, New Basti to guthan up to ashok nagar margto water works road.
- East** – Sulabh Complex Ward no. 17
- South** – Near the Idagah Chouraha mahalghat part to include mukharji nagar up to district RTO attice raipura news basti.
- West** – Idagah Chouraha ke pass south porsen include to mukharji nagar from distt RTO Office raipura new basti.

**WARD NO. – 2 BIJA MANDAL WARD**

- North** – From House of Bhoi on water works Road crossing to base Darwaja latrine tillMasjid.
- East** – From Masjid infront of base darwaja latrine to Imam wada including Janta School and enclosed Vijay Mandir. Tehn cross the road wexcluding Haveli and including behind the gali of hawelil house of Singh house of Beni Prasad Yadav House of Badri Prasad in front of house of Beni Prasad Yadav upto house of Ashok Pandit.
- South** – From house of Ashok Pandit on Maharani LaxmiBai Marg to house of Hemraj including house of Ram Charan Lal, as house of Ashok Betule & cross the road Transformer & house of Keshaw More.
- West** – From House of Hemraj on Raj endra Marg upto house of Bhoi house on Water works road including house of Bhugariti lal Girdhari & Manesh Sharma (R.N. Saxena) then cross the road house of Uma Shankar Tiwari, Sharda Mandir cross the road floormill of Ramesh Sahu on Baksaria Road area of Jheel Wala Kuwari.

**WARD NO. – 3 MAHARANI LAXMI BAI WARD**

- North** – From house of Kakku Maharaj infront of Balajee Mandir to Maharashtra Bhawan including house of Dixitg Samadham Bhawan on gate Narte Bhawan Gangajal Bhawan, cross the road shops of Nagar Palika excluding Satya Narayanan Mandir.
- East** – From Maharashtra Bhawan to Manoj Bhawan including homeguard office Chopra School Wayayam Shala.
- South** – From Manoj Bhawan to house of V.D. Doli including Pushp roy Bhawan, Cross the road infront of Kanya Shala.

- West** – From house of V.D. Doli to house of Chhakku Maharaj including house of V.D. Soni area of Major near Balajee Mandir and house of Rakwar Master.

#### **WARD NO. – 4 BALAJI WARD**

- North** – From Base Darwaja house of Ram Narayan Dhanna Lal to house of Yakubkhan including house of Shashi Mohad. Acharya Malwali gatre house of Chandra Bhan, house of Gyarsee Lal Yadav.

- East** – From house of Yukub Khan to house of Nand Kishore Shastri including Chhote Lal Parasram Alowa wale Baba cross the Road of Vijay Mandir Hari Shankar Girdawar Whole area of Balajee Mandir and excluding houses on south side on Kartik Chowk.

- South** – From Balajee Mandir to house of Nand Kishore Shastri including Kartik Chowk and Salya Narayan Mandir.

- West** – From house of Nand Kishore Shastri to house of Ram Narayan Dhanna Lal including beauty Paster Satyanarayan Mandir Wali Gali Kartik Chowk Shai Pore Sajan Sindhi Cross the Baya Mandir marg house of Govind Prasad Shastri.

#### **WARD NO. – 5 MAHA KAVI KALIDAS WARD**

- North** – From the Mahal Ghat road and baise darwaza Public latrine including the slum area not fort wall to Harijan Quarter of Municipality near Girla Toppura and south area

- East** – From the house of Khushilal on the Vijay Mandir street including the wal of fort to the house of Panna Harijan on Kalidas street.

- South** – From the house No 70 of Vijay Mandir Street including oswal Mandir Kayasthpura Gali Mohan babu Shrivastva Shreedutt Dewadi and old range Office to the house of Kushi La.

- West** – From the East area of Baise Darwaja and Public latrine including the house of id-mohamad Kazi Gali to the Haweli of Khun Singh with addition of Matra Mandir of Hari Shankar Vyas at Balise Darwaza to House of Thakur Prasad and east region.

#### **WARD NO. – 6 MAHAVIR SWAMI MARG**

- North** – From the Vijay Mandir Marg house of the Ayodhya Prasad ji to the house of Chhuttakan Lal Chhutiji to the house of Battulal Jain.

- East** – Rashkhan Marg from the house No. 1 to Bassa Khan at including Mugal Tola Mazdjid Swami Mahavir Patha Durga Shala to the house of Ayodhaprasad

- South** – From the Vijay Mandir Marg house of the Ayodhya Prasad Ji to the house of Chhuttakan Lal Parvati Shankar.

- West** – From the house of Chhuttakan Lal Parvati Shankar including the house of Narendra Kumar Chuttiji to the house of Battulal Jain.

#### **WARD NO. – 7 NANA SAHIB PESHWA WARD**

- North** – From Raisen Gate on Maharani Laxmi Bai Road to South Portion of West Tail of Khai Basti including Kala Pahad Ram Mandir Mahadev Mandir, house of Jagannath Rao Mule, Basti Situated at beside of boundary of the fort.

- East** – From Nana Shabeb Peshwa Path, Sanjay Gandhi Colony to whole west portion of Raisen Gate, including Pedi School, Hanuman Mandir.

- South** – From Peeriya Jhole Bridge on Down Railway line to North portion of Nagar Palika Latrine situated on Nana Saheb Peshwa Path including Bhagat singh colony, whole area of Nana Ka Bagh crossing the road Idgah Chungi Naka to Manohar Talkies.
- West** – From Bridge of Pooria Jhore to Khai Basti including agriculture field in front of M.P.S.R.T.C. Depot and garden of Rukko Bai.

#### **WARD NO. – 8 RASKHAN WARD**

- North** – From the house of Ram Gopal Chuttakan Lal including the house of Basir Mohammad Bazariya park to the house of Saarbati.
- East** – From Vatravati Marg No. 1 to Bada Bazar including Zhoolan Peer Masjid to the infront of Bazariya Vachanalaya House of the Sarbati.
- South** – Infront of Jagjivan Ram Mancha Savarkar Patha from the shop of Battulal Jain to the shop of Santosha cut piece Bhandar.
- West** – Maharani Laxmi Bai Patha from the stationery shop of the Sil Chand Jain via Raisen Gate east side of Rashkhan Marg house of the Rais Ahmad to the house of Setha Jasarupmao including Mohan Soni house, cross the Vijay Mandir Path to the Bais Darwaza house of the Ram Gopal chuttakan Lal.

#### **WARD NO. – 9 CHHATRA PATI SHIVAJI WARD**

- North** – Banda Baragi Path to Charma Shedan Kendraya to infront of house of Narain Dada cross the road including Machashin Bhai to East side of Boharwadi to Vatravati Path House of Mannu Lal Khawas.
- East** – West side of the corner of Sonakar Bhawan Buiilding of Rangiyapura Charma Soudhan Kendera.
- South** – Vatravati path to Bazariya Vachhanalya cross the road including the house of Raj Kishore Saxena Sant Tulsi Path via Balaji Mandir to the house of Sonakar Bhawan.
- West** – East side Vetravati path from trhe house of Manulal Khawas to the behind Kalari portion including the Jail Building Amar Chand Atta Chhaki to the Bazariya Vachanelaya.

#### **WARD NO. – 10 SANT TULSI WARD**

- North** – From Tulsi street Chorasis Tea stal to the house of Jamuna Lohar (Blacksmith) and south area.
- East** – From the house of Jumman Lohar (Black smith) of Shri Ji Ka Mandir Gali including the house of Narayan Das Maheshwari and with the addition of the house of Balikishan Kothari and wall to the shop of Govind Prasad Vaidhya and south area.
- South** – From Savarkar Street shop of Dhaylall shop to the hair cutting shop of Babu Lal and North area.
- West** – From Vaitrawati street house of Jounu Madni to the shop of Merchand Chaarists and east Annasant.

#### **WARD NO. – 11 SHARDHANAND WARD**

- North** – From house of Harday Mohan Jain to house of Jain Mandir (Maya Traders)

- East** – From Maya Traders to house of Dharam Prakash Mehra including Ganesh Mandir house of Gulab singh, then cross the road including house of Shantilal Nema from house of Sona Vakil (Pradeep Verma to Mahila Kalyan Kendra house of Dubey jee to house of Vimal Chand including house of Majumdar Sahab.
- South** – From House of Vimal chand to house of Niranjan Verma from behind ;of house of Dulli Aahir, including house of Heera Lal Pippal and house of Bahadur Singh after cross the road.
- West** – From house of Niranjan Verma to cross the road from Shri Satya Prakash Mehra to Araya Samaj Mandir including house of Satish Mishra Ram Shankar. Anandhiramthen cross the road from house of SirajAhamad to house of Mohan including house of Gobardhan Upadhaya donger.

#### **WARD NO. – 12 MUNSHI PREM CHAND WARD**

- North** – From Sanchi Road Govrnment Agricultgure Farm Govt. Higher SecondarySchool, Devi Ka Bag including the house of Madwaiya House of Ajay Singh to house of Dr. Veerendra Kumar.
- East** – From Sothiya Fatak road of Down Railway line, tilak marg to Durga Park Women hostel house of Madhav Ganj to house Vimal Chand Jain including and house of Gireesh Verma.
- South** – From Down Railway line to Sothiya railway gate to Govt Agriculture farm including garden complex.
- West** – From House of Vimal Chand Jain to House of Dr. Veerendra including house of Dr. Surya Prakash House of Vishnu Shankar.

#### **WARD NO. – 13 CHANKYA WARD**

- North** – From house of Bhupendra Bansal cross the road including Tilak Murli Shop of Ashok Goyal to shop of Chen Singh Saraf.
- East** – From house of Bhupendra Bansal to house of Ram Gopal Mistri including Hanuman Mandir house of Sunnu Lal.
- South** – From house of Ram Gopal Mistri to house of Omkar Lal Girdawar including house of M.C. Shrivastav ex Deputy Collector then cross the road house of RopNarayan Verma to house of Rajju Lal Mehara.
- West** – From house of Rajjulal Mehra to shop of Chen Singh including Mata Ka Mandir Crossing the road including house of Sirbhaiya.

#### **WARD NO. – 14 GANDHI WARD**

- North** – From Ramji Kumhar house to Bagicha included & crossing the Gali Mubarak House rangiapura Mandir infront of well of Mangala Bhawan.
- East** – Infront of Mangal Bhawan Well to A.H. Gori house to Bharose Mittulal including Ashik Ali House upto IMLI Tree keeping inside Nagar Palika Latrine too Sawarkar Path indide Mool Chand Sahu house.
- South** – Moolchand Sahu House path after Crossing it Ishak Ji house inside Kanchan Jewellers house Paramanand Soni House upto Tilak Marg, Vashisht Ji Station Master house.

**West** – From Tilak Marg Vashisht Ji Railway Station House to Dr. Raghuwanshi Ji House included Harlal Panvari shop and Savarkar Road Crossing Randhir Singh House to Silakri, Paryag Singh ki Street inside Shriji Mandir Ramji Kumhar house.

#### **WARD NO. – 15 GURU NANAK WARD**

**North** – From House of Mathura Prasad on Sawarkar Path to house of Surjeet Singh Chawala, including Bansal Trading Company Ahula Machinery Raj Press.

**East** – From hotel of Surjeet Singh Chawala to shop of Sattar Bhai and Crosse the road from hotel of Maharaja to North Gate of Bal Vihar including east shops of Bal Vihar and including shops of Ajij Bhai to Parya on Dayanand Marg.

**South** – From Paryab Hotel on Dayand Marg to Sulabh Complex including Peeli Kothi house of Shakti Singh & Hospital.

**West** – From Sulabh Complex to house of Mathura Prasad i/c house of Lalta Pasad Shrivastav Shyam Lal Shrivastava from house of Susheela Bai and Ramesh Dubey including Meghdoot House of Moolchand Soni and cross the road including Ram Kishan Tal wale, House of Jagdish Arora.

#### **WARD NO. – 16 DURGA WARD**

**North** – House of Balkishan to Taliya & Front Charmsodan Kendra Near Well and House of Mahesh Jain Babu Bhai and House of Bhari Lal Jain.

**East** – Durga Chowk Marg, House of Bihari Lal Jain to Tukha Ram Patil, Shambhu Dayal Shrivastava & Nagar Palika Bhawan.

**South** – Sarvarkar Path Nagarpalika Bhawan Royalmarket Shakti Singh House Jelowry Printers including Ram Singh Sahu to his House upto.

**West** – From Kumahar Gali Ram Singh House to Pralahad Mat Maggilal Mistri, Karan Singh Thakur, Bharose Sone's Houses to including Balvivan Khub Chand upto their houses.

#### **WARD NO. – 17 INDIRA GANDI WARD**

**North** – From Ram Lila Tiraha Chorisia Hotel and front area including Auyodhiya Bhawan Mela Ground to inside F.C.I. Godown.

**East** – From Bharo Singh Kushwah Garden to Keshav Shastri Garden to F.C.I. Godown.

**South** – From Iddgah Road Guthan Ki Mazjid to including Kalidas Marg to Slighter Kanshi Ram Kushwah Houses, after including their houses, Ram Prasad Kushwah house and Venvati Venvati Martg crossing Gian Chand Jain Vohra and then on Banda Beragi Marg Om Prakash Gupta, Puran Singh House upto house of Bharaon Singh Kushwah.

**West** – At the Ram Lila Tiraha Mohan Lal Chorasia house to Depot side road Guthan Ki Masjid.

#### **WARD NO. – 18 RANI DURGAVATI WARD**

**North** – To keep the Shiva Shati Paper Mills, Kapico Mill inside from Nolaji Mandir Northern Boundry near the Naktala City's Last Boundary.

**East** – Near the Naktala last boundry of City to Sulabh Complex front line is Mohan Singh Rai House to Kishan Singh Pawar House.

**South** – From Kishan Singh Panwar House to R.K. Nigam, Chaturbhuj Sharma, Krishan Kumar Ahirwar, Aman Singh Ahirwar, Raj Kishore Kulshehtra, Prakash, Piarya Lal Ahirwar Chander Mohan Patni after including these house, keeping inside Kuwan, Hanuman Mandir Ram Dayal Sharma upto his house crossing the road Durga Mandir in front of Babu Lal Raikwarwar house to Basant Sharma to Rajkumar Sharma House again pesticides Road cross Kar Maa Hospital Pesticides to keep inside Arjun Singh Bhusa (Straw) Tall

**West** – Arjun Singh Straw (Bhusa) Tall to Janapura Road Eastern Part to take road cross Chaibn Singh Ka Bagicha Hari Singh Driver Drainage Colony and Complete Janapura to keep this inside Marghat Road Rambagh Marghat upto Nolakhi.

#### **WARD NO. – 19 MAHARANA PRATAP WARD**

**North** – No Jatrapura road excluding Bagiche of C hen Singh including narmada coal Depot to Dal mil of Murleedhar Shankar La.

**East** – Including dal mill of Murleedhar Shankar lal cross the road. Babulal k apasya Sankarlee ka Mandir from Pashu Chukitsalya to house of shri Govind Dewalya on veer Hakikat Rai Marg.

**South** – From House of Govind Dewaliya on veer Hakikat Rai Marg to inside gali including house of Mahaveer jain Dector Maheshwari to house of Lakhmi chand jain (Rasik) Then cross the Road excluding sarshawati shishu mandir Jain House of Ram Charan Sen of to Askar TV House of Babulal Shankar Lal.Including house of Kamata Prasad Shree Lal Sharma Derendra Shri Vastar.

**West** – From House of Babulal Shankar Lal to Mangi Lal Sharma including house of Doctor Framkar Om Prakash Saxena then cross the road of gas on Rangia Pura Chouraha. Nagar Palika latrine to including Bharo Singh ka Bagaicha Ram Gopal ka Bageecha on Jatrapura Road in front of South orner.

#### **WARD NO. – 20 KASTURBA WARD**

**North** – Pesticides Road to Durga mandir Road situated mahindera singh rajpur House to shri Durga mandir. To keep the IMLT Tree insisde Bharat Singh House to Kanchedi Lal Sahu Devi Singh Ahirwar House upto Santoshi Mata Mandir.

**East** – To keep the Triangle inside from santoshi mata mandir chote lal Ahirwar, Bahu lal Jain, Chotelal kori, Nane Singh Yadav, Payrelal Surewanshi, Chimanlal, washerman, Gori Shankar Agrawal, Basant Singh Senger, Laxmi Atta Chakki to Nagar Palika Shops and Nagar Palika Quarters to keep inside shri Ram Nagar Chrossing upto Khanchedi lal House.

**South** – Shri Ram Nagar Crossing khanchedi lal prajapati House to Crossing upto madan lal Saligram (Teacher) Sharma House.

**West** – At Shri Ram Nagar Crossing in front of Shankar mandir madan lal saligram Sharma (Teacher) House to Kerosene Depot Nagar Palika Quarters Keeping inside aman Singh Raghuwansi ka TALL and Mahan, Harijan, Udam Singh Bhatt Sahab House to keep these house pesticides road shri Mahindera Singh Rajput House upto.

#### **WARD NO. – 21 SAROJINI NAIDU WARD**

**North** – From Hanuman Mandir Well and front Babulal Rathore House to Nathuram Carpenter and Nand Kishore Rohit Deepak kunj included karori Ahirwar house again road crossing Mulchand kachi house to R.K. Sharma Engineer ka house ofter including his house again road cross Mishri lal Suresh kumar jain Bhawan to Sulabh Complex to Nagtala side upto City last boundry.

- East –** Nagtala Side City Last Boundary to Sulabh Complex inside Eastern Last Border of City to Complete Teachors Colony Bright Carrier School.
- South –** Bright Carrier School to Mandir Boundary to keep inside, and Shankar Tila Deen outside Baraipura School included Community hall,
- West –** Community Hall to Gokal Prasad House Taking that house Ram singh Sikarwar House again road cross chhote lal Ahirwar house to Pokhan lal sahu ka sahu, sadan, Udam Singh Rajput ka Bhawan, Manohar lal Ahirwar House including this Santoshi Mata mandir keep outside road cross karorilal Ahirwar prem kutikishan lal Raikwar, Tulsi lal Ahiwar Ram Prasad Bhoi, Khusi lal Prajapati, Badri Prasad Rathore, house adding Hanuman Mandir Well in front bablu Rathore House.

#### **WARD NO. – 22 SANT VINOBA WARD**

- North –** From the huse of shri Murlidhar Sharma to Saraswati shishu mandire including back side talaiya to Durga Marg.
- East –** West side of Makikat rai marg from the house of shri Bhaopalwaley mulla to the house of murlidhar Sharma.
- South –** west side of Sawarkar path from police kotwali to the house of Bhopalwaley Mulla.
- West –** Durga Marg from police kotwali to sarawati shishu mandir,

#### **WARD NO. – 23 VIVEKA NAND WARD**

- North –** From house of kheemjee shah to Durga marg including talaiya of behind the sararswati shishu mandir.
- East –** From west portion of veer Hakikat Rai marg house of Bhopal wale mullajee to house of kheemjee shah.
- South –** From North Portion of sawarkar path police Kotwali to house of Bhopal wale Mullajee.
- West –** From Durga Marg Police Kotwali to Sarswati mandir including durga Mandir Vinonear factory and house of Jageesh Sharma.

#### **WARD NO. – 24 RAM KRISHAN PARAMHANS WARD**

- North –** From Nav Bharat Press to Ratan Chand Bhadari House including Graveyard to Kothari House Chorawaha (Paramanand Chowk) Cross Malviya Park to keep it in side Mool chund Mistry.
- East –** Mool Chand mistry to Hari Singh Mohata Ander Sirmal Jain House and Railway Quarter keeping the said inside upto Railway Dwon line.
- South –** Shri mal jain railway Quarters keeping inside railway dwon line ke Bank to Bank Railway phatak.
- West –** South an Railway phatak to barjarya sishu mandi sangmitra ledge palod petrol pump than daya Nand Marg cross Subasingh Hotel in front of Hotel old Bus Stand border to old vegetable mandi Lahoti Bhawan, Keeping inside F.C.I. Godown then Road Cross agrawal Bharamshala western shops Road cross Barkul Bhawan Dosi Building Tohn Savarkar Path Cross panna lal Bhagat House Dr. Satish's Clinik Jain Mandir keeping the se inside nev Bharat press.

**WARD NO. – 25 Dr. RAJINDERA PRASAD**

- North** – Keeping the Luhangi Hill of Southorn Part Rajinder Giri Marg Kanshi sahu House to Ayodhiya Prasad House.
- East** – From anesh Ganj Marg Lakshman Prasad House to Kuparam Rewat House and rajinder giri marg lalu das house to western part lihangi to keep inside upto the root of Hill.
- South** – From Ganeshganj Street No. 2 Chandan Lal Sukhlal House to Chinta Rewat House Eastern part.
- West** – Ganeshganj marg street No. 2 Nagar Palika public Latrine Budhe Lal Redas House to Narayan Basanti Lal House of Eastern Part.

**WARD NO. – 26 Dr. AMBEDKAR WARD**

- North** – From House of jahiruddin on Ganesh Ganj Marg to house of Nand kishore patwari including houses of nirpat singh kachhi paro remesh Rathore then cross the road including houses of Narayan singh Raghuwanshi, Ajudhi lal rekwar and Bhanwar Lal including house of nawal rekarwar koccbbhi kuman kachtri mandir till house of Takhat Singh on kalaru road.
- East** – From house of Takhat Singh in kalari road to arjun Ice Factory including house of veer singh Raghuwanshi, Laddha Agency then across the khari phatak road, including Hanuman mandir and near by gali to Railway down line.
- South** – From East-west down Boundry Railway line including railway quarter house of Shankar wale & kali Mazjid house of D.C. jain to saraf Enterprises.
- West** – From Saraf En terprises cross the road serial photo studio including house of dandotiya to house of ghan shyam agrwal from house of ghanshyam agrawal to house of jahiruddin on ganesh ..... including house of har prasad tiwari, house of arayan Prasad houses of Dr. prakash jain kasha ram rekwar house of Banshi lal.

**WARD NO. – 27 SWAMI DAYANAND SARSHWATI WARD**

- North** – Whole inside portion of Mandi Committee compus.
- East** – From house o;f Randheer singh Andiyawale on gadi adda road to last boundry of Mandi committee compus including house of ramesh manora wale east gate of mandir.
- South** – Frm house of Lalli Lyrewale subhash marg gali number two to house of Randheer singh andiya wale including cross the road house of durga bhai house of Nirbhay Singh K.N. Sahu Patwari house of patamber namdeo cross the road including bhagwar sadan house of Vrandawan and house of Raghuveer singh on Gadi Adda Road.
- West** – From boundryl wall of west gate of mandi committee to house of lallityre wale on subhash marg gali number two including east portion.

**WARD NO. – 28 JAWAHARLAL NEHRU WARD**

- North** – Maharishi Dayanand path from the sanga mitra lodge to hotel of shrimal jain including inner portion of Hotel of Shrimal Jain to Nagarpalika Octrol Naka and shiv Mandir to Maliya Park to all asurrounding house of Nand Kishore Jain and Subhash Pathi Malviya Park to house of Jaiprakash Babulal Inner Portion.

- East** – West side of Subhash Marg from the house of Jai Prakash Babulal to down railway plateform including hanuman mandir.
- South** – Sothiya Phatak Railway gate to down railway line including aml to hanuman mandir, to house of the Jaiprakash.
- West** – Sothiya Railway Phatak Gate to sangh mitra lodge including inner portion.

#### **WARD NO. – 29 CHANDER GUPTA WARD**

- North** – Prem Nirpat Singh house to railway up line then up line bank to bank sagar pulia ke last border Northern Western of the City.
- East** – Kariyakheda Marg Northern Part towards southern eastern last border to industrial Area convenient School Sagar Road to keep them inside & Eastern Border of city up railway line.
- South** – From Chandra Shekhar Azad Marg to Kariyakheda's Northern Part to keep the Industrial Area Inside City Southern Eastern Boundary of City.
- West** – From Railway up Line Nirpath Singh House to Dangal Singh Kemkan Then Pitalmill Chouraha Cross Chandra Shekhar Marg at Nagar Palika Shops Industrial Area Kariyakheda Path.

#### **WARD NO. – 30 SAHEED BHAGAT SINGH WARD**

- North** – Diwan singh house to nagar palika latrin inside up railway line and up railway line to side to side khariphatak road cross up line bank to bank to shrivastava house.
- East** – Chandra Shekhar Marg Sanjiv Atta Chakki Kulhar Dr. Sardar singh house vhavsar hotel then road cross nihal singh house to kishan singh house nagar palika Latrine upto up railway Line.
- South** – Chandra Shekhar Azad Marg Gian Chand house to passi Mathura Prasad Sharma keeping in consideration sanju atta chakki karaiya path crossing.
- West** – Up railway line to shrivastava house to harijan locality to keep it inside P.W.I. bungala and then P.W.I. bungalow to halkai Raikwar then from there yadav shinger chand jain house chander shekhar mar ggian chand ain house.

#### **WARD NO. – 31 CHANDRA SHEKHAR AZAD WARD**

- North** – P.W.D. bungalow complex boundry to bhoi pura keep it inside and harijan basti to keep it outside railway up line and from there up line bank to bank hanumant Rai conductor house.
- East** – Om Prakash Arora house to devi singh house harpal house then road cross P.W.Ik. Bungalow (Leaving) compas's Northern Eastern Boundary.
- South** – Chandra Shekhar Azad Marg Distt Musoum A.P. bungalow, B.T.I. Gas Agency considered Om prakash Arora House.
- West** – B.T.I. Road Anumant Rai House to Panday Ji House considering K.C. Pardhan House B.T.I. Road Cross A.B.L. Mathur House Dhani Ram Tea Walo House to Distt Musuems.

#### **WARD NO. – 32 SAMRAT ASHOK WARD**

- North** – Chandra Shekhar Azad Marg circuit house to collector's bungalow and S.A.T.I. Halali Colony to keep it inside kariya kheda way nagar palika latrine and from there kariya kheda road southern line houses considering city northern eastern last boundry.

- East** – Kariyakheda way Northern Eastern Boundry to City Eastern Last Boundry Halali Colony S.A.T.I. to considering inside Eastern southern Last Border
- South** – Eastern-Southern Boundry to Halali Colony, Ahemadpur Road's Eastern Part S.A.T.I. Shri Krishna Colony ke Dr. Maya Saxena House (Leaving it).
- West** – Durga nagar way maya saxena kamkan leaving vidisha typing institute considering circuit house.

#### **WARD NO. – 33 TAGORE WARD**

- North** – Sonthiya Phatak Railway Gate to up ralway line bank to bank plat form no 3 upto western corner.
- East** – Plat form no. 3 eastern chor (corner) up line to matrie chaya, parshant boss houses hari narayan vishvakarma house & hari narayan vishwakarma house to girls high school Dr. Ambika Prasad Sukla Houses Manoj Niketanand Then Youraj Club Cross front takahat Mal Colony up dy labour office (pitaliaya) house to Chandra shekhar azad marg cross durga marg P.W.D. quarters Pankaj Gayakward house.
- South** – Pankaj Gayakwad House to P.C. Jain Dr. Warankar Houses to include to Narayan Prasad Sharma house.
- West** – Rajiv Nagar Road to Narayan Prasad Sharma House to Bhatnagar Khemkan Chander zway road cross gayatri bhawan tagore shall inside sothiya railway phatak.

#### **WARD NO. – 34 LAL BAHADUR SHASTRI WARD**

- North** – From Rajeev Nagar road S.C. Jain House se shripandey durga mandir houxse and durga marg cross dr maya saxena house shri krishan colony inside shri krishan colony eastern northern part (Leaving)
- East** – Shri Krishna Colony Eastern Northern (Leaving) Shri Krishan Colony to Inside to puranura considering city western northern last boundry.
- South** – From City Western Southern last boundry to kahniyalal driver include trihai to forest deptt depot gita atta chahaki to include to parkash joshi house
- West** – Rajeev Nagar road Parkash Joshi House S.C. Jain House.

#### **WARD NO. – 35 RAJEEV NAGAR WARD**

- North** – From main gate of higher secondary school infront of sothiya Fatak to plot of Gopal Nema including bachulal tiwari P.W. office B.L. Yadav.
- East** – From Rajeev Nagar Road Plot of Gopal Nema house of Garu Sahab including Shankar lal Sharma Docter peetaliya then cross the road upto home guard office.
- South** – From home guard office to P.W.D. Quarters including hous of Kamala Nema Hanuman Mandir, then cross the Road upto house of Nayar Sahab.
- West** – From house of Nayar Sahab to Main gate of Jain Higher Secondary School including boundry of Jain Higher Secondary School.

#### **WARD NO. – 36 DOCTOR RADHA KISHAN WARD**

- North** – From Sothiya Railway phatak to ork shop of P.W.D. including bungalow of DFO behind the jain higher secondary school. Police line Dak Bungalow sawar Line.

- East** – Including Jail from Sarwar Line to last boundary of Nagar Palikar including house of saxena L.I.C. including road and south portion of Puranpura.
- South** – Including house of Satyanashan Contractor and chaturvedi thanedar. Last south boundary of Nagar Palika.
- West** – From Sothiya Fatak to side to side railway up line to last west boundary of nagar palika.

#### **WARD NO. – 37 TEELAKHEDI WARD**

- North** – Ward No. 36.
- East** – Ward No. 36 to Ward No. 34.
- South** – Ward No. 34 to revenue village Gurariya and revenue village Sonthiya.
- West** – Revenue village Sonthiya to Ward No. 36.

#### **WARD NO. 38 BAIS WARD**

- North** – Revenue Village Dholkhedi.
- East** – Revenue Village Chakk Jeevajipur, Daudpura, triveni Area include ashoknagar marg to ramleela chouraha.
- South** – Ramleela Chouraha to mahelghat road after ward No. 01.
- West** – Water works road, revenue village dholkhedi cross to betwa nadi udaigiri.

#### **WARD NO.- 39 TAMORIA AND MIRZAPUR WARD**

- North** – Adjacent to ward No. 29 covering Udaynagar adjacent to Sagar Pulia Railway Crossing and starting from the boundary of Chauksey Nagar and covering Krishi Upaz Mandi starting from adjacent to Barakhera ridge to Dhaturia Nullah.
- East** – Covering the ridge locating on the town Vidisha and also covering east direction of Hasanabad towards Sagar main road before Dhaturia Village excluding house of Mr. Bhagwan Singh Dangi upto the internal part of pulia.
- South** – Starting from adjacent to Sherpur Mujafat ridge via Kariyakhera road adjacent to Ward No. 32 towards the north in front of the Shakti Warehouse taking village Chirodiya ridge via Parthan ki Babri till the end of ridge of Dabur.
- West** – Covering Vaishali Vihar Colony adjacent to east part of Sai Enclave via covering land of Shri Raghuvir Yadav on Sagar main road adjacent to City Vidisha land of Nannu Bannu adjacent from Ward No. 29.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
M.B. OJHA, Collector.